

॥ श्रीः ॥

शिवसंहिता.

(भाषाटीकासंहिता.)




श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकयोगिराजश्री ६ स्वा-
मिस्वयंप्रकाशानन्दसरस्वतीनामाज्ञानुसा-
रेण गोस्वामिश्रिमच्चरणपुरीकृतेन
भाषानुवादेन संहिता ।



संयं

खेमराज श्रीकृष्णदासश्रेष्ठिना मुम्बय्यां

स्वकीये “श्रीवेङ्कटेश्वर” (स्टीम) यन्त्रालये
मुद्रित्वा प्रकाशं नीता ।



आवण संवत् १९६०, शके १८२५.

सर्वाधिकार “श्रीवेङ्कटेश्वर” यन्त्रालयाधीशने
स्वाधीन रखा है ।

प्रस्तावना.

—१०५—

सर्व मोक्षकांक्षी महापुरुषोंको विदित होय कि, यह “शिवसंहिता” नामक ग्रंथ जो संसारके उपकारार्थ पूर्व श्रीपार्वतीजीके प्रश्नोत्तर योगमार्गउत्पत्तिकर्ता श्रीशिवजीने कृपापूर्वक योगोपदेश किया सो यह ग्रंथ योगाभ्यासी जनोंको अतिउपकारकहै इस हेतुसे कि, श्रीशिवजीने इसमें ब्रह्मज्ञान और हठयोगक्रिया राजयोगसंहित उत्तम सरलरीतिसे उपदेश किया है इसको परिश्रमसे लाभ करके योगाभ्यासी और मोक्षकांक्षी जनोंके उपकारार्थ श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकयोगीराज श्री ६स्वामी स्वयंप्रकाशानन्दसरस्वतीजीके साधक शिष्य काशीनिवासी गोस्वामी रामचरणपुरीजीके द्वारा भाषानुवाद कराय अब तीसरी वार शुद्ध करके निज “श्रीवेङ्कटेश्वर” (स्टीम) मुद्रायन्त्रालयमें मुद्रित कर प्रसिद्ध किया। अब सर्व शास्त्रवेत्ता बुद्धिमान् जनोंसे प्रार्थना है कि, इस ग्रंथके मूल बंधा टीकामें जहां कहीं दृष्टिदोषसे अशुद्ध रहा होय उसको कृपापूर्वक सुधारदें,

भवदीय शुभाकांक्षी-

खेमराज श्रीकृष्णदास,

“श्रीवेङ्कटेश्वर” यन्त्रालयाध्यक्ष—मुंबई।

शिवसंहितास्थविषयानुक्रमणिका ।

विषया:

पृष्ठांका:

विषया:

पृष्ठांका:

प्रथमः पटलः

अथ मंगलाचरणम्.

१

१८ वज्रोलीमुद्राकथनम्.

११३

१ अथ लयप्रकरणम्.

२

१९ शक्तिचालनकथनम्.

१२१

द्वितीयः पटलः

२ अथ तत्त्वज्ञानोपदेशः

३६

पञ्चमः पटलः

तृतीयः पटलः

३ अथ योगानुष्टानपद्धतिर्यो-

५७

२० अथ योगविद्वादिकथनम्.

१२४

गाभ्यासवर्णनश्च.

८५

२१ धर्मरूपयोगविद्वकथनम्.

१२५

४ सिद्धासनकथनम्.

८६

२२ ज्ञानरूपयोगविद्विकथनम्.

१२६

५ पद्मासनकथनम्.

८८

२३ चतुर्विधबोधकथनम्.

१२८

६ उग्रासनकथनम्.

८९

२४ मृदुसाधकलक्षणम्.

१२९

७ रस्तिकासनकथनम्.

९०

२५ अधिमात्रसाधकलक्षणम्.

१३०

चतुर्थः पटलः

८ अथ मुद्राकथनम्.

९१

२६ मूलाधारपद्मविवरणम्.

१३८

९ योनिमुद्राकथनम्.

९२

२७ स्वाधिष्ठानचक्रविवरणम्.

१५५

१० महामुद्राकथनम्.

९७

२८ मणिपूरचक्रविवरणम्.

१५७

११ महाबंधकथनम्.

१००

२९ अनाहतचक्रविवरणम्.

१५८

१२ महावेधकथनम्.

१०२

३० विशुद्धचक्रविवरणम्.

१५९

१३ खेचरीमुद्राकथनम्.

१०५

३१ अनाहतचक्रविवरणम्.

१६०

१४ जालन्धरबन्धकथनम्.

१०८

३२ विशुद्धचक्रविवरणम्.

१६१

१५ मूलबन्धकथनम्.

१०९

३३ राजाधिराजयोगकथनम्.

१९५

१६ विपरीतकरणीकथनम्.

११०

३४ सहस्रारपद्मविवरणम्.

१७२

१७ उद्घाणबन्धकथनम्.

१११

३५ राजयोगकथनम्.

१८२

इत्यनुक्रमणिका । *

ओ३ म्
श्रीगणेशाय नमः ।

अथ शेवसांहता ।

—
मंगलाचरणम् ।

विघ्नहरण गणनाथजी, बुद्धिगेह तुअ माहे ॥
विघ्न बुद्धि दोनों विकल, नशत जात जगमाहे ॥ १ ॥
बुद्धिराज दीजे हमें, बुद्धि पुत्र गौरीश ॥
योगयुक्ति भाषा करौं, धरि गुरुआज्ञा शीश ॥ २ ॥
शिव आलयमें जायके, होत जीव भवपार ॥
पाय कृपा गुरु शम्भुकी, भञ्जन चहों केवार ॥ ३ ॥
गौरी अब मोहिं दीजिए, अनुशासन सुत जानि ॥
शिवभाषित भाषा रचों, छूटों भवध्रम जानि ॥ ४ ॥
फिर नहिं आवों जगतमें, योग युक्ति सब जानि ॥
मातु कृपा मोपर करहु, शिक्षहुदेहुमोहिंज्ञान ॥ ५ ॥
नाम हमारोहै नहीं, नहीं कर्म गुण त्रास ॥
मातु पुकारत पै अहौं, रामचरणपुरि दास ॥ ६ ॥
श्लोक—यंज्ञातुमेवयतिनो मतिपूर्वमेतत्
संसारसृत्वरकलत्रसुतादिसर्वम् ॥
त्यक्तासमाधिविधिमेवसमाश्रयन्ते
वन्देकमप्यहमजञ्जगदादिवीजम् ॥ ७ ॥

शिवसंहिता

भाषाटीका ।



पथयपटलः

मूलम्—एकज्ञानं नित्यमाद्यन्तशून्यं ना-
न्यत् किञ्चिद्रत्तते वस्तु सत्यम् ॥ यद्दे-
दोस्मि ब्रिन्दियोपाधिना वै ज्ञानस्यायं
भासते नान्यथैव ॥ १ ॥

टीका—केवल एक ज्ञान नित्य आदि अन्तरहित है
ज्ञानसे अलग अन्य कोई वस्तु सत्य संसारमें वर्तमान
नहीं है केवल इन्द्रियोपाधिद्वारा संसार जो भिन्न भिन्न
बोध होता है सो यह ज्ञानमात्रही प्रकाश होता है और
कुछ नहीं है अर्थात् ज्ञानसे भिन्न कुछ नहीं है ॥ १ ॥

मूलम्—अथ भक्तानुरक्तोऽहं वक्ष्ये योगानु-
शासनम् ॥ ईश्वरः सर्वभूतानामात्ममुक्ति-
प्रदायकः ॥ २ ॥ त्यक्ता विवादशीलानां
मतं दुर्ज्ञानहेतुकम् ॥ आत्मज्ञानाय भूता-
नामनन्यगतिचेतसाम् ॥ ३ ॥

टीका—सर्व प्राणिमात्रके ईश्वर आत्ममुक्तिप्रदायक
भक्तवत्सल जिन मनुष्योंको सिवाय आत्मज्ञानके
अन्य गति नहीं है उनके हेतु छूपापूर्वक योगोप-

दश करते हैं विवादशील लोगोंका मत दुर्ज्ञानका
हेतु है यह त्यागनेके योग्य है ॥ २ ॥ ॥ ३ ॥

मूलम्—सत्यं केचित्प्रशंसन्ति तपः शौचं
तथापरे ॥ क्षमां केचित्प्रशंसन्ति तथैव श-
ममार्ज्जवम् ॥ ४ ॥ केचिहानं प्रशंसन्ति पि-
तृकर्म तथापरे ॥ केचित्कर्म प्रशंसन्ति
केचिद्दैराग्यमुत्तमम् ॥ ५ ॥

टीका—कोई सत्यकी प्रशंसा करते हैं, कोई तपस्या-
की, कोई शौचाचारकी, कोई क्षमाकी प्रशंसा, कोई स-
मताकी, कोई सख्ताकी, कोई दानकी प्रशंसा, कोई
पितृकर्मकी, कोई सकाम उपासनाकी, कोई पुरुष
वैराग्यको उत्तम कहते हैं ॥ ४ ॥ ६ ॥

मूलम्—केचिद्दृहस्थकर्माणि प्रशंसन्ति विच-
क्षणाः ॥ अग्निहोत्रादिकं कर्म तथा केचि-
त्परं विदुः ॥ ६ ॥ मन्त्रयोगं प्रशंसन्ति
केचित्तीर्थानुसेवनम् ॥ एवं बहूनुपायां-
स्तु प्रवदन्ति विमुक्तये ॥ ७ ॥

टीका—कोई पुरुष गृहस्थकर्मकी प्रशंसा करते हैं,
कोई बुद्धिमान् पुरुष अग्निहोत्रादिकं कर्मकी प्रशंसा
करते हैं कोई मंत्रादिकं कोई तीर्थसेवन करना मुख्य

(४) शिवमंहिता जाषादीक्षासमेता ॥

समझते हैं इसी प्रकार मनुष्य बहुतसे उपाय मुक्ति के हेतु अपने मतिके अनुसार करते हैं ॥ ६ ॥ ७ ॥

मूलम्—एवं व्यवसिता लोके कृत्याकृत्यविदो जनाः ॥ व्यामोहमेव गच्छन्ति विमुक्ताः पापकर्मभिः ॥ ८ ॥ एतन्मतावलम्बी यो लब्ध्वा दुरितपुण्यके ॥ ऋमतीत्यवशः सोऽत्र जन्ममृत्युपरम्पराम् ॥ ९ ॥

टीका—इसीतरह विधिनिषेध कर्मके जाननेवाले लोग पापकर्मसे रहित होके मोहमेही पड़ते हैं और जो मनुष्य पुण्यपापका अनुष्टान पहिले जो मत कहा है उसके आसरे होके करते हैं उसका फल यह होता है कि, मनुष्य वारंवार संसारमें जन्मता और मरता है अर्थात् शुभाशुभ कर्म करनेसे कदापि मोक्ष नहीं होता परन्तु शुभकर्म करनेसे केवल चित्तकी शुद्धि होती है ॥ ८ ॥ ९ ॥

मूलम्—अन्यैर्मतिमतां श्रेष्ठैर्गुप्तालोकनतत्परैः ॥ आत्मानो बहवः प्रोक्ता नित्याः सर्वगतास्तथा ॥ १० ॥ यद्यत्प्रत्यक्षविषयं तदन्यन्नास्ति चक्षते ॥ कुतः स्वर्गादयः सन्तीत्यन्ये निश्चितमानसाः ॥ ११ ॥

टीका—कोई कोई बुद्धिमान् गुप्तशास्त्रके जाननेमें तत्पर अर्थात् गृहदर्शी बहुत आत्मा नित्य और सर्वव्यापक कहते हैं बहुत प्रत्यक्षवादी यह कहते हैं कि, जो वस्तु प्रत्यक्ष देखनेमें आता है वही सत्य है और कुछ नहीं है जिनकी बुद्धि स्वर्गादिकके न माननेमें निश्चित है ॥ १० ॥ ११ ॥

मूलं—ज्ञानप्रवाह इत्यन्ये शून्यं केचित्परं विदुः ॥ द्वावेव तत्त्वं मन्यन्तेऽपरे प्रकृतिपूरुषौ ॥ १२ ॥

टीका—कोई मनुष्य कहते हैं कि, सिवाय ज्ञानधारके और कुछ नहीं है जो वस्तु संसारमें वर्तमान देखने या सुननेमें आती है या किसी प्रकारसे उसका होना निश्चय होताहै वह सब ज्ञानही है कोई पुरुष यही जानता है कि, सिवाय शून्यके और कुछ नहीं है इसीतरह कोई मनुष्य प्रकृतिपुरुष दोनोंको तत्त्व मानते हैं ॥ १२ ॥

मूलम्—अत्यन्तभिन्नमतयः परमार्थपराङ्गखाः ॥ एवमन्ये तु संचिन्त्य यथामतियथाश्रुतम् ॥ १३ ॥ निरीश्वरमिदं प्राहुः सेश्वरश्च तथापरे ॥ वदन्ति विविधैर्भेदैः सुंयुक्त्याति स्थिकात्तराः ॥ १४ ॥

(६) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

टीका—बहुतसे परमार्थसे वहिमुख जिनकी भिन्न भिन्न मति है अपने मतिके अनुसार कमोंको मानते और करते हैं कोई कहते हैं कि, इश्वर नहीं है इसीतरह बहुत लोग कहते हैं कि, यह संसार विना इश्वरके नहीं है अर्थात् इश्वरहीसे है यही निश्चय जानते हैं अपनी युक्तिसे बहुत रभेद कहते और उसमें स्थिरतासे तत्पर रहते हैं ॥ १३ ॥ १४ ॥

मूलम्—एते चान्ये च मुनिभिः संज्ञाभेदाः
एत्रग्विधाः ॥ शास्त्रेषु कथिता ह्येते लोक-
व्यामोहकारकाः ॥ १५ ॥ एतद्विवादशीला-
नां मतं वलुं न शक्यते ॥ ऋमन्त्यस्मि-
अनाः सर्वे मुक्तिमार्गवहिष्कृताः ॥ १६ ॥

टीका—ऐसे बहुत मुनिलोगोंने नानाप्रकारके मत शास्त्रमें स्थापन किये हैं यह संसारके मोह ऋममें पड़नेका हेतु है अर्थात् शास्त्रमें बहुतप्रकारके मत देखनेसे मनुष्यके चित्तमें ऋम उत्पन्न होता है उस ऋम-का फल यह है कि, अपनी बुद्धिके अनुसार कोई एक मत ग्रहण करके मरणपर्यंत उसमें तत्पर मनुष्य रहता है परंतु अमृत लाभ नहीं होता । ऐसे विवादशीललोगोंका मत वर्णन करनेको हम शक्य नहीं है ।

सुक्तिमार्गसे विसुख होके सब मनुष्य संसारमें भ्रमण करते हैं ॥ १६ ॥ १६ ॥

**मूलम्—आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च
पुनः पुनः ॥ इदमेकं सुनिष्पन्नं योग-
शास्त्रं परं मतम् ॥ १७ ॥**

टीका—श्रीमहादेवजी कहते हैं कि, सब शास्त्रोंको देखके और वारंवार विचारके यह निश्चित हुआ कि, एक यह योगशास्त्र उत्तम परमसंमत है अर्थात् यह सबसे उत्तम है तात्पर्य यह है कि, ऐसे मतको छोड़कर जिसकी प्रशंसा ईश्वर अपने मुखारविन्दसे करते हैं और जिसके ग्रहण करनेसे ब्रह्म करामलकवत् जानपड़ता है मनुष्य विक्षितके तरह इधर उधर चित्तको दौड़ाते हैं और बहुत लोग यह विचारते हैं कि, यह बड़ा कठिन है आश्चर्यकी बात है कि, मनुष्यशरीरसे जब ऐसा उत्तम श्रम न होगा तो जान पड़ता है कि, रोगादिकसे शरीरके नाश होनेसे पछि फिर जब पशुका जन्म होगा तब कुछ ईश्वरके जाननेमें श्रम करेंगे ॥ १७ ॥

**मूलम्—यस्मिन्ज्ञाते सर्वमिदं ज्ञातं भवति
निश्चितम् ॥ तस्मिन्परिश्रमः कार्यः
किमन्यच्छास्त्रभाषितम् ॥ १८ ॥**

टीका—निश्चय जिसके जाननेसे सब संसार जाना जाता है ऐसे योगशास्त्रके जाननेमें परिश्रम करना अवश्य उचितहै फिर अन्य शास्त्र जो कहेहैं उनका क्या प्रयोजन है अर्थात् कुछ प्रयोजन नहीं तात्पर्य यह है कि, पंडित लोग वृथा विवाद करके जो लोग सुमार्गमें जानेकी इच्छा करतेहैं उनको भी ब्रष्ट कर देते हैं ॥ १८ ॥

मूलम्—योगशास्त्रमिदं गोप्यमस्माभिः परिभाषितम् ॥ सुभक्ताय प्रदातव्यं त्रैलोक्ये च महात्मने ॥ १९ ॥

टीका—यह योगशास्त्र जो हमने कहाहै सो परम गोपनीय है यह त्रैलोक्यमें महात्मा और अच्छे भक्त जनोंको देना उचित है तात्पर्य यह है कि, विना ईश्वर-के भक्तिके यह शुभकर्म सिद्ध नहीं होता न उधर चित्तकी वृत्ति जातीहै इस हेतुसे अभक्तजनोंको देना उचित नहींहै ॥ १९ ॥

मूलम्—कर्मकाण्डं ज्ञानकाण्डमिति वेदो द्विधा मतः ॥ भवति द्विविधो भेदो ज्ञानकाण्डस्य कर्मणः ॥ २० ॥ द्विविधः कर्म काण्डः स्यान्निषेधविधिपूर्वकः ॥ निषिद्ध-कर्मकरणे पापं भवति निश्चितम् ॥ विधि-

ना कर्मकरणे पुण्यं भवति निश्चितम्॥२१॥

टीका—कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड वेदके दो प्रत हैं इसमेंभी दो दो भेद कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्डमें भये हैं ॥ २० ॥ उस कर्मकाण्डमें दो प्रकार हैं एक निषेध दूसरा विधि तहाँ निषेध कर्म करनेसे निश्चय पाप होता है विहित कर्म करनेसे निश्चय करके पुण्य होताहै ॥२१॥

**मूलम्—त्रिविधो विधिकूटःस्यान्नित्यनैमित्ति-
काम्यतः॥नित्येऽकृते किलिषं स्यात्का-
म्ये नैमित्तिके फलम्॥ २२ ॥**

टीका—विधि कर्ममें तीन प्रकारका भेद कहाहै नित्य १ नैमित्तिक २ सकाम ३ नित्यकर्म संध्या देवार्चन आदि न करनेसे पाप होता है सकाम अर्थात् जो कर्म फलके इच्छासे किया जाताहै और नैमित्तिक जो तीर्थों में पर्वादिकमें स्नानादिक करते हैं इनके न करनेसे पाप नहीं होता परन्तु करनेसे फल होताहै ॥ २२ ॥

**मूलं—द्विविधन्तु फलं ज्ञेयं स्वर्गो नरक एव
च ॥ स्वर्गो नानाविधश्चैव नरकोपि तथा
भवेत् ॥ २३ ॥**

टीका—फल दो प्रकारका होताहै स्वर्ग और नरक स्वर्ग नानाप्रकारका है ऐसेही नरकभी बहुत प्रकारका

(१०) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

है तात्पर्य यह है कि, जैसा जो मनुष्य शुभाशुभ कर्म करता है वैसेही नरक वा स्वर्गमें जाता है ॥ २३ ॥

**मूलम्-पुण्यकर्मणि वै स्वर्गो नरकः पापक-
र्मणि ॥ कर्मवंधमयी सृष्टिर्नन्यथा भव-
ति ध्रुवम् ॥ २४ ॥**

टीका-पुण्यकर्म करनेसे स्वर्गमें जाता है और पापकर्मसे नरकमें जाता है. संसार कर्मसे निश्चय करके बंधा है दूसरा हेतु नहीं है तात्पर्य यह है कि, जो ईश्वरको जानके कर्मकर्मसे अपनेको राहित समझेगा वह इस बंधसे छूटजायगा ॥ २४ ॥

**मूलम्-जन्तुभिश्चानुभूयते स्वर्गे नानासुखा-
नि च ॥ नानाविधानि दुःखानि नरके दुः-
सहानि वै ॥ २५ ॥**

टीका-प्राणी स्वर्गमें नानाप्रकारके सुखका अनुभव करता है ऐसेही बहुत प्रकारके दुःख दुःख नरकमें भी भोगता है ॥ २५ ॥

**मूलम्-पापकर्मवशादुःखं पुण्यकर्मवशात्सुखं
तस्मात्सुखार्थी विविधं पुण्यं प्रकुरुते ध्रुवं २६**

टीका-पापकर्म करनेसे दुःख होता है और पुण्यकर्म करनेसे सुख होता है इस हेतुसे निश्चय करके सुखार्थी पुरुष नानाप्रकारके पुण्य करते हैं ॥ २६ ॥

मूलम्—पापभोगावसाने तु पुनर्जन्म भवेत्स्वलु ॥ पुण्यभोगावसाने तु नान्यथा भवति द्विवद् ॥ २७ ॥

टीका—पापका फल भोगनेके पीछे अवश्य फिर जन्म होताहै ऐसेही पुण्यफल भोगनेके अंतमें निश्चय फिर जन्म होता है अन्यथा नहीं होता ॥ २७ ॥

मूलम्—स्वर्गेऽपि दुःखसंभोगः परस्त्रीदर्शनाद्विवद् ॥ ततो दुःखमिदं सर्वं भवेत्त्रास्त्यत्र संशयः ॥ २८ ॥

टीका—स्वर्गमेंभी दुःखहैं इस कारणसे कि, उस स्थानमें परस्त्रीका दर्शन अवश्य होताहै उसकी अप्राप्तिमें मानसिक व्यथा उत्पन्न होती है अन्य भी राग द्रेषादि बहुतसे कारण हैं कि, प्राणीके चित्तको स्वर्गमें भी स्थिर नहीं रहने देते इस हेतुसे संसारमें सिवाय दुःखके सुख नहीं है ॥ २८ ॥

मूलम्—तत्कर्मकल्पकैः प्रोक्तं पुण्यपापमिति द्विधा ॥ पुण्यपापमयो बन्धो देहिनां भवति क्रमात् ॥ २९ ॥

टीका—बुद्धिमान् लेखोने पुण्य और पाप दोप्रकारक

कर्म कहाहै इसी पुण्य पापसे शरीर बँधायमान है
अर्थात् वारंवार शरीरधारण करनेका कारण है ॥ २९ ॥
मूलम्—इहामुत्र फलद्वेषी सफलं कर्म सं-
त्यजेत् ॥ नित्यनैमित्तिके संगं त्यक्ता
योगे प्रवर्तते ॥ ३० ॥

टीका—इस लोकका भोग वा परलोकके फलकी
इच्छा और नित्य नैमित्तिक आदि कर्मोंको फलसंहित
त्यागके योगाभ्यास अर्थात् परब्रह्मके विचारमें
महात्मा जनोंके तत्पर रहना उचित है ॥ ३० ॥
मूलं—कर्मकाण्डस्य माहात्म्यं ज्ञात्वा यो-
गी त्यजेत्सुधीः ॥ पुण्यपापद्वयं त्यक्ता
ज्ञानकाण्डे प्रवर्तते ॥ ३१ ॥

टीका— कर्मकाण्डके माहात्म्यको जानके योगीको
उचितहै कि, पुण्य पाप दोनोंको तृणवत् विचारके
त्याग दे और ज्ञानकाण्डमें तत्पर होरहे ॥ ३१ ॥

मूलम्—आत्मा वारे च श्रोतव्यो मंतव्य
इति यच्छ्रुतिः ॥ सा सेव्या तत्प्रयत्नेन
मुक्तिदा हेतुदायिनी ॥ ३२ ॥

टीका— यह श्रुतिका वाक्य है कि, आत्माको सुनो
और आत्माको मनन करो अर्थात् जो कुछ

है सो आत्माही है सो श्रुति मुक्तिकी देनेवाली है
यत्र करके सेवनके योग्य है ॥ ३२ ॥

मूलम्-दुरितेषु च पुण्येषु यो धीवृत्तिं प्रचो-
दयात् ॥ सोऽहं प्रवर्तते मत्तो जगत्सर्वं
चराचरम् ॥ ३३ ॥ सर्वं च दृश्यते
मत्तः सर्वं च मयि लीयते ॥ न तद्भिन्नोऽ-
हमस्मीह मद्भिन्नो न तु किंचन ॥ ३४ ॥

टीका—पाप पुण्य दोनोंमें समानरूपकी बुद्धिको
जो वृत्ति प्रेरणा करती है सो हम हैं और हमसेही सब
जगत् चराचर उत्पन्न है ॥ ३३ ॥ और जो देख पड़ता है
वह सब हम हैं हममेंही सब लीन होता है न वह
हमसे भिन्न है न हम उससे किंचित् मात्र भिन्न हैं ता-
त्पर्य यह है कि, वह आत्मा जिससे यह जगत् उत्पन्न है
हमसे भिन्न नहीं है इस हेतुसे इस संसारके स्थिति
संहार कर्ता हम हैं ऐसी वृत्ति योगीकी रहती है ॥ ३४ ॥

मूलम्-जलपूर्णष्वसंख्येषु शरावेषु यथा-
भवेत् ॥ एकस्य भात्यसंख्यत्वं तद्देदोऽत्र
न दृश्यते ॥ ३५ ॥ उपाधिषु शरावेषु या
संख्या वर्तते परा ॥ सा संख्या भवति
यथा रवौ चात्मनि तत्त्वथा ॥ ३६ ॥

(१४) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

टीका—जलसे भरा असंख्य शराव अर्थात् मृत्तिका आदिके पात्रमें एक सूर्यका अनेक प्रतिरिव देख-पड़ता है वास्तवमें भेद नहीं है जो भेद देख-पड़ता है वह शरावके संख्याका भेद है ॥ ३६ ॥ जिस प्रकारसे शरावके संख्यासे सूर्यमें भेद जान पड़ता है उसी प्रकार मायाकी उपाधिसे संहार भिन्न भिन्न जान पड़ता है वस्तुतः केवल एक ब्रह्म है ॥ ३६ ॥

मूलम्-यथैकः कल्पकः स्वप्ने नानाकृ-
धतयेष्यते ॥ जागरेषि तथाप्येकस्तथैव
बहुधा जगत् ॥ ३७ ॥

टीका—जैसे स्वप्न अवस्थामें एकसे अनेक कल्पना होतीहै निद्राच्युत होजानेपर कुछ नहीं रहता उसी प्रकार मायाके आवरणसे अनेक संसार जात्र पड़ता है जब ज्ञानरूपी खड़से मायाका पटल कटजाता है तब सिवाय शुद्धब्रह्मके और कुछ नहीं रहजाता ॥ ३७ ॥ मूलम्-सर्पबुद्धिर्यथा रजौशुक्तौवा रजतभ्र-
मः ॥ ३८ ॥ तद्वदेवमिदं विश्वं विवृतं पर-
मात्मनि ॥ रजजुश्चानाद्यथा सपो मिथ्या
रूपो निवर्तते ॥ ३९ ॥ आत्मज्ञानात्तथा
यति मिथ्याभूतमिदं जगत् ॥ रौप्यभ्रा-
न्तिरियं याति शुक्तज्ञानाद्यथा खलु ४०

टीका—रस्सीमें सर्पकी भ्रान्ति और सीपीमें चाँदीकी भ्रान्ति होतीहै ॥३८॥ उसी प्रकार शुद्धब्रह्ममें संसारकी शूँठी भ्रान्ति होती है रस्सीके ज्ञान होनेसे शूँठे सर्पका अभाव होजाता है ॥३९॥ उसी तरह आत्मज्ञान होनेसे यह संसार नहीं रहजाता सीपीकोभी अच्छी तरह निश्चय जानलेनेसे चाँदीकी भ्रान्ति दूर होती है ॥ ४० ॥

मूलम्-जगद्भ्रान्तिरियं याति चात्मज्ञानाद्य-
था तथा ॥ यथा रज्जूरगभ्रान्तिर्भवेद्द्वे-
दवशाजगत् ॥ ४१ ॥ तथा जगदिदं
भ्रांतिरध्यासकल्पनाजगत् ॥ आत्मज्ञा-
नाद्यथा नास्ति रज्जुज्ञानाङ्गुजङ्गमः ॥४२॥

टीका—वैसेही आत्मज्ञान होनेसे जगत्की भ्रान्ति दूर होती है जैसे रस्सीमें सर्पकी भ्रान्ति होतीहै ॥ ४१ ॥ उसी तरह आत्मामें अध्यास कल्पनामात्र जगत्की भ्रान्ति है रज्जुवत् ज्ञान होनेसे फिर जगत्का तीनों कालसे अभाव हो जाताहै ॥ ४२ ॥

मूलम्-यथा दोषवशाच्छुक्ळःपीतोभवति ना-
न्यथा ॥ अज्ञानदोषादात्मापि जगद्वति
दुस्त्यजम् ॥ ४३ ॥ दोषनाशे यथा शुक्ळो

(१६) शिवसंहिता भाषाटीकासंमेता ।

तृष्णते रोगिणा त्वयद् ॥ शुद्धज्ञानात्तथा॑-
ज्ञाननाशादात्मा तथा कृतः ॥ ४४ ॥

टीका—जैसे मनुष्यको कवलकी व्याधि अर्थात् पित्तादिकके दोषसे सब वस्तु निश्चय पीतवर्ण देख पड़ता है उसी प्रकार अज्ञानरूपी दोषसे शुद्ध आत्मा भी प्रतीत होता है परन्तु यह झूँठा संसार देख पड़ता है ऐसा अज्ञान बड़े कष्टसे दूर होता है जैसे पित्तादिक दोषके नाश होनेसे फिर यथार्थ देखपड़ता है उसी प्रकार अज्ञान दूर होनेसे शुद्धब्रह्म निर्विकार जानपड़ता है तात्पर्य यह है कि, मनुष्यके पीछे एक अज्ञान की व्याधि बहुत बड़ी लगी है इसकी औषधि आत्मज्ञान है यह बात निश्चय है कि, व्याधि विना औषधिके दूर नहीं होती ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

मूलम्-कालत्रयेषिन यथा रज्जुःसप्तो भवे-
दिति ॥ तथात्मा न भवेद्विश्वं गुणातीतो
नरञ्जनः ॥ ४५ ॥

टीका—जिस तरह स्सी तीनों कालमें सर्व नहीं हो सकती उसी तरह आत्माभी तीनों कालमें कदापि संसार नहीं हो सका अर्थात् नहीं है इस हेतुसे कि, आत्मा गुणातीत है अर्थात् गुणसे रहित है ॥ ४५ ॥

मूलम्-आगमाऽपायिनोऽनित्यानाश्यत्वेने-
श्वरादयः ॥ आत्मबोधेन केनापि शास्त्रा-
देतद्विनिश्चितम् ॥ ४६ ॥

टीका—वह शास्त्र जिसमें आत्मबोधका निरूपण किया है उससे निश्चय है कि, इंद्रादि देवताभी जो ईश्वर कहे जाते हैं नित्यभावसे रहित हैं अर्थात् उनकाभी जनन मरण होता है ॥ ४६ ॥

मूलम्—यथा वातवशात्सिन्धावुत्पन्नाः फेन-
बुद्धुदाः ॥ तथात्मनि समुद्भूतं संसारं
क्षणभंगुरम् ॥ ४७ ॥

टीका—जैसे वायुकी उपाधिसे समुद्रमें फेन और बुद्धुदे उत्पन्न होते हैं क्षणभरमें फिर उसीमें लय हो-जाते हैं तैसेही आत्मासे संसार मायाकी उपाधिसे क्षण-भंगी उत्पन्न होता है फिर उसीमें लंय होजाता है ॥ ४७ ॥
मूलम्-अभेदो भासते नित्यं वस्तुभेदो न
भासते ॥ द्विधात्रिधादिभेदोऽयं ऋमत्वे
पर्यवस्थ्यति ॥ ४८ ॥

टीका—परमात्माका संसारसे सदा अभेद है और किसी वस्तुमें भेद नहीं है एक दो तीन ऐसा जो वस्तु का भेद जान पड़ता है वह ऋमका कारण है ॥ ४८ ॥

(१८) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

मूलम्-यद्युतं यच्च भाव्यं वै मूर्त्तमूर्त्तं तथैव
च ॥ सर्वमेव जगदिदं विवृतं परमा-
त्मनि ॥ ४९ ॥

टीका—जो भया है और जो होगा मूर्त्तिमान् वा
अमूर्त्तिमान् यह सब जगत् आत्मासे मिला है अर्थात्
उससे भिन्न नहीं है ॥ ४९ ॥

मूलम्-कल्पकैः कल्पिता विद्या मिथ्या
जाता मृषात्मिका ॥ एतन्मूलं जगदिदं
कथं सत्यं भविष्यति ॥ ५० ॥

टीका—यह संसार मिथ्याभूत अविद्याकल्पनासे
कल्पित भया है वडे आश्र्यकी बात है कि, जिसकी
जड़ मिथ्या है वह आप कब सत्य होसकता है अर्थात्
सब झूँठ है ॥ ५० ॥

मूलं-चैतन्यात्सर्वमुत्पन्नं जगदेतच्चराच-
रम् ॥ तस्मात्सर्वं परित्यज्य चैतन्यं त
समाश्रयेत् ॥ ५१ ॥

टीका—केवल एक चैतन्य ब्रह्मसे जरायुज, अंडज,
स्वेदज, उद्दिज आदि सकल चराचर संसार उत्पन्न
भया है इस हेतु सबको त्यागिके केवल उसी एक

चतन्य आत्माके आसरे होना उचित है क्यों कि वही
चैतन्य सबका काशण है ॥ ६९ ॥

मूलम्—घटस्याभ्यंतरे बाह्ये यथाकाशं प्रव-
र्तते ॥ तथात्माभ्यंतरे बाह्ये ब्रह्मांडस्य
प्रवर्तते ॥ ७० ॥

टीका—जैसे घटके भीतर बाहर आकाश व्याप्त है
तैसे ही इस ब्रह्मांडके भीतर बाहर आत्मा परिपूर्ण
व्याप्त है ॥ ७० ॥

मूलम्—सततं सर्वभूतेषु यथाकाशं प्रवर्तते ॥
तथात्माभ्यंतरे बाह्ये ब्रह्मांडस्य प्रवर्त-
ते ॥ ७१ ॥ वर्तते सर्वभूतेषु यथाकाशं स-
मंततः ॥ तथात्माभ्यंतरे बाह्ये कार्यवर्गेषु
नित्यशः ॥ ७२ ॥

टीका—जिसप्रकार आकाश सब चरचरमें व्याप्त है
उसीतरह आत्माभी इस जगत्में व्याप्त है अर्थात् आका-
शवत् सब वस्तुमें आत्मा परिपूर्ण व्याप्त है ॥ ७३ ॥ ७४ ॥

मूलम्—असंलग्नं यथाकाशं मिथ्याभूतेषु पं
चम् ॥ असंलग्नस्तथात्मा तु कार्यवर्गेषु
नान्यथा ॥ ७५ ॥

(२०) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

टीका—जिसतरह आकाश सब वस्तुमें मिला है और सबसे अलग है उसीतरह परमात्मा सब वस्तु चराचरमें व्याप्त है और सबसे अलग है ॥ ५६ ॥

मूलम्—ईश्वरादिजगत्सर्वमात्मव्याप्य समन्तः ॥ एकोऽस्ति सच्चिदानन्दः पूर्णो द्वैतविवर्जितः ॥ ५६ ॥

टीका—ब्रह्मा आदि सब जगत्में वही एक आत्मा परिपूर्ण व्याप्त है वह एक सच्चिदानन्दपरिपूर्ण द्वैतरहित है अर्थात् दूसरा कुछ नहीं है ॥ ५६ ॥

मूलम्—यस्मात्प्रकाशको नास्ति स्वप्रकाशो भवेत्ततः ॥ स्वप्रकाशो यतस्तस्मादात्मा ज्योतिःस्वरूपकः ॥ ५७ ॥

टीका—जिसका कोई प्रकाशक नहीं है वह आपही प्रकाशमान है जो अपही प्रकाशमान है वह आत्मा ज्योतिःस्वरूप है ॥ ५७ ॥

मूलम्—अवच्छिन्नो यतो नास्ति देशकालस्वरूपतः ॥ आत्मनः सर्वथा तस्मादात्मा पूर्णो भवेत्खलु ॥ ५८ ॥

टीका—देश करके वा कालके प्रमाणसे वह परच्छिन्न नहीं है अर्थात् उसका इथतापरिमाण नहीं है न

उसमें कालका नियम है इस हेतुसे आत्मा सर्वथा निश्चय पारिपूर्ण है ॥ ५८ ॥

मूलम्-यस्मान्न विद्यते नाशः पंचभूतैर्वृथा-
त्मकैः॥ तस्मादात्मा भवेन्नित्यस्तन्नाशो
न भवेत्खलु ॥ ५९ ॥

टीका—यह जो मिथ्या पंचभूत हैं इनसे उसका नाश
नहीं है इस कारणसे आत्मा नित्य है और यह निश्चय
है कि उसका कभी नाश नहीं होता ॥ ५९ ॥

मूलम्-यस्मात्तदन्यो नास्तीह तस्मादेकोऽ-
स्ति सर्वदा॥ यस्मात्तदन्यो मिथ्या स्या-
दात्मा सत्यो भवेत्खलु ॥ ६० ॥

टीका—जब दूसरा कुछ नहीं है तो एक वही सर्वदा
अद्वैत है जब उसके सिवाय अर्थात् उससे अन्य सब
मिथ्या है तो वही एक शुद्ध आत्मा सत्य है ॥ ६० ॥

मूलम्-अविद्याभूते संसारे दुःखनाशे सुखं
यतः ॥ ज्ञानादाद्यन्तशून्यं स्यात्स्मा-
दात्मा भवेत्सुखम् ॥ ६१ ॥

टीका—यह संसार अविद्यासे उत्पन्न भया है इस-
में दुःखका नाश होनेपर सुख होता है और ज्ञानसे

(२) शिवमहिता भाषादीकासमेता ।

दुःखका आदि अंत शून्य है इस हेतुसे निश्चय आत्मा
हुखस्वरूप है ॥ ६१ ॥

मूलम्-यस्मान्नाशितमज्ञानं ज्ञानेन विश्व-
कारणम् ॥ तस्मादात्मा भवेजज्ञानं ज्ञानं
तस्मात्सनातनम् ॥ ६२ ॥

टीका—जिसकरके अज्ञान नाश होताहै और यह
जान पड़ताहै कि अज्ञानही संसारका कारण है सोइ
आत्मज्ञान है और ज्ञानही नित्य है ॥ ६२ ॥

मूलम्-कालतो विविधं विश्वं यदा चैव भवे-
दिदम् ॥ तदेकोऽस्ति स एवात्मा कल्प-
नापथवर्जितः ॥ ६३ ॥

टीका—काल पायके अनेक प्रकारका संसार उत्पन्न
होताहै, सो वह एक आत्मा है वह कल्पनापथवर्जित
है अर्थात् कल्पना नहीं होसकती ॥ ६३ ॥

मूलम्-बाह्यानि सर्वभूतानि विनाशं यान्ति
कालतः ॥ यतो वाचो निवर्त्तते आत्मा
द्वैतविवर्जितः ॥ ६४ ॥

टीका—आत्मासे जो अतिरिक्त वस्तु उत्पन्न है वह
काल पायके नाश होजाती हैं आत्मा द्वैतरहित है,

अर्थात् एक है इसका वर्णन नहीं होसकता तात्पर्य यह है कि यावत् वस्तु उत्पन्न होती है उसको काल खाजाता है परन्तु आत्मामें कालकाभी नाश होजाता है ॥६४॥

**मूलम्--न खं वायुर्न चाग्निश्च न जलं पृथिवी
न च ॥ नैतत्कार्यं नेथरादि पूर्णकात्मा
भवेत्खलु ॥ ६५ ॥**

टीका—वह आकाश नहीं है इस हेतुसे कि उसमें शब्द नहीं है वायु नहीं है क्यों कि उसमें स्पर्श नहीं है अग्नि नहीं है काहेसे कि उसमें तेजभाव नहीं है जल नहीं है क्यों कि उसमें रस नहीं है वह पृथिवी नहीं है क्यों कि गन्धरहित है वह कार्य नहीं है क्यों कि उसका कारण नहीं है वह ब्रह्मा इंद्र आदि ईश्वर नहीं है इस हेतुसे कि उसका नाश नहीं होता अर्थात् वह आत्मा न आकाश न वायु न अग्नि न जल न पृथिवी कुछ नहीं है निश्चय केवल एक परिपूर्णब्रह्म है ॥ ६५ ॥

**मूलम्--आत्मानमात्मनो योगी पश्यत्या-
त्मनि निश्चितम् ॥ सर्वसंकल्पसंन्यासी
त्यक्तमिथ्याभवग्रहः ॥ ६६ ॥**

टीका—यह मिथ्यालंसारहूपी गृहको त्यागके सर्वे

(२४) शिवसंहिता भाषादीकासमेता ।

संकल्पसे रहित होके योगी आत्मासे आत्माको
आत्मामें देखता है ॥ ६६ ॥

मूलम्-आत्मनात्मनि चात्मानं द्वद्वानन्तं
सुखात्मकम् ॥ विस्मृत्य विश्वं रमते समा-
धेस्तीव्रतस्तथा ॥ ६७ ॥

टीका—संसार विस्मृति करके अर्थात् भुलाके
आत्मासे आत्माको आत्मारूप होके देखता और
आत्माके आनन्द सुखरूपी तीव्रसमाधिमें योगी रम-
ण करता है ॥ ६७ ॥

मूलम्-मायैव विश्वजननी नान्या तत्त्वधिया
परा ॥ यदा नाशं समायाति विश्वं नास्ति
तदा खलु ॥ ६८ ॥

टीका—माया संसारकी माता है अर्थात् मायासेही
संसार उत्पन्न भयाहै यह निश्चय है कि दुसरा हेतु
इस जगत् के उत्पत्तिका नहीं है ज्ञान करके इस मायाके
नाश होनेसे संसारका अभाव निश्चय जानपड़ता है ॥ ६८ ॥

मूलम्—हेयं सर्वमिदं यस्य माया विलम्भितं
यतः ॥ ततो न प्रीतिविषयस्तु वित्तसु-
खात्मकः ॥ ६९ ॥

टीका—यह जूँठा मायाका प्रपञ्च विषयसुख धन शरीर है इनमें प्रीति करना उचित नहीं है यह सब त्यागनेके योग्य है ॥ ६९ ॥

मूलम्—अरिर्मित्रमुदासीनस्त्रिविधं स्यादिदं जगत् ॥ व्यवहारेषु नियतं दृश्यते नान्यथा पुनः ॥ ७० ॥

टीका—शत्रु मित्र उदासीनता यही तीन प्रकारके व्यवहारका प्रवाह इस संसारमें निश्चय देखपड़ता है ॥ ७० ॥

मूलम्—प्रियाप्रियादिभेदस्तु वस्तुषु नियतः स्फुटम् ॥ आत्मोपाधिवशादेवं भवेत्पुत्रादि नान्यथा ॥ ७१ ॥ मायाविलसितं विश्वं ज्ञात्वैवं श्रुतियुक्तिः ॥ अध्यारोपापवादाभ्यां लयं कुर्वन्ति योगिनः ॥ ७२ ॥

टीका—और प्रिय अप्रिय यही दो भेदसे जगत् बँधा है ॥ आत्माके उपाधिसे पिता पुत्रादि होते हैं यह जगत् मायासे विलसितहै यह श्रुति प्रमाणसे जानेके योगी लोग अध्यारोप अपवादसे आत्मामें लय करते हैं अर्थात् शुद्धचैतन्यका मननं करते हैं ॥ ७१ ॥ ७२ ॥

मूलम्—कर्मजन्यं विश्वमिदं नत्वकर्मणि

(२६) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

वेदना ॥ निखिलोपाधिहीनो वै यदा
भवति पूरुषः ॥ ७३ ॥

टीका—इस जगत्की स्थिति कर्मसे है अर्थात्
सुख दुःख जन्म मरण आदि क्लेशोंका कारण कर्मही
है अकर्म होजानेसे फिर कुछ दुःख नहीं है यावत्
मायाके उपाधिको जब पुरुष जीतके उससे रहित
होजाताहै ॥ ७३ ॥

मूलम्—तदा विजयतेऽखंडज्ञानरूपी निरं-
जनः ॥ स हि कामयते पुरुषः सृजते च
प्रजाः स्वयम् ॥ ७४ ॥

टीका—तब अखंडज्ञानरूपी निरंजनका भान हो-
ताहै ॥ आत्मा अपने इच्छासे जगत् सृजता अर्थात्
उत्पन्न करता है ॥ ७४ ॥

मूलम्—अविद्या भासते यस्मात्स्मान्मि-
थ्या स्वभावतः ॥ शुद्धे ब्रह्मणि संबद्धो
विद्यया सहजो भवेत् ॥ ७५ ॥

टीका—यह इच्छा अविद्याका कार्य है अविद्या नाम
मिथ्याका है तो जब इच्छाही मिथ्या मायासे उत्पन्न है
तो उस इच्छाका कार्य कब सत्य होसकता है तात्पर्य
यह है कि, मायाके उपाधिसे आत्माका यह इच्छाभूत

संसार मनोराज्यवत् है. जैसे मनुष्यका मनोराज्य मि-
थ्या है, उसी प्रकार आत्माका इच्छाभूत यह जगत् भी
मिथ्याहै शुद्धब्रह्ममें ज्ञानरूपी विद्याका संबन्ध है ॥७६॥

**मूलम्—ब्रह्मतेजोऽशतो याति तत आभास
ते न भः ॥ तस्मात्प्रकाशते वायुर्वायोर-
ग्निस्ततो जलम् ॥ ७६ ॥ प्रकाशते ततः
पृथ्वी कल्पनेयं स्थिता सति ॥ आकाशा-
द्वायुराकाशपवनादग्निसंभवः ॥ ७७ ॥**

टीका—उस ब्रह्मके तेजअंशसे आकाश उत्पन्नभया,
आकाशसे वायु उत्पन्न भया, वायुसे अग्नि उत्पन्न भया
अग्निसे जल भया, जलसे पृथ्वी उत्पन्न भई, यह कल्प-
ना है आकाशसे वायु उत्पन्न भया और आकाश
वायुसे तेज उत्पन्न भया ॥ ७६ ॥ ७७ ॥

**मूलम्—खवातग्नेर्जलं व्योमवाताग्निवारि
तोमही ॥ खंशब्दलक्षणं वायुश्चंचलः स्प-
र्शलक्षणः ॥ ७८ ॥ स्याद्गुपलक्षणं तेजः
संलिलं रसलक्षणम् ॥ गन्धलक्षणिका
पृथ्वी नान्यथा भवति ध्रुवम् ॥ ७९ ॥**

विशेषगुणः प्रस्फुरंति यतः शास्त्रादि-
निर्णयः ॥ शब्दैकगुणमाकाशं द्विगुणो
वायुरुच्यते ॥ ८० ॥ तथैव त्रिगुणं तेजो भ-
वन्त्यापश्चतुर्गुणः ॥ शब्दः स्पर्शश्च रूपं
च रसो गन्धस्तथैव च ॥ ८१ ॥ एतत्पञ्च-
गुणा पृथ्वी कल्पकैः कल्प्यते धुना ॥ चक्षु-
पा गृह्णते रूपं गन्धो ब्राणेन गृह्णते ॥ ८२ ॥

टीका—ओर आकाश वायु अग्निसे जल उत्पन्न भया
और इन चारोंसे पृथ्वी उत्पन्न भई, शब्दगुण आकाश-
का है और स्पर्श गुण वायुका है, रूपगुण तेजका
है, रसगुण जलका है और पृथ्वीका गुण गंध है। इन
पाँच तत्त्वोंमें यह गुण जो ऊपर कहा है विशेष है यह
शास्त्रसे निर्णय भयाहै अन्यथा नहीं है निश्चय है कि,
आकाशमें एक शब्द गुणहै, वायुमें दो गुण हैं, अग्निमें
तीन गुण हैं और जलमें चार गुण हैं, पृथ्वीमें शब्द,
स्पर्श, रूप, रस, गंध, यह पाँचों गुण कल्पित हैं नेत्र
रूपको ग्रहण करता है और नासिका गंध ग्रहण करती
है ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥

मूलम्—रसो रसनयां स्पर्शस्त्वचा संगृह्यते

परम्॥ श्रोत्रेण गृह्यते शब्दो नियतं भाति-
नान्यथा ॥ ८३ ॥

टीका—और जिहासे रस ग्रहण होता है और स्पर्श-
त्वंचा अर्थात् शरीरके चर्मसे ग्रहण होता है वा
बोध होता है और शब्द कर्णसे ग्रहण होता है यह
निश्चय है इसमें अन्यथा नहीं है ॥ ८३ ॥

मूलम्—चैतन्यात्सर्वमुत्पन्नं जगदेतच्चराच-
रम् ॥ अस्तिचेत्कल्पनेयं स्यान्नास्ति
चेदस्ति चिन्मयम् ॥ ८४ ॥

टीका—सब जगत् चराचर उसी एक चैतन्यसे
उत्पन्न भया है यदि संसार सत्य मानाजाय तो इस प्रका-
रसे कल्पना भई है और जो संसारका अभाव है अर्थात्
नहीं है तो वही एक चैतन्य आत्मा है और कुछ नहीं
है ॥ ८४ ॥

मूलम्—पृथ्वी शीर्णा जले मग्ना जलं मग्नञ्च-
तेजसि ॥ लीनं वायौ तथा तेजो व्योम्नि
वातो लयं ययौ ॥ ८५ ॥

टीका—पृथ्वी जलमें मग्न अर्थात् लय होजाती है जला

(३०) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

अग्निमें लयभावको प्राप्त होता है और अग्नि वायुमें लय होजाता है और वायु आकाशमें लीन होजाता है ॥ ८५ ॥
मूलम्-अविद्यायां महाकाशो लीयते परमे
पदे ॥ विक्षेपावरणाशक्तिरुरन्ता दुःख-
रूपिणी ॥ ८६ ॥ जडरूपा महामाया रजः-
सत्त्वतमोगुणा ॥ सा मायावरणाशक्त्या-
वृताविज्ञानरूपिणी ॥ ८७ ॥

टीका—और आकाश अविद्यामें लयभावको प्राप्त होजाता है और यह अविद्या मायाभी परमपदको पहुँच जाती है अर्थात् आत्मामें लय होजाती है. तात्पर्य यह है कि, जो उत्पन्न भयाहै उसका अवश्य नाशहै. ईश्वरकी यह दो शक्ति विक्षेप और आवरण हैं, इनका अंत नहीं है यह महामाया दुःखरूपिणीमें रज, सत्त्व, तम, तीनों गुण हैं समय समयपर इन गुणोंको धारण कर लेती है सो माया आवरणशक्ति ज्ञानको आवृत करके अर्थात् छिपाके अज्ञानरूपिणी होजाती है ॥ ८६ ॥ ८७ ॥

मूलम्-दर्शयेज्जगदाकारं तं विक्षेपस्वभावं-
तः ॥ तमोगुणाधिकाविद्या या सा दुर्गा भवे-
त्स्वयम् ॥ ८८ ॥ ईश्वरं तदुपहितं चैतन्यं तद-

भूद्वृवम् ॥ सत्त्वाधिका च या विद्या लक्ष्मीः
स्याद्विव्यरुपिणी ॥ ८९ ॥ चैतन्यं तदुपहितं
विष्णुर्भवति नान्यथा ॥ रजोगुणाधिका
विद्या ज्ञेया सा वै सरस्वती ॥ यश्चि-
त्स्वरूपो भवति ब्रह्मातदुपधारकः ॥ ९० ॥

टीका—और संसारके आकारको देखतीहै यह विक्षेप
करना उसका स्वभाव है माया जब तमोगुण धारण
करतीहै तब दुर्गारूप होके चैतन्य ईश्वरको उत्पन्न कर-
तीहै और जब सतोगुणको धारण करतीहै तब लक्ष्मी
रूप होके चैतन्य जो विष्णु हैं उनको उत्पन्न करतीहै
जब रजोगुणको धारण करतीहै तब सरस्वतीरूप
होके चैतन्य जो ब्रह्मा हैं उनको उत्पन्न करतीहै अर्थात्
सबके उत्पत्तिका कारण यही जगन्माता महा-
माया है ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥

मूलम्—ईशाद्याः सकला देवा दृश्यन्ते पर-
मात्मनि ॥ शरीरादिजडं सर्वं सा विद्या
तत्तथा तथा ॥ ९१ ॥ एवंरूपेण कल्पन्ते क-
ल्पका विश्वसम्भवम् ॥ तत्त्वातत्त्वं भवती
ह कल्पनान्येन मोदितः ॥ ९२ ॥

(३२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

टीका—हमारे आदि सकल देवता उसी एक परमात्मामें देख पड़ते हैं और शरीरआदि सब जड़ पदार्थ उसी एक विद्या अर्थात् आत्मामें भिन्न भिन्न जान पड़ते हैं इसी तरह बुद्धिमान् लोगोंने संसारके स्थितिकी कल्पना कियाहै कि, तत्त्व अतत्त्व दोनों भयाहै अर्थात् आत्मासेही सब सृष्टिकी उत्पत्ति केवल कल्पनामात्रहै और कुछ किसीने कहा नहींहै ॥ ९१ ॥ ९२ ॥

मूलम्—प्रमेयत्वादिरूपेण सर्वं वस्तु प्रकाश्यते॥तथैव वस्तुनास्त्येव भासको वर्तकः परः ॥९३॥स्वरूपत्वेन रूपेण स्वरूपं वस्तु भाष्यते ॥ विशेषशब्दोपादाने भेदोभवति नान्यथा ॥ ९४ ॥

टीका—प्रमेयरूप . अर्थात् यावत् वस्तु संसारमें हृष्यमान हैं वह सबके प्रकाशका कारण वही एक आत्मा है उपाधिभेदसे भिन्न भिन्न स्वरूपदे खपड़ता है विशेष करके नामभेदसे भेद है अर्थात् ज्ञान और ज्ञेय दोनों वहीहै और कुछ नहींहै ॥ ९३ ॥ ९४ ॥

मूलम्—एकः सत्तापूरितानन्दरूपः पूर्णो व्यापी वर्तते नास्ति किञ्चित् ॥ एतज्ज्ञानं

यः करोत्येव नित्यं मुक्तः स स्यान्मृत्युसं-
सारदुःखात् ॥ ९५ ॥

टीका—एक सत्तामात्र पूरित आत्मदस्वरूप परि-
पूर्ण व्यापी सर्वदा वर्तमानहै और दूसरा कुछ नहीं है
ऐसा ज्ञान जिसको है और सर्वदा वह यही मनन कर-
ता है सो मुक्त है अर्थात् संसारके जन्ममरणआदि
दुःखसे वह रहित है ॥ ९५ ॥

मूलम्—यस्यारोपापवादाभ्यां यत्र सर्वे लयं
गताः ॥ स एको वर्तते नान्यत्तच्चित्तेना-
वधार्यते ॥ ९६ ॥

टीका—जहाँ ज्ञानद्वारा संसारके कार्योंका लय
होजाता है अर्थात् उससे अभेद होजाते हैं उसी एक
सर्वदा वर्तमान आत्मामें मनको लय करे अर्थात्
आत्माकाही ध्यान धारण करे ॥ ९६ ॥

मूलम्—पितुरन्नमयात्कोशाज्जायते पूर्वक-
र्मणः ॥ शरीरं वै जडं दुःखं स्वप्राग्भोगाय
सुन्दरम् ॥ ९७ ॥

टीका—पूर्वकर्मके अनुसार प्राणी पिताके अन्न-
मय कोशसे दुःख भोगनेके कारण जड शरीर सुन्दर
भोगरूप उत्पन्न होता है ॥ ९७ ॥

(३४) शिवसंहिता भाषादीकासमेता ।

मूलम्-मांसास्थिस्नायुमज्जादिनिर्मितं भो-
गमन्दिरम् ॥ केवलं दुःखभोगाय नाडीसं-
ततिगुणं फितम् ॥ ९८ ॥

टीका-मांस अस्थि स्नायु मज्जा आदि नाडियोंसे
बँधाहुआ यह भोगमन्दिर अर्थात् शरीर केवल दुःखका
कारण है, तात्पर्य यह है कि, ऐसा शरीर जिसके उत्पत्ति
स्थितिके स्मरण करनेसे घृणा होतीहै उसमें व्यर्थ मनु-
ष्य मायामें फँसके मोह और अभिमान करताहै ॥ ९८ ॥

मूलम्-पारमेष्ठयमिदं गात्रं पञ्चभूतविनि-
र्मितम् ॥ ब्रह्माण्डसंज्ञकं दुःखसुखभोगाय
कल्पितम् ॥ ९९ ॥

टीका--यह शरीर ब्रह्माके द्वारा पञ्चभूतसे निर्मित
ब्रह्माण्डसंज्ञा सुख दुःख भोगनेके हेतु कल्पितहै ॥ ९९ ॥

मूलम्-बिन्दुः शिवो रजः शक्तिरुभयोर्मि-
लनात्स्वयम् ॥ स्वप्रभूतानि जायन्ते
स्वशक्त्या जडरूपया ॥ १०० ॥

टीका-शिवरूप बिन्दु और शक्तिरूप रज इन दो-
नोंके संबन्धसे ईश्वरकी शक्ति जडरूपा महामाया अ-
पनी प्रभुतास शरीरोंको उत्पन्न करती है ॥ १०० ॥

मूलम्-तत्पञ्चीकरणात्स्थूलान्यसंख्यानि
चराचरम् ॥ ब्रह्मांडस्थाने वस्तुनि यत्र
जीवोऽस्तिकर्मभिः ॥ १०१ ॥ तद्भूतपञ्च-
कात्सर्वं भोगाय जीवसंज्ञिता ॥ १०२ ॥

टीका—उसी पञ्चीकरणसे अनेक स्थूल वस्तु इस
संसारमें चराचर उत्पन्न होती हैं यह जीवभी अपने
कर्मके अनुसार भोग भोगनेके हेतु उसी पांच भूतसे
जीवसंज्ञा करके प्रगट होता है ॥ १०१ ॥ १०२ ॥

मूलम्-पूर्वकर्मानुरोधेन करोमि घटनामहं ॥
अजडः सर्वभूतान्वै जडस्थित्या मुनक्ति
तान् ॥ १०३ ॥

टीका—ईश्वर कहते हैं कि, प्राणीको पूर्व कर्मके अनु-
सार हम उत्पन्न करते हैं और सर्व, भूतोंसे हम अजड
अर्थात् भिन्न और अविनाशी हैं परंतु जडहृषि होके सब-
को हम खाजाते हैं अर्थात् सबका नाश करते हैं ॥ १०३ ॥

मूलम्-जडात्स्वकर्मभिर्बद्धो जीवाख्यो वि-
विधो भवेत् ॥ भोगायोत्पद्यते कर्म ब्रह्मां-
डाख्ये पुनः पुनः ॥ जीवश्च लीयते भोगाव-
साने च स्वकर्मणः ॥ १०४ ॥

३६) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

टीका—जीव अपने कर्ममें वंधके नाना प्रकारके जड़ शरीर धारण करता है और अपने कर्मके फल भोगनेके हेतु संसारमें वारंवार उत्पन्न होता है और सब कर्मोंके अवसानमें अर्थात् जब ज्ञानद्वारा सब कर्मोंसे रहित होजाता है तब उसी ज्ञानस्वरूप आत्मामें लय होजाताहै ॥ १०४ ॥

इति श्रीशिवसंहितायां हस्तगौरीसंवादे लयप्रकरणे
भाषाटीकायां प्रथमः पटलः ॥ १ ॥

अथ द्वितीयपटलः ।

मूलम्—देहेऽस्मन्वर्तते मेरुः सप्तद्वीपसमन्वितः ॥ सरितः सागरः शैलाः क्षेत्राणि क्षेत्रपालकाः ॥ १ ॥ ऋषयो मुनयः सर्वे नक्षत्राणि ग्रहास्तथा ॥ पुण्यतीर्थानि पीठानि वर्तन्ते पीठदेवताः ॥ २ ॥

टीका—प्राणीके इस शरीरमें सप्तद्वीपसहित सुमेरु है और नदी समुद्रआदि पर्वत और क्षेत्र क्षेत्रपाल ऋषि मुनि और सब नक्षत्र ग्रह पुण्यतीर्थ और पीठ देवता आदि सब इसी शरीरमें वर्तमान हैं । तात्पर्य यह है कि, मनुष्य तीर्थोंमें स्नान दर्शनके हेतु भटकता फिरता है, परंतु इस शरीरस्थ तीर्थ और देवताको नहीं जानता न

मनको शुद्ध करके उनके जाननमें प्रयास करता है॥१॥२॥
मूलम्-सृष्टिसंहारकर्तारौ ऋमन्तौ शशि-
भास्करौ॥नभो वायुश्च वहिश्च जलं पृथ्वी
तथैव च ॥ ३ ॥

टीका—सृष्टिके स्थिति संहारके कर्ता चन्द्रमा और
सूर्य इस शरीरमें ऋषण करते हैं और आकाश, वायु,
अग्नि, जल, पृथ्वी, अर्थात् पाँचों तत्त्व सर्वदा शरीरमें
वर्तमान रहते हैं। तात्पर्य यह है कि, सब इसी शरीरमें हैं
परंतु विना गुरुकी कृपाके देख नहीं पड़ते ॥ ३ ॥
मूलम्-त्रैलोक्ये यानि भूतानि तानि सर्वा-
णि देहतः ॥ मेरुं संवेष्ट्य सर्वत्र व्यवहारः
प्रवर्तते ॥ जानाति यः सर्वमिदं स योगी
नात्र संशयः ॥ ४ ॥

टीका—जो त्रैलोक्यमें चराचर वस्तु हैं सो सब इसी
शरीरमें मेरुके आश्रय होके सर्वत्र अपने २ व्यवहार
को वर्तते हैं जो मनुष्य यह सब जानता है सो योगी है
इसमें संशय नहीं है ॥ ४ ॥

मूलम्-ब्रह्माण्डसंज्ञके देहे यथादेशं व्यव-
स्थितः ॥ मेरुङ्गे सुधारश्चिर्मर्बहिरष्टक-
लायुतः ॥ ५ ॥

टीका—यह शरीर ब्रह्माण्डसंज्ञक है जिस तरह संसार में सब देश और सुमेरु पर्वत है उसी तरह शरीर में मेरु है उसके ऊपर सुधाकर अर्थात् चन्द्रमा आठ कलासे स्थित है ॥ ६ ॥

मूलम्—वर्ततेऽहनिंशं सोऽपि सुधांवर्षत्यधोमुखः ॥ ६ ॥ ततोऽमृतं द्विधाभूतं याति सूक्ष्मं यथा च वै ॥ इडामार्गेण पुष्टचर्थं याति मन्दाकिनीजलम् ॥ पुष्णाति सकलं देहमिडामार्गेण निश्चितम् ॥ ७ ॥

टीका—सोई चन्द्रमा रात्रि दिवस अधोमुख होके अमृतकी वर्षा करते हैं वह अमृत सूक्ष्म दो भाग हो-जाता है सो मन्दाकिनीके जलके समान देहके रक्षार्थ इडा जो वामनाडी है उसके रन्ध्रसे सकल शरीरको पोषण करता है ॥ ६ ॥ ७ ॥

मूलम्—एष पीयूषरश्मिर्हि वामपाश्वै व्यवस्थितः ॥ ८ ॥ अपरः शुद्धदुग्धाभो हठात्कर्षति मण्डलात् ॥ रन्ध्रमार्गेण सृष्टचर्थं मेरी संयाति चन्द्रमाः ॥ ९ ॥

टीका—वही सुधाकिरण संयुक्त इडा नाडीकी स्थिति वामभाग में है और शुद्ध दूध के समान मेरुमें चन्द्रम

प्रसन्नतापूर्वक अपने मण्डलसे इडाके रन्ध्रमांगसे आ-
यके देहीका पोषण करते हैं॥ ८॥ ९॥

मूलम्—मेरुमूले स्थितः सूर्यः कलाद्वादशसं-
युतः ॥ दक्षिणे पथि रश्मिभिर्वहत्यूधर्व प्र-
जापतिः ॥ १० ॥

टीका—मेरुदण्डके मूलमें अर्थात् नीचे वारह कला-
संयुक्त सूर्य स्थित हैं दक्षिणपथ अर्थात् पिङ्गलानाडी
द्वारा प्रजापति स्वरूपकी गति ऊपरको है ॥ १० ॥

मूलम्—पीयूषरश्मिनिर्यासं धातुंश्च ग्रसति
ध्रुवम् ॥ समीरमण्डले सूर्यो भ्रमते सर्व-
विग्रहे ॥ ११ ॥

टीका—सूर्य अमृतधातुको अपने किरण शक्तिसे
ग्रास करता है और वायुमण्डलके साथ सब शरीरमें
भ्रमण करते हैं ॥ ११ ॥

मूलम्—एषा सूर्यपरामूर्तिर्निर्वाणं दक्षिणे प-
थि ॥ वहते लग्नयोगेन सृष्टिसंहारका-
रकः ॥ १२ ॥

टीका—यह सूर्यकी अपर निर्वाण मूर्ति है अर्थात्
पिङ्गलानाडी दक्षिणभागमें स्थित है सूर्य सृष्टिसंहार
करता लग्नयोगसे नाडीद्वारा प्रंवाह करते हैं ॥ १२ ॥

(४०) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

मूलम्—सार्धलक्षत्रयं नाड्यः सन्ति देहान्तरे
नृणाम् ॥ प्रधानभूता नाड्यस्तु तासु मु-
ख्याश्चतुर्दश ॥ १३ ॥ सुषुम्णेडा पिङ्गला
च गांधारी हस्तजिह्विका ॥ कुहूः सरस्व-
ती पूषा शंखिनी च पयस्विनी ॥ १४ ॥ वा-
रुणालम्बुसा चैव विश्वोदरी यशस्विनी ॥
एतासु तिस्रो मुख्याः स्युः पिङ्गलेडा सु-
षुम्णिका ॥ १५ ॥

टीका—शरीरमें बहुत नाडी हैं परंतु उनमें प्रधान
नाडी साढेतीन लक्ष हैं उनमें से मुख्य यह चौदह ना-
डी है १ सुषुम्णा २ इडा ३ पिङ्गला ४ गांधारी ५ हस्त-
जिह्वा ६ कुहू ७ सरस्वती ८ पूषा ९ शंखिनी १० पय-
स्विनी ११ वारुणा १२ अलंबुसा १३ विश्वोदरी १४ यश-
स्विनी इन चौदहमें भी तीन नाडी मुख्य हैं इडा, पिङ्ग-
ला, सुषुम्णा ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥

मूलम्—तिसृष्टेका सुषुम्णैव मुख्या सा
योगिवल्लभा ॥ अन्यास्तदाश्रयं कृत्वा
नाड्यः सन्ति हि देहिनाम् ॥ १६ ॥

टीका—इडा, पिङ्गला, सुषुम्णा इन तीन नाडियोंमें

भी एकही सुषुम्णा मुख्य है इस कारणसे कि, परमपदकी दाता है योगी लोगोंको हितकारी है अन्य नाड़ी उसके आश्रय शरीरमें रहती हैं ॥ १६ ॥

मूलम्--नाडयस्तु ता अधोवदनाःपद्मतन्तु-
निभाः स्थिताः ॥ पृष्ठवंशं समाश्रित्य-
सोमसूर्याग्निरूपिणी ॥ १७ ॥

टीका—यह तीनों नाडी अधोवदनाहैं अर्थात् नीचेको मुख कमलतन्तुके सदृश हैं और चन्द्र सूर्य आग्निके समान हैं अर्थात् इडा चन्द्ररूप और पिङ्गला सूर्यरूप और सुषुम्णा अग्निरूप है यह तीनों नाडी मेरुदंडके आश्रय स्थित हैं ॥ १७ ॥

मूलम्-तासां मध्ये गता नाडी चित्रा सा-
मम वल्लभा ॥ ब्रह्मरन्ध्रश्च तत्रैव सूक्ष्मा-
त्सूक्ष्मतरं शुभम् ॥ १८ ॥

टीका—उन तीनों नाडियोंके मध्यमें जो चित्रा नाडी है वह हमको प्रिय है उसी स्थानमें बहुत सूक्ष्म ब्रह्मरन्ध्र शोभायमान है ॥ १८ ॥

मूलम्-पञ्चवर्णोज्जवला शुद्धा सुषुम्णा
मध्यचारिणी ॥ देहस्योपाधिरूपा सा
सुषुम्णा मध्यरूपिणी ॥ १९ ॥

(४२) शिवसंहिता भाषादीकासमेता ।

टीका—वह चित्रानाडी पंचवर्ण अतिउज्ज्वल शुद्ध है और देहके उपाधिका कारणभी वही सुषुम्णान्तर्गता अर्थात् चित्रा नाडी है। तात्पर्य यह है कि, आत्मस्वरूप वही है ॥ १९ ॥

मूलम्—दिव्यमार्गमिदं प्रोक्तममृतानन्दकारकम् ॥ ध्यानमात्रेण योगींद्रो दुरितौं विनाशयेत् ॥ २० ॥

टीका—यह मार्ग बहुत श्रेष्ठ अमृतानन्दकारक मुक्तिका दाता हमने कहा है जिसके ध्यानमात्रसे योगी लोगोंके पापका समूह नाश होजाता है ॥ २० ॥

मूलम्—गुदात्तु द्विंगुलादूर्ध्वं मेद्रात्तु द्विंगुलादधः ॥ चतुरंगुलविस्तारमाधारं वर्तते समम् ॥ २१ ॥

टीका—गुदासे दो अंगुल ऊपर और मेद्रसे दो अंगुल नीचे मध्यमें चार अंगुल विस्तार आधारपद्म है ॥ २१ ॥

मूलम्—तस्मिन्नाधारपद्मे च कर्णिकायां सुशोभना ॥ त्रिकोणा वर्तते योनिः सर्वतंत्रेषु गोपिता ॥ २२ ॥

टीका—उस आधारपद्मके कर्णिकामें अर्थात् डंडीमें

त्रिकोण योनि है यह योनि सब तंत्रों करके गोपित है अर्थात् इसके प्रकाशकरनेकी आज्ञा किसी शास्त्रमें नहीं है ॥ २२ ॥

मूलम्—तत्र विद्युल्लताकारा कुण्डली परदे-वता ॥ सार्वत्रिकरा कुटिला सुषुम्णा मार्ग संस्थिता ॥ २३ ॥

टीका—उसी स्थानमें कुण्डलिनी देवता साढेतीन हात कुटिला अर्थात् टेढ़ी जिसकी प्रभा विद्युतके समान है सुषुम्णाके मार्गमें स्थित है ॥ २३ ॥

मूलम्—जगत्संसृष्टिरूपा सा निर्माणे सत-तोद्यता ॥ वाचामवाच्या वाग्देवी सदा देवैर्नमस्कृता ॥ २४ ॥

टीका—सोई कुण्डलिनी जगत्के बहुत प्रकारसे उत्साहपूर्वक रचना करनेकी रूप है और वाग्देवी है अर्थात् उसीसे वाक्यका उच्चारण होताहै इस कुण्डलिनी देवीको देवतालोग नमस्कार करते हैं ॥ २४ ॥

मूलम्—इडानाम्नी तु या नाडी वाममार्गे व्यंवस्थिता ॥ सुषुम्णायां समाश्लिष्य दक्षनासापुटे गता ॥ २५ ॥

टीका—जो इडा नाम नाडी वामभागमें है वह सु-

(४४) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

षुम्णाको आवृत करती हुई अर्थात् उससे मिली हुई नासिकाके दक्षिणद्वारको गई है ॥ २५ ॥

मूलम्-पिङ्गला नाम या नाडी दक्षमार्गे व्यवस्थिता ॥ सुषुम्णा सा समाश्तिष्ठ वामनासापुटे गता ॥ २६ ॥

टीका—दक्षिणमार्गमें जो पिङ्गला नाडी है वह सुषुम्णाके आसरे होके नासिकाके वामद्वारको गई है ॥ २६ ॥

मूलम्-इडापिंगलयोर्मध्ये सुषुम्णा या भवेत्खलु ॥ पदस्थानेषु च पदशक्तिं पदपद्मं योगिनो विदुः ॥ २७ ॥

टीका—इडा पिङ्गलाके मध्यमें सुषुम्णा है इस सुषुम्णाके छः स्थानमें छः शक्ति हैं इनके नाम यह हैं डाकिनी, हाकिनी, काकिनी, लाकिनी; राकिनी, शाकिनी, और इन्हीं छः स्थानोंमें छः पद्म हैं उनके नाम यह हैं आधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा यह अपने ज्ञानसे योगी लोग जानते हैं ॥ २७ ॥

मूलम्-पञ्चस्थानं सुषुम्णाया नामानि स्युर्वहूनि च ॥ प्रयोजनवशात्तानि ज्ञात-नीह शास्त्रतः ॥ २८ ॥

टीका--सुषुम्णाके पांच स्थान हैं उनके नाम बहुत हैं प्रयोजनसे शास्त्रकरके जाना जाताहै ॥ २८ ॥

मूलम्--अन्या याऽस्त्यपरा नाडी मूलाधा-
रात्समुत्थिताः॥रसनामेदूनयनं पादांगुष्टे
च श्रोत्रकम् ॥ २९ ॥ कुक्षिकक्षांगुष्टकर्णं
सर्वांगं पायुकुक्षिकम्॥लब्धवातां वै निव-
र्तन्ते यथादेशसमुद्भवाः ॥ ३० ॥

टीका--और अन्य नाडी मूलाधारसे उठीहैं और जिह्वा, मेढ़, नेत्र, पादका अङ्गुष्ट, कर्ण, कुक्षि, कक्ष, हस्ताङ्गुष्ट, पायु, उपस्थ, इन सब अङ्गोंमें इनका अन्त भयाहै अर्थात् मूलाधारसे उत्पन्न होके अपने अपने स्थानमें जाके निवृत्त होगई हैं ॥ २९ ॥ ३० ॥

मूलम्--एताभ्य एव नाडीभ्यः शाखोपशा-
खतः क्रमात् ॥ सार्धलक्षत्रयं जातं यथा-
भागं व्यवस्थितम् ॥ ३१ ॥ एता भोगवहा
नाडयो वायुसञ्चारदक्षकाः ॥ ओतप्रोताः
सुसंव्याप्य तिष्ठन्त्यस्मिन्कलेवरे ॥ ३२ ॥

टीका--इन्हीं नाडियोंमेंसे शाखोपशाख क्रमसे
साढेतीनलक्ष नाडी उत्पन्न होके अपने अपने स्थानमें
स्थित हैं यह सब भोगवहांनाडी वायुके संचारमें

(४६) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

दक्षहैं ओतप्रोत अर्थात् संयोग वियोगसे इस शरीरमें
व्याप्त हैं ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

मूलम्-सूर्यमण्डलमध्यस्थः कलाद्वादश-
संयुतः॥ वस्तिदेशे ज्वलद्विर्वर्तते चान्न-
पाचकः ॥ ३३ ॥ वैश्वानराग्निरेषो वै मम
तेजोंशसम्भवः ॥ करोति विविधं पाकं
प्राणिनां देहमास्थितः ॥ ३४ ॥

टीका—द्वादशकलासंयुक्त सूर्यमण्डलके मध्यमें
प्रज्वलित अग्नि है सो वस्तिदेशमें अन्नका पाचन
करती है वह वैश्वानर अग्नि हमारे तेजसे उत्पन्न है
प्राणिके शरीरमें स्थित होकर नाना प्रकारका पाक
करती है ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

मूलम्-आयुःप्रदायको वहिर्बलं पुष्टिं द-
दाति सः ॥ शरीरपाटवश्वापि ध्वस्तरोग
समुद्भवः ॥ ३५ ॥

टीका—सो वैश्वानर अग्नि आयु, बल और
पुष्टता और शरीरमें कान्तिका देनेवाला है और यावत्
रोगोंको नाश करनेवाला है ॥ ३५ ॥

मूलम्-तस्माद्वैश्वानराग्निञ्च प्रज्वाल्य वि-

धिवत्सुधीः ॥ तस्मन्नन् हुनेयोगी प्रत्य-
हं गुरुशिक्षया ॥ ३६ ॥

टीका—इस वैशानर अग्निको गुरुके शिक्षापूर्वक प्रज्वलित करके नित्य उसमें अग्नका होम करै अर्थात् भोजन करै ॥ ३६ ॥

मूलम्-ब्रह्माण्डसंज्ञके देहे स्थानानि स्युर्ब-
हूनि च ॥ मयोक्तानि प्रधानानि ज्ञात-
व्यानीह शास्त्रके ॥ ३७ ॥ नानाप्रकारना-
मानि स्थानानि विविधानि च ॥ वर्तन्ते
विग्रहे तानि कथितुं नैव शक्यते ॥ ३८ ॥

टीका—यह शरीर ब्रह्माण्डसंज्ञक है इसमें बहुत स्थान हैं हमने प्रधान प्रधान स्थान कहे हैं ये शास्त्रसे जाने जाते हैं बहुत प्रकारके स्थान और नाम उन स्थानोंके हैं जो इस शरीरमें कर्तमानहैं उनके वर्णन करनेको हम शक्य नहीं है अर्थात् बहुत विस्तार है उसके कहनेमें व्यर्थ परिश्रम है ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

मूलम्-इत्थं प्रकल्पिते देहे जीवो वसति
सव्वेगः ॥ अनादिवासनामालाऽलंकृतः
कर्मशृङ्खलः ॥ ३९ ॥

टीका—इसी तरह शरीर कल्पित है और जीव पूर्व-

(४८) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

वासनारूपी बेढ़ीमें फँसके मालाके तरह घूमा
करता है ॥ ३९ ॥

मूलम्--नानाविधगुणोपेतः सर्वव्यापारका-
रकः ॥ पूर्वार्जितानि कर्माणि भुनक्ति
विविधानि च ॥ ४० ॥

टीका—सोई जीव नानाप्रकारके गुण ग्रहण करता है
और संसारमें बहुत प्रकारके व्यापार करता है यह सब
पूर्वार्जित शुभाशुभ कर्मके फल भोगता है ॥ ४० ॥
मूलम्—यद्यत्संदृश्यते लोके सर्वतत्कर्मस-
भवम् ॥ सर्वः कर्मानुसारेण जन्तुभोगा-
नभुनक्ति वै ॥ ४१ ॥

टीका—जो जो शुभाशुभ कर्म संसारमें देखपड़-
ता है वह सबका आदिकारण कर्मही है प्राणीमात्र
अपने कर्मके अनुसार भोग भोगता है ॥ ४१ ॥

मूलम्—ये ये कामादयो दोषाः सुखदुःख-
प्रदायकाः ॥ ते ते सर्वे प्रवर्तन्ते जीवकर्मा-
नुसारतः ॥ ४२ ॥

टीका—जो जो काम ऋध आदिसे सुख दुःख होता है
सो सब जीवके कर्महीके अनुसार वर्तता है ॥ ४२ ॥

**मूलम्-पुण्योपरक्तचैतन्ये प्राणान्प्रीणाति
केवलम् ॥ बाह्ये पुण्यमयं प्राप्य भोज्यव-
स्तु स्वयम्भवेत् ॥ ४३ ॥**

टीका—पुण्यकर्मके अनुष्टान करनेसे प्राणीको सुख होता है और बाह्य वस्तु श्रेष्ठ भोजनआदि नानाप्रकारकी वस्तु आपही मिल जातीहै ॥ ४३ ॥

**मूलम्-ततः कर्मबलात्पुंसः सुखं वादुःखमे-
व च ॥ पापोपरक्तचैतन्यं नैव तिष्ठति नि-
श्चितम् ॥ ४४ ॥ न तद्दिन्नो भवेत्सोऽपि त-
द्दिन्नो न तु किञ्चन ॥ मायोपहितचैत-
न्यात्सर्वं वस्तु प्रजायते ॥ ४५ ॥**

टीका—यह प्राणी अपने कर्मके बलसे सुख वा दुःख भोगताहै, जीव जब पापसे आसक्त होताहै तब दुःख भोगताहै, फिर उसको सुखलाभ नहीं होता. जीव अपने कर्मके अनुसार सुख वा दुःख भोगताहै इसमें भिन्नता नहींहै अर्थात् कर्ता भोक्तामें भेद नहीं. चैतन्य आत्मा जब मायोपहित होताहै तब सब वस्तु उत्पन्न होताहै ॥ ४४ ॥ ४५ ॥

मूलम्-यथाकालेपि भोगाय जन्तूनां विवि-

(५०) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

धोद्धवः ॥ यथा दोषवशाच्छुक्तौ रजता-
रोपणं भवेत् ॥ तथा स्वकर्मदोषाद्वै ब्रह्म-
ण्यारोप्यते जगत् ॥ ४६ ॥

टीका—जैसा काल भोगके हेतु निश्चय रहता है
उसमें प्राणी नानाप्रकारसे भोग भोगनेके लिये उत्पन्न
होता है जैसे नेत्रके विकारके कारणसे सीपीमें चाँदीका
आरोप होता है वैसेही अपने कर्मके दोषसे प्राणी ब्र-
ह्ममें मिथ्या जगतका आरोप करता है ॥ ४६ ॥

मूलम्—सवासनाभ्रमोत्पन्नोन्मूलनातिस-
मर्थनम् ॥ उत्पन्नश्वेदीदृशं स्याज्ञानं
मोक्षप्रसाधनम् ॥ ४७ ॥

टीका—वासनासे भ्रम उत्पन्न होता है जबतक
वासनाकी जड़ नहीं जाती तबतक कदापि भ्रम दूर
नहीं होता इसी तरह जब ज्ञान उत्पन्न होता है तब
कुछ नहीं रह जाता इस हेतुसे ज्ञानही मोक्षका
साधन है ॥ ४७ ॥

मूलम्—साक्षाद्वैशेषदृष्टिस्तु साक्षात्कारिणि
विभ्रमे ॥ करणं नान्यथा युक्तया सत्यं
सत्यं मयोदितम् ॥ ४८ ॥

टीका—विशेष करके दृष्टिसे साक्षात् जो देखपड-

ताहै वही साक्षात् ब्रमका कारण है अर्थात् इसी साक्षात् में मनुष्य फँसाहै मायाके आवरणसे बुद्धि आगे नहीं जाती और दूसरा कारण कुछ नहीं है यह हम सत्य कहते हैं ॥ ४८ ॥

मूलम्-साक्षात्कारिभ्रमे साक्षात्साक्षात्कारिणि नाशयेत् ॥ सो हि नास्तीति संसारे भ्रमो नैव निवर्तते ॥ ४९ ॥

टीका—यह साक्षात् वटपट आदिका भ्रम ब्रह्मके प्रत्यक्ष होनेसे नाश होता है विना आत्माके प्रत्यक्ष भये ब्रह्म संसारमें नहीं है यह भ्रम निवृत्त नहीं होता ॥ ४९ ॥
मूलम्-मिथ्याज्ञाननिवृत्तिस्तु विशेषदर्शनाद्वेत् ॥ अन्यथा न निवृत्तिः स्यादृश्यते रजतभ्रमः ॥ ५० ॥

टीका—यह मिथ्या संसारका ज्ञान आत्माका विशेष दर्शन होनेसे निवृत्त होता है और किसीप्रकार इस अज्ञानकी निवृत्ति नहीं होती. जैसे सीपीमें चाँदीका भ्रम विना सीपीके निश्चय भये दूर नहीं होता ॥ ५० ॥
मूलम्-यावन्नोत्पद्यते ज्ञानं साक्षात्कारे निरञ्जने ॥ तावत्सर्वाणि भूतानि दृश्यन्ते विविधानि च ॥ ५१ ॥

(५२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

टीका—जबतक आत्माका साक्षात्कार ज्ञान नहीं होता तबतक सब प्राणी संसार आदि नाना प्रकारके देखपड़ते हैं ॥ ६१ ॥

मूलम्—यदा कर्मार्जितं देहं निर्वाणे साधनं भवेत् ॥ तदा शरीरवहनं सफलं स्यान्न चान्यथा ॥ ६२ ॥

टीका—जो यह कर्मार्जित शरीर है इससे निर्वाण अर्थात् आत्मज्ञानका साधन होयतब इसका जन्म और स्थिति सुफल है नहीं तो व्यर्थ है. तात्पर्य यह है कि, जिस मनुष्यको आत्मज्ञान नहीं हुआ या इस विषयका उसने साधन नहीं किया उसका जन्म केवल माताके दुःख देने और पृथ्वीपर भारके हेतु भया ॥ ६२ ॥

मूलम्—यादृशी वासना मूला वर्तते जीवसंगिनी ॥ तादृशं वहते जन्तुः कृत्याकृत्यविधौ भ्रमम् ॥ ६३ ॥

टीका—जैसी वासना जीवके संग रहती है वैसेही प्राणी शुभाशुभ कर्म भ्रमके वश होके करताहै और उसी वासनासे उत्पन्न और नाश होता रहताहै ॥ ६३ ॥

मूलम्—संसारसागरं तत्तु यदीच्छेद्योगसाधकः ॥ कृत्वा वर्णाश्रिमं कर्म फलवर्जं तदाचरेत् ॥ ६४ ॥

टीका-योगसाधक यदि संसारसे तरनेकी इच्छा करे तो यावत् वर्णाश्रमका कर्म फलरहित करना उचित है ॥ ५४ ॥

मूलम्-विषयासक्तपुरुषा विषयेषु सुखेष्मवः ॥ वाचाभिरुद्धनिर्वाणा वर्तन्ते पापकर्मणि ॥ ५५ ॥

टीका-विषयासक्त पुरुष सुख और विषयकी इच्छा में सर्वदा रहते हैं और पापकर्ममें ऐसे तत्पर रहते हैं कि, वाक्यभी उनका परमार्थ विषयमें रुद्ध रहता है अर्थात् मोक्षका साधन तो बहुत दूर है परन्तु परमार्थकी चर्चासेभी उनको ज्वर चढ़ता है ॥ ५६ ॥

मूलम्-आत्मानमात्मना पश्यन्न किञ्चिदिह पश्यति ॥ तदा कर्मपरित्यागे न दोषोऽस्त्वं मतं मम ॥ ५६ ॥

टीका-जब ज्ञानी आत्मासे आत्माको देखे और सब वस्तुका अभाव जानपडे तब कर्मको त्यागदेनेमें कुछ दोष नहीं है यह हमारा मत है ऐसा श्रीशिवजी जगन्माता पार्वतीजीसे कहते हैं ॥ ५६ ॥

मूलम्-कामादयो विलीयन्ते ज्ञानादेव न चान्यथा ॥ अभावे सर्वतत्त्वानां स्वयं तत्त्वं प्रकाशते ॥ ५७ ॥

(५४) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

टीका—ज्ञानमें काम क्रोधादि सकल पदार्थ लय होजाते हैं इसमें अन्यथा नहीं है, जब स्वयंतत्त्व' अर्थात् आत्मज्ञान प्रकाश होता है तब सब तत्त्वोंका अभाव होजाता है ॥ ६७ ॥

इति श्रीशिवसंहितायां हरगौरीसंवादे योगप्रकथने तत्त्वज्ञानोपदेशो नाम द्वितीयः पटलः ॥ २ ॥

अथ तृतीयपटलः ।

मूलम्—हृद्यस्ति पद्मजं दिव्यं दिव्यलिङ्गेन
भूषितम् ॥ कादिठान्ताक्षरोपेतं द्वादशार्ण
विभूषितम् ॥ १ ॥

टीका—प्राणीके हृदयस्थानमें एक पद्म सुन्दर दिव्यलिङ्गसे शोभायमानहै यह पद्म क-से-ठ-तक द्वादश वर्ण करके शोभित है अर्थात् क-ख-ग-घ-ड-च-छ-ज-झ-भ-ट-ठ ॥ १ ॥

मूलम्—प्राणो वसति तत्रैव वासनाभिरलङ्कृ-
तः ॥ अनादिकर्मसंश्लिष्टः प्राप्याहङ्कार-
संयुतः ॥ २ ॥

टीका—उसी पद्ममें प्राणकी स्थितिहै और अनादि कर्म अहंकारसंयुक्त वासनसे अलङ्कृतहै ॥ २ ॥

मूलम्-प्राणस्य वृत्तिभेदेन नामानि विविधानि च ॥ वर्तन्ते तानि सर्वाणि कथितुं नैव शक्यते ॥ ३ ॥

टीका--प्राणके वृत्तिभेदसे जो इस शरीरमें वायु वर्तमान हैं उनके बहुत प्रकारके नाम हैं जिनके वर्णन करनेको हम शक्य नहीं हैं अर्थात् यहां उनके वर्णन का प्रयोजन नहीं है ॥ ३ ॥

मूलम्-प्राणोऽपानः समानश्चोदानो व्यानश्च पञ्चमः ॥ नागः कूर्मश्चकृकरो देवदत्तो धनञ्जयः ॥ ४ ॥ दशनामानिसुख्यानि मयोक्तानीह शास्त्रके ॥ कुर्वन्ति तेऽत्र कार्याणि प्रेरितानि स्वकर्मभिः ॥ ५ ॥

टीका--प्राणके सुख्य भेदोंका नाम प्राण, अपान, समान, उदान, पांचवां व्यान और नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनञ्जय, यह दश वायु सुख्य हैं हम शास्त्रप्रमाणसे कहते हैं शरीरमें यह वायु अपने कर्मसे प्रेरित होके कार्य करते हैं ॥ ४ ॥ ५ ॥

मूलम्-अत्रापि वायवः पञ्चसुख्याः स्युर्दशतः पुनः ॥ तत्रापि श्रेष्ठकर्त्तरौ प्राणापानौ मयोदितौ ॥ ६ ॥

(५६) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

टीका—वह दश वायुमें पांच मुख्य हैं फिर उनमेंभी निश्चय करके श्रेष्ठ करता श्रीमहादेवजी कहते हैं कि, हमने प्राण और अपानको कहा है ॥ ६ ॥

मूलम्—हादि प्राणोणुदेऽपानः समानोनाभिमण्डले ॥ उदानः कण्ठदेशस्थो व्यानः सर्वशरीरगः ॥ ७ ॥ नागादिवायवः पञ्च कुर्वन्ति ते च विग्रहे ॥ उद्धारोन्मीलनंक्षुत्तुड्जूम्भा हिक्का च पञ्चमः ॥ ८ ॥

टीका—हृदयस्थानमें प्राणकी स्थिति है और ऊदामें अपान और नाभिमण्डलमें समान और कण्ठमें उदान और व्यान सब शरीरमें व्याप्त है और नाग आदि जो पांच वायु हैं वह शरीरमें डकार, हिचकी, जँभाई, कुधा, पिपासा, उन्मीलन अर्थात् निद्रासे जाग्रत् होनेके समय जो नेत्रके खुलनेका हेतु है यह सब कार्य करते हैं ॥ ७ ॥ ८ ॥

मूलम्—अनेन विधिना यो वै ब्रह्माण्डं वेत्ति विग्रहम् ॥ सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम् ॥ ९ ॥

टीका—इस विधिनसे जो पहिले कहा है शरीरको जो मनुष्य ब्रह्माण्ड जानता है वह सर्व पापोंसे मुक्त होके

परमगतिको प्राप्त होता है अर्थात् मोक्ष होता है ॥ ९ ॥
 मूलम्-अधुना कथायिष्यामि क्षिप्रं योगस्य
 सिद्धये ॥ यज्ञात्वा नावसीदान्ति योगि-
 नो योगसाधने ॥ १० ॥

टीका—अब जो हम कहते हैं इस विधि से बहुत
 शीघ्र योग सिद्ध होता है और इसके जान लेने से
 योगीको योगसाधनमें कष्ट नहीं होता ॥ १० ॥
 मूलम्-भवेद्वीर्यवती विद्या गुरुवक्त्रमुद्भ-
 वा ॥ अन्यथा फलहीना स्यान्विर्यार्थ्य-
 तिदुःखदा ॥ ११ ॥

टीका—जो विद्या गुरुके मुख से सुनी वा जानी
 जाती है वह वीर्यवती होती है और अन्य प्रकार से विद्या
 फलहीन निर्वीर्या और अतिदुःख की देनेवाली होती है.
 तात्पर्य यह है कि, योगविद्या वा अन्यविद्या भले प्रकार
 गुरु से जानकर के करना उचित है जो लोक पुस्तक से वा
 किसीको करते देखते योगादिक किया आरम्भ करदे-
 ते हैं उनका कल्याण नहीं होता यथार्थ न जानने से
 कष्टही होता है ॥ ११ ॥

मूलम्-गुरुं सन्तोष्य यत्वेन ये वै विद्यामु-
 पासते ॥ अवलम्बेन विद्यायास्तस्याः
 फलं भवासुयुः ॥ १२ ॥

(५८) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

टीका—गुरुको सब तरहसे प्रसन्न करके जो विद्या मिलती है उस विद्याका फल शीघ्र होता है अर्थात् थोड़े कालमें सिद्ध होजाती है ॥ १२ ॥

मूलम्—गुरुः पिता गुरुमाता गुरुदेवो न संशयः ॥ कर्मणा मनसा वाचा तस्मात्सर्वैः प्रसेव्यते ॥ १३ ॥ गुरुप्रसादतः सर्वं लभ्यते शुभमात्मनः ॥ तस्मात्सेव्यो गुरुर्नित्यमन्यथा न शुभं भवेत् ॥ १४ ॥ प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा स्पृद्धा सव्येन पाणिना ॥ अष्टांगेन न नमस्कुर्याद्गुरुपादसरोरुहम् ॥ १५ ॥

टीका—गुरु पिता और गुरु माता और गुरु देवता है इसमें संशय नहीं है इस हेतुसे गुरुको कर्मसे मनसे वाक्यसे सब प्रकारसे सेवा करना उचित है गुरुके प्रसादसे आत्माका सब शुभ होजाता है इसलिये गुरुकी नित्य सेवा करना उचित है दूसरी तरह शुभ नहीं है गुरुको तीन प्रदक्षिणा करके दक्षिण हाथसे स्पर्श करके गुरुके चरणक्षयलम्बे साष्टांग नमस्कार करना उचित है ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥

मूलम्—श्रद्धयात्मवतां पुंसां सिद्धिर्भवति नान्यथा ॥ अन्यषाञ्च न सिद्धिः स्यात् स्माद्यत्नन साधयेत् ॥ १६ ॥

टीका—जिस पुरुषको श्रद्धा है उसको निश्चय कर-
के विद्या सिद्ध होती है दूसरेको नहीं होती। इस हेतुसे
साधकको उचित है कि यत्नसे साधन करे ॥ १६ ॥

मूलम्—न भवेत्संगयुक्तानां तथाऽविश्वासि-
नामपि ॥ गुरुपूजाविहीनानां तथा च ब-
हुसंगिनाम् ॥ १७ ॥ मिथ्यावादरतानां च
तथा निष्टुरभाषणाम् ॥ गुरुसन्तोपहीना-
नां न सिद्धिः स्यात्कदाचन ॥ १८ ॥

टीका—जिस पुरुषका किसी व्यवहारी मनुष्यसे
अतिसङ्ग है उसको योगविद्या सिद्ध नहीं होती ऐसेही
अविश्वासी और जो गुरुपूजासे हीन हैं और जिनका
बहुत लोगोंसे संग है और वह लोग जो झूठ और
कठोर वचन बोला करते हैं और वह लोग जो गुरुको
प्रसन्न नहीं करते इन लोगोंको, कदापि सिद्धि नहीं
होती ॥ १७ ॥ १८ ॥

मूलम्—फलिष्यतीतिविश्वासःसिद्धेः प्रथम-
लक्षणम् ॥ द्वितीयं श्रद्धया युक्तं तृतीयं गु-
रुपूजनम् ॥ १९ ॥ चतुर्थं समताभावं पञ्चमे-
न्द्रियनिग्रहम् ॥ पष्ठं च प्रमिताहारं सप्त-
म् नैव विद्यते ॥ २० ॥ :

(६०) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

टीका—योगसिद्धि होनेका प्रथम लक्षण यह है कि, उसके सिद्धिमें विश्वास हो दूसरे श्रद्धायुक्त तीसरे गुरु-पूजारत हो चौथे प्राणीमात्रमें समताभाव रखके पांचवें इन्द्रियोंका निप्रह रहे छठवें परिमित भोजन करै यह छः लक्षण योनसिद्धिके हैं और सातवाँ नहीं है ॥ ११ ॥ २० ॥
मूलम्—योगोपदेशं संप्राप्य लब्ध्वा योग विदं गुरुम् ॥ गुरुपदिष्टविधिना धिया निश्चित्य साधयेत् ॥ २१ ॥

टीका—योगवेता गुरुसे योग उपदेश लेके जिस विधिसे गुरु उपदेश करे उस विधिसे बुद्धि निश्चय करके साधन करे ॥ २१ ॥

मूलम्—सुशोभने मठे योगी पद्मासनसमन्वितः ॥ आसनोपरि संविश्य पवनाभ्यासमाचरेत् ॥ २२ ॥

टीका—उपद्रवरहित सुन्दर स्वच्छ और उसका मूल्क्षम रन्ध्र होय उस मठमें पद्मासनसंयुक्त आसनपर बैठके योगी पवनका अभ्यास करे ॥ २२ ॥

मूलम्—समकायः प्राञ्जलिश्च प्रणम्य च गुरुन् सुधीः ॥ दक्षे वामे च विम्बेशं क्षेत्रपालां विकां पुनः ॥ २३ ॥

टीका—समकायः अर्थात् सीधा शरीर करके हाथ जोड़के गुरुको प्रणाम करे और दक्षिण वामभागमें गणेशजीको प्रणाम करे और क्षेत्रपाल और जगन्माता देवीको प्रणाम करना उचित है ॥ २३ ॥

मूलम्—ततश्च दक्षाङ्गष्टेन निरुद्धय पिंगलां सुधीः ॥ इडया पूरयेद्वायुं यथाशत्तया तु कुम्भयेत् ॥ २४ ॥ ततस्त्यक्ता पिंगलया शनैरेव न वेगतः ॥ पुनः पिंगलयाऽपूर्य यथाशत्तया तु कुम्भयेत् ॥ २५ ॥ इडया रेचयेद्वायुं न वेगेन शनैःशनैः ॥ इदं योगविधानेन कुर्याद्विंशतिकुम्भकान् ॥ सर्वद्वन्द्वविनिर्मुक्तः प्रत्यहं विगतालसः ॥ २६ ॥

टीका—इसके पश्चात् दाहने हाथके अंगुष्ठसे पिंगलाको रोककरके इडासे वायुपूरक करे अर्थात् ग्राह्य करे और यथाशक्ति वायुको रोके फिर पिंगलासे शनैः शनैः रेचक अर्थात् वायुको बाहरकरे इसीप्रकार फिर पिंगलासे पूरक करके यथाशक्ति कुम्भक करे फिर इडा से धीरे धीरे रेचक करे वेगसे कदापि न करे इस योगविधानसे वीस कुम्भक करे और सर्वद्वन्द्वसे राहित होजाय अर्थात् एकाकार वृत्ति रखें और नित्य आलस्यको त्याग करके अभ्यास करे ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥

(६२) शिवसंहिता भाषार्टीकासमेता ।

मूलम्-प्रातःकाले च मध्याह्ने सूर्यास्ते
चार्द्धरात्रके ॥ कुर्यादेवं चतुर्वारं कालेष्वे-
तेषु कुम्भकान् ॥ २७ ॥

टीका—पूर्वोक्त विधिमें प्रातःकाल और मध्याह्नमें
और सायंकालमें और अर्द्धरात्रिमें इसीतरह चार बार
नित्य कुम्भक करना उचितहै ॥ २७ ॥

मूलम्-इत्थं मासत्रयं कुर्यादनालस्योदिने
दिने ॥ ततो नाडीविशुद्धिः स्यादविल-
म्बेन निश्चितम् ॥ २८ ॥

टीका—इसीप्रकार आलस्यको छोड़करके तीन मास
नित्यकरे तो उस पुरुषकी नाडी बहुत शीत्र शुद्ध
होजाय यह निश्चय है ॥ २८ ॥

मूलम्-यदा तु नाडीशुद्धिः स्याद्योगिन-
स्तत्त्वदर्शिनः ॥ तदा विध्वस्तदोषश्च
भवेदारम्भसम्भवः ॥ २९ ॥

टीका—तत्त्वदर्शी योगिकी जब नाडी शुद्ध होगी
तब सर्व दोषका नाश होगा और आरम्भका सम्भव
होगा ॥ २९ ॥

मूलम्-चिह्नानि योगिनो देहे दृश्यन्ते ना-
डिशुद्धितः ॥ कथ्यन्ते तु समस्तान्यज्ञा-
नि संक्षेपतो मया ॥ ३० ॥

टीका—नाडी शुद्ध होनेपर जो योगीके शरीरमें
चिह्न देखपड़तेहैं उन सबको हम संक्षेपसे वर्णन
करतेहैं ॥ ३० ॥

मूलम्—समकायः सुगन्धिश्च सुकान्तिः स्वर-
साधकः ॥ ३१ ॥ आरम्भघटकश्चैव यथा
परिचयस्तदा ॥ निष्पत्तिः सर्वयोगेषु
योगावस्था भवन्ति ताः ॥ ३२ ॥

टीका—जब योगीकी नाडी शुद्ध होगी तब समकाय
होजायगा अर्थात् न स्थूल न कृश न वक्र रहेगा और
शरीरमें सुगन्धिसंयुक्त अच्छी कान्ति अर्थात् तेज रहेगा
और वायुस्वरका साधन होजायगा और आरम्भका
लक्षण जान पडेगा और सब योगका ज्ञान होजायगा
इसको योगावस्था कहते हैं ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

मूलम्—आरम्भः कथितोऽस्माभिरधुना वा-
युसिद्धये ॥ अपरः कथ्यते पश्चात्सर्वदुः-
खौघनाशनः ॥ ३३ ॥

टीका—अभी जो हमने कहा है सो प्राणवायु सिद्ध
होनेके आरम्भमें यह चिह्न होता है और इसके पीछे
जो सर्व दुःखका नाश होता है सो कहते हैं ॥ ३३ ॥

मूलम्—प्रौढवहिः सुभोगीं च सुखीसर्वाङ्गः सु-

(६४) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

न्द्रः ॥ संपूर्णहृदयो योगी सर्वोत्साहव-
लान्वितः ॥ जायते योगिनोऽवश्यमेत-
त्सर्व कलेवरे ॥ ३४ ॥

टीका—साधकके शरीरमें जठराग्नि विशेष प्रज्वालित होगी और सर्व अङ्ग सुन्दर सुखपूर्वक सुन्दर भोजन करेगा और बलसंयुक्त सर्व उत्साहसे हृदय योगीका प्रसन्न रहेगा इतने मुण्ड योगीके शरीरमें अवश्य होंगे ॥ ३४
मूलम्—अथ वज्ये प्रवक्ष्यामि योगविवरकं परम् ॥ येन संसारदुःखाविधि तीत्वा यास्यन्ति योगिनः ॥ ३५ ॥

टीका—अब जो योगमें विनाहैं उनको हम कहतेहैं जिनको त्यागके यह संसारहृषी जो दुःखका समुद्र है योगी उसके पार होजाताहै ॥ ३५ ॥

मूलम्—आम्लं रुक्षं तथा तीक्ष्णं लवणं सार्प-
ं कटुम् ॥ वहुलं भ्रमणं प्रातः स्नानं तैल-
विदाहकम् ॥ ३६ ॥ स्तेयं हिंसां जनद्वेषश्चा-
हङ्कारमनार्जवम् ॥ उपवासमसत्यञ्च मोह-
ञ्च प्राणिर्पाडनम् ॥ ३७ ॥ स्त्रीसङ्गमग्निसेवा-
च बहालापं प्रियाप्रियम् ॥ अतीव भोजनं
योगी त्यजेदेतानि निश्चित ॥ ३८ ॥

टीका—खट्टा रुखा तीक्ष्ण लोन सरसों कहुआ
बहुत भ्रमण करना प्रातःकाल स्नान शूनीरमें तेल म-
र्दन करना ॥ ३६ ॥ स्वर्णआदिककी चौरी हिंसा म-
नुष्यसे द्रेष व अहंकार अनार्जव अर्थात् मनुष्यसे प्रेम
न रखना, उपवास, झूठ, ममता, प्राणीको पीड़ा देना ॥ ३७ ॥
झीका सङ्ग, आग्नेयवन, प्रिय, अप्रिय, बहुत बोलना,
बहुत भोजन करना योगीको उचित है कि, यह सब
अवश्य त्यागदे ॥ ३८ ॥

मूलम्—उपायं च प्रवक्ष्यामि क्षिप्रं योगस्य
सिद्धये ॥ गोपनीयं साधकानां येन सि-
द्धिर्भवेत्खलु ॥ ३९ ॥

टीका—अब हम बहुत शीघ्र योग सिद्ध होनेका उपा-
य कहते हैं इसको गोप्य रखनेसे साधकको योग निश्च-
य सिद्ध होजायगा ॥ ३९ ॥

मूलम्—वृतं क्षीरं च मिष्ठानं ताम्बूलं चूर्णव-
र्जितम् ॥ कर्पूरं निष्ठुरं मिठुं सुमठं सूक्ष्मव-
स्त्रकम् ॥ ४० ॥ सिद्धान्तश्रवणं नित्यं वैरा-
ज्यगृहसेवनम् ॥ नामसङ्कीर्तनं विष्णोः सु-
नादश्रवणं परम् ॥ ४१ ॥ धृतिः क्षमा तपः
शौचं ह्रीर्मतिर्गुरुसेवनम् ॥ सदैतानि परं
योगी नियमेन समाचरेत् ॥ ४२ ॥

(६६) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

टीका—वृत् दूध मधुर पदार्थ ताम्बूल कर्पूरवासित
चूर्णरहित, कठोर शब्दरहित मधुर बोलना, सुन्दर सू-
क्ष्मरन्ध्रके स्थानमें रहना, सूक्ष्म वस्त्र अर्थात् महीन और
थोड़ा वस्त्र धारण करे नित्य सिद्धांत अर्थात् वेदान्त
अवण करे और वैराग्यसे गृहमें रहे ईश्वरका स्मरण करे
अच्छा शब्द अवण करे धैर्य क्षमा तप शौच लज्जा गुरु-
की सेवा योगी सदैव इसप्रकार नियमसंयुक्त रहे तो
कल्याण होगा ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

मूलम्—अनिलेऽर्कप्रवेशे च भोक्तव्यं योगि-
भिः सदा ॥ वायौ प्रविष्टे शशिनि शयनं
साधकोत्तमैः ॥ ४३ ॥

टीका—जब सूर्यनाडी अर्थात् पिंगलानाडीका
प्रवाह रहे तब योगी सदैव भोजन करे और जब चन्द्र
अर्थात् इडानाडीसे वायुका प्रवाह रहे तब साधकके
प्रति शयन करना उचित है ॥ ४३ ॥

मूलम्—सद्यो भुक्तेऽपि क्षुधिते नाभ्यासः
क्रियते बुधैः ॥ अभ्यासकाले प्रथमं कुर्या-
त्क्षीराज्यभोजनम् ॥ ४४ ॥

टीका—भोजन करके तुरंत उसी समय अथवा जब
क्षुधित होय तब साधक कदापि अभ्यास न करे और
अभ्यास कालमें प्रथम दूध वृत् भोजन करे ॥ ४४ ॥

मूलम्—ततोऽभ्यासे स्थिरीभूते न तादृढ़िय-
मग्रहः ॥ ४५ ॥ अभ्यासिना विभोक्तव्यं
स्तोकं स्तोकमनेकधा ॥ पूर्वोक्तकाले
कुर्यात् कुम्भकान्प्रतिवासरे ॥ ४६ ॥

टीका—जब अभ्यास स्थिर होजाय तब पूर्वोक्त निय-
मका कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ ४५ ॥ और अभ्यासीको
 उचित है कि, थोड़ा थोड़ा कईबार भोजनकरे और जिस-
 प्रकार पहिले कहा है उसीतरह नित्य कुम्भक करे ॥ ४६ ॥
मूलम्—ततो यथेष्टा शक्तिः स्याद्योगिनो वा-
युधारणे ॥ यथेष्टुं धारणाद्वायोः कुम्भकः
सिद्धयति श्रुतम् ॥ केवले कुम्भके सि-
द्वे किं न स्यादिह योगिनः ॥ ४७ ॥

टीका—योगीको वायु धारण करनेकी शक्ति इच्छा-
 के अनुसार होजायगी. जब इच्छानुसार धारणशक्ति
 होजायगी तब कुंभक निश्चय सिद्ध होगा और
 केवल कुम्भक सिद्ध होनेसे योगी क्या नहीं करसकता
 अर्थात् सब सिद्ध करसकता है ॥ ४७ ॥

मूलम्—स्वेदःसंजायते देहे योगिनः प्रथमो-
द्यमे ॥ ४८ ॥ यदा संजायते स्वेदो मर्दनं

(६८) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

कारयेत्सुधीः ॥ अन्यथा विग्रहे धातुर्न-
ष्टो भवति योगिनः ॥ ४९ ॥

टीका—योगीके शरीरमें प्रथम स्वेद अर्थात् पसीना उत्पन्न होता है जब स्वेद उत्पन्न होय तो उसको शरीरमें मर्दन करे अन्यथा अर्थात् मर्दन न करनेसे योगीके शरीरका धातु नष्ट होजाता है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥
मूलम्—द्वितीये हि भवेत्कम्पो दार्ढुरी
मध्यमे मतः ॥ ततोऽधिकतराभ्यासा
द्रग्नेचरसाधकः ॥ ५० ॥

टीका—दूसरे भूमिकामें कंप होताहै तीसरेमें दार्ढुरीवृत्ति होती है अर्थात् आसन उठता है फिर भूमिपर आग्रजाता है उससे अधिक अभ्यास होनेसे योगी गगनमें स्वेच्छाचारी होजाताहै ॥ ५० ॥

मूलम्—योगी पद्मासनस्थोऽपि भुवमुत्सृज्य
वर्तते ॥ वायुसिद्धिस्तदा ज्ञेया संसारध्वा-
न्तनाशिनी ॥ ५१ ॥

टीका—योगी पद्मासनस्थ होके पृथ्वीको त्यागके आकाशमें स्थिर रहे तब जाने कि, संसारके अन्धकार नाश करनेवाली वायु सिद्ध होगई ॥ ५१ ॥
मूलम्—तावत्कालं प्रकुर्वीत योगोक्तनियम-

ग्रहम् ॥ अल्पनिद्रा पुरीषं च स्तोकं मूत्रं
च जायते ॥ ५२ ॥

टीका—उस कालतक योगके हेतु पूर्वोक्त नियम
करना उचित है जबतक वायु न सिद्ध होय और यो-
गीको थोड़ी निद्रा और थोड़ा मलमूत्र होता है ॥ ५२ ॥
मूलम्—अरोगित्वमदीनत्वं योगिनस्तत्त्वद-
र्शिनः ॥ स्वेदो लाला कृमिश्वैव सर्वथैव न
जायते ॥ ५३ ॥ कफपित्तानिलाश्वैव सा-
धकस्य कलेवरे ॥ तस्मिन्काले साधक-
स्य भोज्येष्वनियमग्रहः ॥ ५४ ॥

टीका—तत्त्वदर्शी योगीको कायिक वा मानसिक
व्यथा उत्पन्न नहीं होती और स्वेद लाला कृमिआदि
उत्पन्न नहीं होते और साधकके शरीरमें कफ पित्त
वातका दोषभी नहीं होता पूर्वोक्त कालतक साधक
भोजन आदिका नियम करे ॥ ५३ ॥ ५४ ॥

मूलम्—अत्यल्पं बहुधा भुक्त्वा योगी न
व्यथते हि सः ॥ अथाभ्यासवशाद्योगी भू-
चर्णं सिद्धिमाप्नुयात् ॥ यथादर्दुरजन्तूनां
गतिः स्यात्पाणिताडनात् ॥ ५५ ॥

टीका—योगीको बहुत थोड़ा या विशेष भोजन क-

(७०) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

रनेसे कष्ट न होगा और योगीको अभ्याससे भूचरी सिद्धि होजायगी जैसे द्वुरेजन्तु पाणि ताडन करनेसे पृथ्वीपर उड़ान करता है उसी प्रकार योगीभी पृथ्वीपर उड़ान करता है ॥ ५५ ॥

मूलम्-सन्त्यत्र बहवो विघ्नादारुणा दुर्निवारणः ॥ तथापि साधयेयोगी प्राणैः कंठगतैरपि ॥ ५६ ॥

टीका—इस योगसाधनमें बहुत दारुण विघ्न होते हैं जिसका निवारण बहुत कठिन है. परन्तु साधकको उचित है कि, यदि कंठगतभी प्राण होजाँय तोभी साधन न छोड़े ॥ ५६ ॥

मूलम्-ततो रहस्युपाविष्टः साधकः संयतेन्द्रियः ॥ प्रणवं प्रजपेद्वीर्धं विघ्नानां नाशहेतवे ॥ ५७ ॥

टीका—साधकको उचित है कि, विघ्नोंके नाशके हेतु इन्द्रियोंके संयममें अर्थात् उनके कार्यको रोकके विधि-पूर्वक एकान्तमें बैठके दीर्घमात्रासे अर्थात् स्पष्ट अक्षरके उच्चारणसे प्रणवका जप करे ॥ ५७ ॥

मूलम्-पूर्वार्जितानि कर्माणि प्राणायामेन निश्चितम् ॥ नाशयेत्साधको धीमज्जनिह लोकोद्भवानि च ॥ ५८ ॥

टीका—पूर्वार्जित कर्म और जो इस जन्ममें किया है यह दोनोंके फलको बुद्धिमान् साधक प्राणायामसे निश्चय है कि, नाश करदेता है ॥ ६८ ॥

मूलम्—पूर्वार्जितानि पापानि पुण्यानि विविधानि च ॥ नाशयेत्सोऽशप्राणायामेन योगिपुंगवः ॥ ६९ ॥

टीका—श्रेष्ठयोगी पूर्वार्जित नानाप्रकारका पाप और पुण्य केवल सोलह प्राणायामसे नाश करदेताहै ॥ ६९ ॥

मूलम्—पापतूलचयानाहो प्रलये त्प्रलयाग्निना ॥ ततः पापविनिर्मुक्तः पश्चात्पुण्यानि नाशयेत् ॥ ६० ॥

टीका—साधक पाप राशिको तूलके समान प्राणायामहृषी आग्निसे प्रलय करदेताहै अर्थात् जलादेताहै. इसप्रकारसे मुक्तहोके पश्चात् पुण्यकोभी उसी अग्निमें नाश करदेताहै ॥ ६० ॥

मूलम्—प्राणायामेन योगीन्द्रो लब्ध्वैश्वर्याष्टकानि वै ॥ पापपुण्योदधि तीत्वा त्रैलोक्यचरतामियात् ॥ ६१ ॥

टीका—योगी प्राणायामके प्रभावसे आठ ऐश्वर्य

जिसको अष्टसिद्धि कहते हैं अर्थात् अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता और वशिता प्राप्त करता है अब इन आठों सिद्धिके लक्षण कहते हैं योगीका शरीर इच्छामात्रसे परमाणुवत् होजाय उसको अणिमा कहते हैं और योगी इच्छापूर्वक प्रकृतिको अपनेमें करके आकाशवत् स्थूल होजाय उसको महिमा कहते हैं और अति हल्के शरीरका पर्वतके समान भारी होजाना उसको गरिमा कहते हैं और बहुत भारी पर्वतके समानको रुईके सट्टश होजाना इसको लघिमा कहते हैं और सर्व पदार्थ इच्छामात्रसे योगीके समीप होजाय उसको प्राप्ति कहते हैं और हृइयाहृश्य अर्थात् कभी देख पडे कभी न देखपडे इसको प्राकाम्य कहते हैं और भूत भविष्य पदार्थको जन्म परणकी रचना करनेमें समर्थ होय उसको ईशिता कहते हैं और भूत भविष्य वर्तमान पदार्थको इच्छा से अपने आधीन करलेना इसको वशित्वसिद्धि कहते हैं और योगी पाप पुण्यके समुद्रको तरके अपनी इच्छापूर्वक बैलोक्यमें विचरताहै ॥ ६१ ॥

मूलम्-ततोऽभ्यासक्रमेणैव घटिकात्रितयं
भवेत् ॥ येन स्यात्सकलासिद्धियोगिनः
स्वेष्टिता द्व्यवम् ॥ ६२ ॥

टीका—पूर्वोक्त क्रमस प्राणायाम जब तीन घडीतक स्थिर होजायगा तब योगीको उसके इच्छाके अनुसार सब सिद्ध होजायगा यह निश्चय है ॥ ६२ ॥

मूलम्—वाक्सिद्धिः कामचारित्वं दूरदृष्टि-स्तथैव च ॥ दूरश्रुतिः सूक्ष्मदृष्टिः परकायप्रवेशनम् ॥६३॥ विष्णुत्रलेपने स्वर्णमहश्यकरणं तथा ॥ भवन्त्येतानि सर्वाणि स्वेच्छरत्वं च योगिनाम् ॥६४॥

टीका—वाक्यसिद्धी स्वेच्छाचारी दूरदृष्टी दूर शब्द श्रवण अतिसूक्ष्म दर्शन दूसरेके शरीरमें प्रवेश करनेकी शक्ति होय और योगी अन्यधातुमें अपने मल मूत्र लेपनमात्रसे स्वर्ण करे और योगीको अहश्य होजाने की शक्ति और आकाशमें गमन करनेकी सिद्धि यह सब योगीको कुम्भक सिद्ध होजानेसे स्वयं सिद्ध होजायगा इसमें संशय नहीं है ॥ ६३ ॥ ६४ ॥

मूलम्—यदा भवेद्वटावस्था पवनाभ्यासने परा ॥ तदा संसारचक्रेऽस्मिस्तत्रास्ति यन्न साधयेत् ॥६५॥

टीका—जब योगींकी घटावस्था होगी अर्थात् उसमें

(७४) शिवसंहिता भाषार्टीकासमेता ।

योगकी घटना होगी तब यह संसारचक्र योगीको कुछ असाध्य न रहेगा ॥ ६५ ॥

मूलम्-प्राणापाननादर्बिंदुजीवात्मपरमात्म
नः ॥ मिलित्वा घटते यस्मात्तस्मद्वै घट
उच्यते ॥ ६६ ॥

टीका-प्राण अपान नाद विन्दु जीव आत्मा और परमात्मा इनको एकत्र घटना होनेसे इसको घटावस्था कहते हैं ॥ ६६ ॥

मूलम्-याममात्रं यदा धर्तुं समर्थः स्यात्-
दाङ्गुतः ॥ प्रत्याहारस्तदैव स्यान्नांतरा
भवति ध्रुवम् ॥ ६७ ॥

टीका-एक प्रहर मात्र जब वायु धारण करनेकी सामर्थ्य होगी तब अङ्गुत प्रत्याहारकी शक्ति होगी और साधनसे न होगी निश्चय है ॥ ६७ ॥

मूलम्-यं यं जानाति योगीन्द्रस्तं तमात्मे-
ति भावयेत् ॥ यैरिन्द्रियैर्यद्विधानस्तदि-
न्द्रयजयो भवेत् ॥ ६८ ॥

टीका-योगी जो जो पदार्थ जाने सो सो पदार्थमें आत्माकाही भावना करे जो इंद्रियसे जिस पदार्थका बोध होगा उस पदार्थमें वही आत्मभावनासे वह इंद्रिय

जय हो जायगी अर्थात् जैसे नेत्रसे रूपका वोध होता है
तो जब रूपमें आत्मभावना होगी तब उस भावनासे
चक्षु इन्द्रिय रूपमें कदापि आसक्त न होगी जब वह
आसक्त न भई तब वह इन्द्रिय आपही जय होगई ॥६८॥

मूलम्-याममात्रं यदा पूर्णं भवेदभ्यासयो-
गतः॥ एकवारं प्रकुर्वीत तदा योगी च कु-
म्भकम् ॥६९॥ **दण्डाष्टकं यदा वायुर्निश्च-**
लो योगिनो भवेत् ॥ स्वसामर्थ्यात्तदांगु-
ष्टे तिष्ठेद्वातुलवत्सुधीः ॥ ७० ॥

टीका—जब एकवारमें पूर्ण एक प्रहरतक योगीका
अभ्याससे कुम्भक स्थिर रहेगा अर्थात् आठ घडीतक
योगीका वायु निश्चल रहे तब वह अपने सामर्थ्यसे अङ्गु-
ष्टमात्रके बलसे अचल अबोधवत् खडा रहसक्ता है
अर्थात् यह सामर्थ्य भी योगीको होगी और अपने सा-
मर्थ्यको गोप्य रखनेके हेतु विक्षिप्तकी चेष्टा योगी दिख
लावैगा ॥ ६९ ॥ ७० ॥

मूलम्—ततःपरिचयावस्थायोगिनोऽभ्यास-
तो भवेत् ॥ यदा वायुश्चंद्रसूर्यं त्यक्ता ति-
ष्टंति निश्चलम् ॥ ७१ ॥ वायुः परिचितो
वायुः सुषुम्ना व्योम्नि संचरेत् ॥

(७६) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

टीका—इस अन्तरमें योगीकी अभ्याससे परिचया-वस्था होगी जब वायु इडा पिङ्गलाको त्यागके निश्चल स्थिर रहेगा ॥ ७१ ॥ तब परिचित होके सुषुम्नाके रथ्रसे प्राणवायु आकाशाको गमन करेगा ॥

मूलम्—क्रियाशक्ति गृहीत्वैव चक्रान्मित्वा
सुनिश्चितम् ॥ ७२ ॥ यदा परिचयावस्था
भवेदभ्यासयोगतः ॥ त्रिकूटं कर्मणां
योगी तदा पश्यति निश्चितम् ॥ ७३ ॥

टीका—क्रियाशक्तिको व्रहण करके योगी निश्चय सब चक्रको वेधेगा ॥ ७२ ॥ और जब योग अभ्याससे परिचया वस्था होगी तब त्रिकूट कर्मोंको योगी निश्चय देखेगा तात्पर्य यह है कि, जब योगीका पूर्वोक्त अभ्यास सिद्ध होजायगा तब त्रिकूट अर्थात् आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक मानसिक दुःखको आध्यात्मिक कहते हैं और भूत पिशाचादिसे जो कष्ट होता है उसको आधिभौतिक कहते हैं और देवता आदिसे जो कर्मानुसार कष्ट होता है उसको आधिदैविक कहते हैं यह त्रिकूटकर्मोंका ज्ञान योगीको होजाता है ॥ ७३ ॥

मूलम्—ततश्चकर्मकूटानि प्रणवेन विनाश-
येत् ॥ स योगी कर्मभोगाय कायव्यूहं
समाचरेत् ॥ ७४ ॥

टीका-इस कर्मकूटको योगी प्रणवद्वारा नाश कर-
देता है और यदि पूर्वकृत कर्मफल भोगनेकी इच्छा
करे तो अपने इच्छानुसार इसी जन्ममें इसी शरीरसे
भोगलेगा ॥ ७४ ॥

मूलम्-अस्मिन्काले महायोगी पंचधा धा-
रणं चरेत् ॥ येन भूरादिसिद्धिः स्यात्ततो
भूतभयापहा ॥ ७५ ॥ आधारे घटिकाः पंच-
लिंगस्थाने तथैव च ॥ तदूर्ध्वं घटिकाः
पञ्च नाभिहन्मध्यके तथा ॥ ७६ ॥ श्रूम-
ध्योर्ध्वं तथा पंच घटिका धारयेत्सुधीः ॥
तथा भूरादिना नष्टो योगिन्द्रो न भवे
त्खलु ॥ ७७ ॥

टीका-जिसकालमें महायोगी पञ्चधारणा सिद्ध
करलेगा तब यह पञ्चभूत सिद्ध होजायेंगे और इनसे
कोई कष्टका भय नहोगा। अब धारणाका निर्णय करते हैं
कि, आधारचक्रमें पांचवटी वायु धारणकरे इसी क्रमसे
स्वाधिष्ठान मणिपूर अनाहत विशुद्ध आज्ञाचक्रमें
अर्थात् गुदा लिङ्ग नाभि हृदय कंठ भृकुटीके मध्यमें
ऊपर कहेहुए प्रमाणसे वायु धारणकरेगा तो योगी पञ्च
भूतसे निश्चय नाश न होगा ॥ ७६ ॥ ७७ ॥

(७८) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

मूलम्-मेधावी सर्वभूतानां धारणांयः सम-
भ्यसेत् ॥ शतब्रह्ममृतेनापि मृत्युस्त-
स्य न विद्यते ॥ ७८ ॥

टीका—बुद्धिमान् योगी अभ्याससे पञ्चभूतकी धार-
णा करेगा तो यदि एकदशत ब्रह्माभी मृत्युको प्राप्त होंगे
तबभी उसकी मृत्यु न होगी ॥ ७८ ॥

मूलम्-ततोऽभ्यासक्रमेणैव निष्पत्तियोगि-
नो भवेत् ॥ अनादिकर्मवीजानियेन ती-
त्वाऽमृतं पिवेत् ॥ ७९ ॥

टीका—इस अभ्यासक्रमसे योगीको ज्ञान होता है
और अनादिकर्म वीजको तरके अर्थात् नाश करके
योगी अमृतपान करता है ॥ ७९ ॥

मूलम्—यदा निष्पत्तिर्भवति समाधेः स्वेन
कर्मणा ॥ जीवन्मुक्तस्य शांतस्य भवेद्वी-
रस्य योगिनः ॥ ८० ॥ यदा निष्पत्तिसं-
पत्रः समाधिःस्वेच्छया भवेत् ॥ ८१ ॥
गृहीत्वा चेतनां वायुः क्रियाशक्तिं च वेग-
वान् ॥ सर्वाश्वकान्विजित्वा च ज्ञान-
शक्तौ विलीयते ॥ ८२ ॥

टीका—जब अपने अभ्यासकर्मसे योगीको समाधी-
का ज्ञान होगा तब जविन्सुक्त शान्त होके योगीको
ज्ञानसम्पन्न स्वेच्छासमाधी होगी और मन वायु क्रिया-
शक्तिसहित सर्वं चक्रोंको वेदके ज्ञानशक्तीमें लीन हो-
जायगा ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥

मूलम्—इदानीं क्लेशहान्यर्थं वक्तव्यं वायु-
साधनम् ॥ येन संसारचक्रेस्मिन्नोगहा-
निर्भवेद्गुवम् ॥ ८३ ॥

टीका—हे देवि ! अब क्लेशहानीके अर्थ वायुसाधन
कहते हैं जिससे इस संसारचक्रमें निश्चय रोगादिक
नाश होजाय और साधकको कष्ट न हो ॥ ८३ ॥

मूलम्—रसनां तालुमूले यः स्थापयित्वा
विचक्षणः ॥ पिवेत्प्राणानिलं तस्य रोगाणां
संक्षयो भवेत् ॥ ८४ ॥ .

टीका—जिह्वाको तालुके मूलमें स्थितकरके बुद्धि-
मान साधक यदि प्राणवायुको पान करे तो उसके सर्वं
रोगोंका नाश होजायगा ॥ ८४ ॥

मूलम्—काकचंच्चा पिवेद्वायुं शीतलं योवि-
चक्षणः ॥ प्राणापानविधानज्ञः स भवे-
न्मुक्तिभाजनः ॥ ८५ ॥:

टीका—जो बुद्धिमान साधक प्राण अपानके विधानका ज्ञाता काकचञ्च अर्थात् अधरको काकके चोंचके समान लम्बा करके शीतल वायु पान करता है सो योगी मुक्तिभाजन है अर्थात् मुक्तिपात्र है ॥ ८५ ॥
 मूलम्—सरसं यः पिबेद्वायुं प्रत्यहं विधिना सुधीः ॥ नश्यन्ति योगिनस्तस्य श्रमदाह-जरामयाः ॥ ८६ ॥

टीका—जो साधक नित्य विधानपूर्वक रससहित वायुपान करता है उसके सर्व रोग और श्रम दाह जरा अर्थात् वृद्धावस्थादि नाश होजाते हैं अर्थात् यह सब उसके समीप नहीं आते ॥ ८६ ॥

मूलम्—रसनामूर्ध्वंगांकृत्वा यश्चन्द्रे सलिलं पिबेत् ॥ मासमात्रेण योगीन्द्रो मृत्युं जयति निश्चितम् ॥ ८७ ॥

टीका—जो योगी जिह्वाको ऊपर करके चंद्रमासे विगलित सुधारसको पान करता है सो योगी एक मासमें निश्चय मृत्युको जीत लेता है इस जगह जिह्वा ऊपर करनेसे तात्पर्य खेचरीमुद्रासे है सो खेचरीमुद्रा गुरुमुखसे जानना उचितहै ॥ ८७ ॥

मूलम्—राजदंतविलं गाढं संपीडय विधिना-

पिबेत् ॥ ध्यात्वा कुण्डलिनीं देवीं पण्मा-
सेन कविर्भवेत् ॥ ८८ ॥

टीका—जो साधक राजदन्तको नीचेके दांतसे द-
बायके उसके रन्ध्रद्वारा विधिसे वायुपान करे और उस
कालमें कुण्डलिनी देवीका ध्यान करेगा तो निश्चय छः
मासमें कवि होगा ॥ ८८ ॥

मूलम्—काकचंच्चा पिबेद्वायुं सन्ध्ययोरुभ-
योरपि ॥ कुण्डलिन्या मुखे ध्यात्वा
क्षयरोगस्य शान्तये ॥ ८९ ॥

टीका—पूर्वोक्त काकचञ्चूसे विधिसे दोनों सन्ध्यामें
जो कुण्डलनीकी मुखका ध्यान करके वायुपान करे-
गा उसका क्षयरोग नाश होजायगा ॥ ८९ ॥

मूलम्—अहर्निंशं पिबेद्योगी काकचंच्चा वि-
चक्षणः ॥ पिबेत्प्राणानिलं तस्य रोगाणां
संक्षयो भवेत् ॥ दूरश्रुतिर्दूरदृष्टिस्तथा
स्यादर्शनं खलु ॥ ९० ॥

टीका—जो योगी बुद्धिमान् रात्रि दिवस काकच-
ञ्चूसे प्राणवायु पान करते हैं उनके रोगोंका नाश हो-
जाता है और दूरका शब्द श्रवण होता है और दूरकी व-
स्तु देख पड़ती है तथा निश्चय सूक्ष्म दर्शन होता है ॥ ९० ॥

(८२) शिवसंहिता भाषाधीकासमेता ।

मूलम्-दन्तैर्दन्तान्समापीडय पिबेद्वायुं
शनैः शनैः ॥ ऊर्ध्वजिह्वः सुमेधावी मृत्युं
जयति सोचिरात् ॥ ९१ ॥

टीका—जो बुद्धिमान् दांतसे दांतको पीडित करके
धीरे धीरे वायुपान करेगा और जिह्वा ऊपर करके अ-
मृतपान करेगा सो शीघ्र मृत्युको जीतलेगा ॥ ९१ ॥

मूलम्-षणमासमात्रमभ्यासं यः करोति हि-
नेदिने ॥ सर्वपापविनिर्मुक्तो रोगान्नाश-
यते हि सः ॥ ९२ ॥ संब्वत्सरकृताभ्या-
सान्मृत्युं जयति निश्चितम् ॥ तस्मादति-
प्रयत्नेन साधयेद्योगसाधकः ॥ ९३ ॥ वर्ष-
त्रयकृताभ्यासाद्वैर्वो भवति ध्रुवम् ॥
अणिमादिगुणालुच्छ्वा जितभूतगणः
स्वयम् ॥ ९४ ॥

टीका—जो पहिले कहेहुए अभ्यासको नित्य छः
मास करे तो सब रोगोंका नाश होजायगा और सब
पापसे मुक्त होजाय और उसी अभ्यासको एकवर्ष करे
तो मृत्युको निश्चय जीतले इस हेतुसे साधक इस क्रि-
याका यत्र करके अवश्य साधन करे और यदि इसका
अभ्यास तीनवर्ष करे तो निश्चय भैरव होजाय और

अष्टसिद्धिका लाभ होय और सर्वं भूतगण आपही वश में होजाय ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥

मूलम्-रसनामूर्ध्वगां कृत्वा क्षणार्धे यदि तिष्ठति ॥ क्षणेन मृत्युते योगी व्याधिमृत्युजरादिभिः ॥ ९५ ॥

टीका—योगीकी जिह्वा यदि क्षणमात्र ऊपर स्थिर होजाय तो उसी क्षणसे सर्वव्याधि और वृद्धावस्था और मृत्युका नाश होजाय. तात्पर्य यह है कि, खेचरीमुद्रासे किञ्चित्मात्र भी अमृतपान करलेगा तो उसकी मृत्यु न होगी ॥ ९५ ॥

मूलम्-रसनां प्राणसंयुक्तां पीडयमानां विचितयेत् ॥ न तस्य जायते मृत्युः सत्यं सत्यं मयोदितम् ॥ ९६ ॥

टीका—जिह्वाको प्राणसहित पीडित करके जो पुरुष ब्रह्मरन्ध्रमें ध्यानसंयुक्त स्थिर करेगा. हेदेवी ! हम वारं-वार कहतेहैं कि, निश्चय उसकी मृत्यु न होगी ॥ ९६ ॥

मूलम्-एवमभ्यासयोगेन कामदेवो द्वितीयकः ॥ न क्षुधा न तृष्णा निद्रा नैव मूर्च्छा प्रजायते ॥ ९७ ॥

टीका—इस योगअभ्याससे जो पहिले कहा है वह

(८४) शिवसंहिता भाषार्टीकासमेता ।

पुरुष दूसरा कामदेव होजायगा अर्थात् कामदेवके समान शोभित होगा और उसको क्षुधा तृष्णा निद्रा मूच्छों कभी न उत्पन्न होगी ॥ ९७ ॥

मूलम्-अनेनैव विधानेन योगीन्द्रोऽवनिम-
ण्डले ॥ भवेत्स्वच्छन्दचारी च सर्वाप-
त्परिवर्जितः ॥ ९८ ॥ न तस्य पुनरावृत्ति-
मोदते ससुरैरपि ॥ पुण्यपापैर्न लिप्येत
एतदाचरणेन सः ॥ ९९ ॥

टीका—इस विधानसे योगी संसारमें सर्व दुःखसे राहित होके स्वेच्छाचारी होजायगा और इस आचरणसे योगी पुण्यपापमें लिप्त नहीं होगा न फिर संसारमें उसका जन्म होगा और देवतोंके साथ आनन्दपूर्वक विचरेगा ॥ ९८ ॥ ९९ ॥

मूलम्-चतुरशीत्यासनानि सन्ति नानाविधानि च ॥ १०० ॥ तेभ्यश्चतुष्कमादाय मयोक्तानि ब्रवीम्यहम् ॥ सिद्धासनं ततः पद्मासनश्चोग्रं च स्वस्तिकम् ॥ १०१ ॥

टीका—बहुत प्रकारके चौन्याशी आसन हैं उनमें उत्तम जो चार आसन हैं, उनको हम कहते हैं, सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन, स्वस्तिकासन, तात्पर्य यह है कि, और

आसन करनेसे नाडी शुद्ध होतीहै परन्तु यह चार आ-
सनसे वायु धारण करके बैठनेमें कष्ट नहीं होता और
प्रधान नाडी शीत्र वश होजाती है ॥ १०० ॥ १०१ ॥

**मूलम्—योनिं संपीड्य यत्नेन पादमूलेन सा-
धकः ॥ मेद्रोपरि पादमूलं विन्यसेद्योग-
वित्सदा ॥ १०२ ॥ ऊर्ध्वं निरीक्ष्य भ्रूम-
ध्यं निश्चलः संयतेन्द्रियः ॥ विशेषोऽवक्र
कायश्च रहस्युद्देगवर्जितः ॥ एतत्सिद्धा-
सनं ज्ञेयं सिद्धानां सिद्धिदायकम् ॥ १०३ ॥**

**टीका—योगवेत्ता साधक पादमूल अर्थात् एडीसे
योनिस्थानको पीडित करे और दूसरे पादके एडीको
मेद्र अर्थात् लिंगके मूलस्थानपर रखें और ऊपर
भ्रूके मध्यमें निश्चल दृष्टि रखें जितेन्द्रियपुरुष विशेष
सीधा शरीर करके विधानपूर्वक वेगवर्जित सावधान
होके बैठे इसको सिद्धासन कहते हैं यह आसन सिद्धों-
को सिद्धि देनेवालाहै ॥ १०२ ॥ १०३ ॥**

**मूलम्—येनाभ्यासवशाच्छीघ्रं योगनिष्पत्ति
माप्नुयात ॥ सिद्धासनं सदा सेव्यं पवना-
भ्यासिना परम् ॥ १०४ ॥**

.टीका—इस अभ्याससे जो पहिले कहा है शीत्र योग-

(८६) शिवसंहिता भाषाटीकासमता ।

का ज्ञान होता है इस हेतु से यह सिद्धासन पवनाभ्यासी को सदा सेवने के योग्य है ॥ १०४ ॥

मूलम्—येन संसारमुत्सृज्य लभते परमां गतिम् ॥ १०५ ॥ नातः परतरं गुह्यमासनं विद्यते भुवि ॥ येनानुध्यानमात्रेण योगी पापाद्विमुच्यते ॥ १०६ ॥

टीका—इस सिद्धासन के प्रभाव से साधक संसार को छोड़के परमगति को पाता है और इस से उत्तम वा गोप्य संसार में दूसरा आसन नहीं है जिसके ध्यानमात्र से योगी सर्व पाप से मुक्त हो जाता है ॥ १०५ ॥ १०६ ॥

मूलम्—उत्तानौ चरणौ कृत्वा ऊरु संस्थौ प्रयत्नतः ॥ ऊरु मध्ये तथोत्तानौ पाणी कृत्वा तु तादृशौ ॥ १०७ ॥ नासाग्रे विन्यसेद्विष्ट दन्तमूलश्च जिह्वा ॥ उत्तोल्य चिबुकं वक्ष उत्थाप्य पवनं शनैः ॥ १०८ ॥ यथा शक्त्या समाकृष्य पूरयेदुदरं शनैः ॥ यथा शक्त्यैव पश्चात् रेचयेदविरोधतः ॥ १०९ ॥ इदं पद्मासनं प्रोक्तं सर्वव्याधिविनाशनम् ॥ दुर्लभं येन केनापि धीमता लभ्यते परम् ॥ ११० ॥

टीका—दोनों चरणोंको उत्तान करके यनसे ऊँ
अर्थात् जंघापर रखे उसीप्रकार दोनों हाथको सीधा
करके ऊँके मध्यमें रखे और नासिकाके अग्रभागमें
हाष्टि और दाँतके दूलमें जिह्वा स्थितकरे और वक्ष अर्धा-
त् हृदयस्थानपर चिबुक अर्थात् ठोड़ी स्थापन करे और
अपानवायुको उठाके प्रापको शनैःशनैः यथाशक्तिं पूरक
करके धारणाकरे पञ्चात् धीरे धीरे रेचक अर्थात् वायुको
त्यागदे इसको पद्मासन कहते हैं यह सर्व व्याधिका ना-
शक है यह आसन बहुत दुर्लभहै परंतु कोई बुद्धिमान्
साधकको प्राप्त होता है ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ ११० ॥

मूलम्—अनुष्ठाने कृते प्राणः समश्वलति त-
त्खणात् ॥ भवेदभ्यासने सम्यक्साध-
कस्य न संशयः ॥ १११ ॥

टीका—पूर्वोक्त अनुष्ठान करनेसे उसी समय प्राण
सम होके सुपुण्णामें प्रवेश करेगा अभ्याससे साधक-
का वायु सम होजायगा इसमें संशय नहीं ॥ १११ ॥

मूलम्—पद्मासने स्थितो योगी प्राणापान
विधानतः ॥ पूरयेत्स विमुक्तः स्यात्सत्यं
सत्यं वदाम्यहम् ॥ ११२ ॥

टीका—ईश्वर श्रीपार्वतीजीसे कहते हैं कि पद्मासन-

(८८) शिवसंहिता भाषार्थीकासमेता ।

स्थित योगी प्राण अपानके विधानसे वायु पूरण करेगा सो संसारवन्धसे मुक्तहोजायगा इसमें संशय नहीं है हम सत्य कहते हैं ॥ ११२ ॥

मूलम्-प्रसार्य चरणद्वन्द्वं परस्परमसंयुतं।

स्वपाणिभ्यां दृढं धृत्वा जानुपरि शिरो
न्यसेत् ॥ ११३ ॥ आसनोग्रमिदं प्रोक्तं
भवेदनिलदीपनम् ॥ देहावसानहरणं प-
श्चिमोत्तानसंज्ञकम् ॥ ११४ ॥ यएतदासनं
श्रेष्ठं प्रत्यहं साधयेत्सुधीः ॥ वायुः पश्चि-
ममार्गेण तस्य सञ्चरति ध्रुवम् ॥ ११५ ॥

टीका—झोनों चरणोंको संग परस्पर लम्बाकरके दोनों हाथोंसे बलसे धेरे और जानुपरि शिरको स्थितकरे उसको उग्रासन कहते हैं, और पश्चिमतान भी संज्ञा है इससे वायुदीपन होता है और मृत्युका नाशकरता है यह सब आसनोंमें श्रेष्ठ है और बुद्धिमान् इसको नित्य साधन करे तो उसका वायु पश्चिम मार्गसे अवश्य सञ्चार करेगा ॥ ११३ ॥ ११४ ॥ ११५ ॥

मूलम्-एतदभ्यासशीलानां सर्वासिद्धिः प्र-
जायते ॥ तस्माद्योगी प्रयत्नेन साधये-
त्सिद्धमात्मनः ॥ ११६ ॥

टीका—ऐसे पूर्वोक्त अभ्यासमें जो लोग तत्परहैं उनको सर्वं सिद्धि उत्पन्न होती है. इस हेतुसे यत्न करके योगी आत्माके सिद्धहोनेकी साधना करे ॥ ११६ ॥
**मूलम्-गोपनीयं प्रयत्नेन न देयं यस्यकस्य
 चित् ॥ येन शीघ्रं मरुत्सिद्धिर्भवेदुःखौ-
 घनाशीनी ॥ ११७ ॥**

टीका—यह आसन जो पहिले कहा है यत्नसे गोपनीयहै सबको देना उचित नहीं है परंतु अधिकारीको देना योग्यहै इससे बहुत शीघ्र वायु सिद्ध होजाताहै और यह सिद्धि दुःखके समूहको नाश करनेवाली है ॥ ११७ ॥

**मूलम्-जानूर्वोरन्तरे सम्याधृत्वा पादतले
 उभे ॥ समकायः सुखासीनः स्वस्तिकं
 तत्प्रचक्षते ॥ ११८ ॥ अनेनविधिना यो-
 गी मारुतं साधयेत्सुधीः ॥ देहे न क्रमते
 व्याधिस्तस्य वायुश्च सिध्यति ॥ ११९ ॥
 सुखासनमिदं प्रोक्तं सर्वदुःखप्रणाशनम् ॥
 स्वस्तिकं योगिभिर्गोप्यं स्वस्तीकरण-
 मुत्तमम् ॥ १२० ॥**

टीका—जानु और ऊरुके मध्यमें बराबर पादको

(९०) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

उपर नचि धेरे और समकाय अर्थात् वरावर शरीर करके सुखपूर्वक बैठे उसको स्वस्तिकासन कहते हैं। इस विधानसे बुद्धिमान् योगी वायुका साधनकरे तौ उसके शरीरमें व्याधी प्रवृत्ति नहीं करती और उसको वायु सिद्धहोजातीहै इसको सुखासन कहते हैं यह सर्वदुःखका नाशक है यह स्वस्तिकासन योगी लोगोंको गोप्य रखना चाचितहै इसकारणसे की उत्तम कल्याणका कारक है ॥ ११८ ॥ ११९ ॥ १२० ॥

इति श्रीशिवसंहितायां हरगौरीसंबादे योगाभ्यासतत्त्वकथनं नाम तृतीयः पटलः समाप्तः ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थपटलः ।

मूलम्—आदौ पूरकयोगेन स्वाधारे पूरये-
न्मनः ॥ गुदमेद्रान्तरे योनिस्तामाङुच्य
प्रवर्तते ॥ १ ॥

टीका—पहिले पूरक योगविधानसे आधारपद्ममें वायुको मन सहित पूरक करके स्थित करे और गुदामेद्रके मध्यमें जो योनिस्थान है उसको यत्नसे आङुच्छन करनेमें प्रवृत्तहोय ॥ १ ॥

मूलम्—ब्रह्मयोनिगतं ध्यात्वा कामं कन्दुक-
सन्निभम्॥सूर्यकोटिप्रतीकाशंचन्द्रकोटि-

सुशीतलम् ॥२॥ तस्योर्ध्वं तु शिखासूक्ष्मा
चिद्रूपा परमाकला ॥ तया सहितमात्मा-
नमेकीभूतं विचिन्तयेत् ॥ ३ ॥

टीका—ब्रह्मयोनि के मध्यमे कामपुष्प अर्थात् काम-
वाण के समान कोटि सूर्य के सदृश प्रकाश और कोटि
चन्द्रमा के समान शीतल कामदेव का ध्यान करे और
उसके ऊर्ध्वं भागमे सूक्ष्म ज्योति शिखा चैतन्यस्वरू-
पा परमाशक्ति सहित एक परमात्मा का चिन्तन
करे ॥ २ ॥ ३ ॥

मूलम्—गच्छतिब्रह्ममार्गेण लिंगत्रयकमेण
वै ॥ सूर्यकोटि प्रतीकाशं चन्द्रकोटि सुशी-
तलम् ॥ ४ ॥ अमृतं तद्वि स्वर्गस्थं परमान-
न्दलक्षणम् ॥ श्वेतरक्तं तेजसादृचं सुधाधा-
रा प्रवर्षिणम् ॥ ५ ॥ पीत्वा कुलामृतं दि-
व्यं पुनरेव विशेषकुलम् ॥

टीका—उसी ब्रह्मयोनि से जीव सुषुम्णा रथद्वारा
क्रमसे तीन लिङ्ग अर्थात् स्थूल सूक्ष्म कारणस्वरूपसे
प्रस्थान करता है और स्वर्गस्थ अमृत परम आनन्द-
का लक्षण श्वेत रक्त·वर्ण कोटि सूर्य के सदृश तेज
प्रकाश और कोटि चन्द्रमा के समान शीतल सुधाधारा-

(९२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

वर्षी दिव्यकुलामृतको पान करके फिर योनिमंडल-
में स्थित होजाताहै ॥ ४ ॥ ५ ॥

मूलम्-पुनरेव कुलं गच्छेन्मात्रायोगेन ना-
न्यथा ॥ सा च प्राणसमाख्याता ह्रस्मि-
स्तन्त्रे मयोदिता ॥ ६ ॥

टीका-फिर ब्रह्मयोनिसे प्राणायामयोग करके प्राण
कुलमंडलमें जाताहै इस तंत्रमें जो हमने कहाहै हे देवी !
उस ब्रह्मयोनिको प्राणके समान कहते हैं ॥ ६ ॥

मूलम्-पुनःप्रलीयते तस्यां कालाग्न्यादि-
शिवात्मकम् ॥ ७ ॥ योनिमुद्रा पराह्वेषा
बन्धस्तस्याः प्रकीर्तिः ॥ तस्यास्तु
बन्धमात्रेण तन्नास्ति यन्न साधयेत् ॥ ८ ॥

टीका- फिर तीसरे बार काल अग्नि आदि शिवा-
त्मक जीव प्रस्थानपूर्वकं चंद्रमण्डलमें दिव्य अमृत-
पान करके फिर ब्रह्मयोनिमें लय होजाता है हे देवी !
इस बन्धको योनिमुद्रा कहते हैं केवल बन्धमात्रसे
संसारमें असाध्य कोई वस्तु नहीं है अर्थात् सब सिद्ध
होसकता है ॥ ७ ॥ ८ ॥

मूलम्-छिन्नरूपास्तु ये मन्त्राः कीलिताः
स्तंभिताश्च ये ॥ दग्धा मन्त्राः शिरोहीना

मलिनास्तु तिरस्कृताः ॥ ९ ॥ मन्दा बा-
लास्तथा वृद्धाः प्रौढा यौवनगर्विताः ॥ भे-
दिनो भ्रमसंयुक्ताः सप्ताहं मूर्च्छिताश्च
ये ॥ १० ॥ अरिपक्षे स्थिताये च निर्वी-
र्याः सत्त्ववर्जिताः ॥ तथा सत्त्वेन हीनाश्च
खण्डिताः शतधाकृताः ॥ ११ ॥
विधानेन च संयुक्ताः प्रभवन्त्यचिरेण
तु ॥ सिद्धिमोक्षप्रदाः सर्वे गुरुणा वि-
नियोजिताः ॥ १२ ॥ यद्यदुच्चरते योगी
मंत्ररूपं शुभाशुभम् ॥ तत्सिद्धिं समवाप्नो-
ति योनिमुद्रानिधन्धनात् ॥ १३ ॥ दीक्ष-
यित्वा विधानेन अभिषिञ्च्य सहस्रधा ॥
ततो मंत्राधिकारार्थमेषा मुद्रा प्रकी-
र्तिता ॥ १४ ॥

टीका-जो मन्त्र छिन्नरूप हैं और कीलित हैं स्तम्भि-
त हैं और जो मन्त्र दग्ध हैं शिरहीन हैं मलीन हैं और
जिनका अनादर है और मन्द हैं बाल हैं वृद्ध हैं प्रौढ़ हैं
और जो यौवनगर्वित हैं और भेदित हैं भ्रमसंयुक्त हैं
सप्ताह से मूर्च्छित हैं और जो शत्रुके पक्षमें हैं निर्वीर्य हैं

(९४) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

सत्त्वरहित हैं खण्डहोगहैं इस विधि से
युक्त होके साधन करनेसे शीघ्र प्रकर्ष करके सिद्ध
होजायगा गुरुशिक्षासे सब सिद्ध और पोक्षप्रद
होजाता है योगीसे जो मन्त्र गुभ वा अगुभ्रूप उच्चा-
रण होता है सो सब योनिमुद्राके बन्धनमात्रसे सिद्ध
होजाता है विधानपूर्वक मंत्रके अधिकारार्थ गुरुको उचि-
त है कि इस योनिमुद्राके दीक्षाका अभिषेक सहस्रधा
शिष्यको करे ॥३॥ १०॥ ११॥ १२॥ १३॥ १४॥
मूलम्—ब्रह्महत्यासहस्राणि त्रैलोक्यमपि
वातयेत् ॥ नासौ लिप्यति पापेन योनि-
मुद्रानिबन्धनात् ॥ १५॥

टीका—यदि एक सहस्र ब्रह्महत्याकरके और त्रैलो-
क्यकाभी वात करदे अर्थात् प्राणिमात्रका नाश करदे
तो भी वह इस योनिमुद्राके बन्धमात्रसे पापमें लित न
होगा अर्थात् उसको पाप नलगेगा ॥ १५॥

मूलम्—गुरुहा च सुरापी च स्तेयी च गुरुत-
ल्पगः ॥ एतैः पापैर्न बध्येत योनिमुद्रा-
निबन्धनात् ॥ १६॥

टीका—गुरुवातक मध्यपाई चोर गुरुकी शय्यामें
रमण करनेवाला ऐसे अनेक पातकसेभी साधक यो-
निमुद्राके बन्धप्रभावसे बन्धायमान नहोगा ॥ १६॥

मूलम्-तस्मादभ्यसनं नित्यं कर्तव्यं मोक्ष-
कांक्षिभिः ॥ अभ्यासाज्ञायते सिद्धिर-
भ्यासान्मोक्षमाप्नुयात् ॥ १७ ॥

टीका—इस हेतुसे मोक्षकांक्षीको उचित है कि, नित्य
अभ्यास करे अभ्याससे सिद्धि होती है और अभ्यासही-
से मुक्ति प्राप्त होती है ॥ १७ ॥

मूलम्-संविदंलभतेऽभ्यासायोगोभ्यासात्प्र-
वर्तते ॥ मुद्राणां सिद्धिरभ्यासादभ्यासा-
द्वायुसाधनम् ॥ १८ ॥ कालवञ्चनमभ्या-
सात्तथा मृत्युञ्जयो भवेत् ॥ वाक्षिसिद्धिः
कामचारित्वं भवेदभ्यासयोगतः ॥ १९ ॥

टीका—अभ्याससे ज्ञान प्राप्त होता है और अभ्याससे
योगमें प्रवृत्ति होती है और अभ्याससे मुद्रा सिद्ध
होती हैं और अभ्याससे वायुका साधन होता है और
अभ्याससे मनुष्य कालसे बचता है और अभ्याससे
मृत्युञ्जय होजाता है और अभ्यासयोगसे वाक्यसिद्धि
और मनुष्य इच्छाचारी होजाता है तात्पर्य यह है कि,
सब वस्तुके सिद्धिका कारण अभ्यास है इस हेतुसे अ-
लस्यको छोड़के जिस वस्तुमें मनुष्य अभ्यास करेगा
वह अवश्य सिद्ध होजायगा ॥ १८ ॥ १९ ॥

(९६) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

मूलम्—योनिमुद्रा परं गोप्या न देया यस्य
कस्यचित् ॥ सर्वथा नैव दातव्या प्राणैः
कण्ठगतैरपि ॥ २० ॥

टीका—यह योनिमुद्रा परमगोपनीय है अनधिका-
रीको कदापि न दे यह सर्वथा देनेके योग्य नहीं है यदि
कण्ठगत प्राण होजायें तो भी देना उचित नहीं है ॥ २० ॥
मूलम्—अधुना कथयिष्यामि योगसिद्धि-
करं परम् ॥ गोपनीयं सुसिद्धानां योगं
परमदुर्लभम् ॥ २१ ॥

टीका—हे देवी ! अब जो योग कहेंगे वह परमसिद्धिका
देनेवाला है सिद्ध लोगोंको इस परम दुर्लभ योगको
गोप्य रखना उचित है ॥ २१ ॥

मूलम्—सुसा गुरुप्रसादेन यदा जागर्ति कु-
ण्डली ॥ तदा सर्वाणि पद्मानि भिद्यन्ते
ग्रन्थयोपि च ॥ २२ ॥

टीका—गुरुके प्रसादसे निद्रिता कुण्डलिनी देवी जब
जागृत होती है तब सर्व पद्म और सर्व ग्रन्थी वेधित हो
जाती हैं अर्थात् सुषुम्णा रन्ध्रद्वारा प्राणवायु ब्रह्मरन्ध्र-
पर्यन्त संचार करने लगता है ॥ २२ ॥

मूलम्—तस्मात्सर्वप्रयत्नेन प्रबोधयितुमीश-

**रीम् ॥ ब्रह्मरन्धमुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं स
माचरेत् ॥ २३ ॥**

टीका—इसकारणसे यत्नपूर्वक ब्रह्मरन्धके मुखमें जो ईश्वरी कुण्डलिनी देवी शयन करती हैं उनको उठानेके अर्थ मुद्राका अभ्यास उचित है ॥ २३ ॥

मूलम्—महामुद्रा महाबन्धो महावेधश्च खे-
चरी ॥ जालधरो मूलबन्धो विपरीतकृति-
स्तथा ॥ २४ ॥ उड्हानं चैव वज्रोली दशमे
शक्तिचालनम् ॥ इदं हि मुद्रादशकं मुद्रा
णामुत्तमोत्तमम् ॥ २५ ॥

टीका—अब उत्तम मुद्राबन्ध वेध कहते हैं महामुद्रा, महाबन्ध, महावेध, खेचरीमुद्रा, जालन्धरबन्ध, मूल-बन्ध, विपरीतकरणीमुद्रा, उड्हानबन्ध, वज्रोलीमुद्रा और दशर्णी शक्तिचालनमुद्रा, यह दशों मुद्रा सबमें अतिउत्तम हैं ॥ २४ ॥ २५ ॥

अथ महामुद्राकथनम् ।

मूलम्—महामुद्रां प्रवक्ष्यामि तन्त्रेऽस्मिन्म-
मवल्लभे ॥ यां प्राप्य सिद्धाः सिद्धिं च
कपिलाद्याः पुरा·गताः ॥ २६ ॥

(९८) शिवसंहिता जाषाटीकासमेता ।

टीका—हे प्रिये पार्वती ! इस तन्त्रमें महामुद्रा जो हम कहते हैं इसको लाभ करके पूर्व कपिलआदि सिद्धवरको सिद्धि प्राप्त भई ॥ २६ ॥

मूलम्—अपसव्येन संपीडय पादमूलेन सादरम् ॥ गुरुपदेशतो योनिं गुदमेद्वान्तरालगाम् ॥ २७ ॥ सव्यं प्रसारितं पादं धृत्वा पाणियुगेन वै ॥ नवद्वाराणि संयम्य चिबुकं हृदयोपरि ॥ २८ ॥ चित्तं चित्तपथे दत्त्वा प्रभवेद्वायुसाधनम् ॥ महामुद्रा भवेदेषा सर्वतन्त्रेषु गोपिता ॥ २९ ॥ वामाङ्गेन समभ्यस्य दक्षाङ्गेनाभ्यसेत्पुनः ॥ प्राणायामं समं कृत्वा योगी नियतमानसः ॥ ३० ॥

टीका—वामपादके एडीसे गुदा और मेद्रके मध्यमें जो योनि है उसको आदरसहित गुरुके उपदेशपूर्वक पीडितकरे अर्थात् दबावे और दक्षिणपाद प्रसारके अर्थात् लम्बा करके दोनों हाथोंसे धरे और नवद्वारोंको रोक करके चिबुक अर्थात् ठोड़ीको हृदयपर स्थित करे और चित्तवृत्तिको चैतन्यमें स्थिर करके वायुका साधन करना उचित है यह महामुद्रा सर्वतन्त्रोंके प्रमाणसे गो-

प्पहै पहिले वामांगसे अभ्यास करके फिर दक्षिण अंगसे अभ्यास करे योगी स्थिरखुद्धिको उचित है कि, इस प्रकारसे प्राणायामको समकरे ॥२७॥२८॥२९॥३०॥
 मूलम्-अनेन विधिना योगी मन्दभाग्यो-
 पि सिद्ध्यति ॥ सर्वासामेव नाडीनां चालनं
 विन्दुमारणम् ॥३१॥ जीवनन्तु कषायस्य
 पातकानां विनाशनम् ॥ कुण्डलीतापनं
 वायोब्रह्मरन्ध्रप्रवेशनम् ॥ ३२ ॥ सर्वरो-
 गोपशमनं जठराग्निविवर्धनम् ॥ वपुषा
 कान्तिममलांजरामृत्युविनाशनम् ॥३३॥
 वांछितार्थफलं सौख्यमिन्द्रियाणां च मा-
 रणम् ॥ एतदुक्तानि सर्वाणि योगाहृदस्य
 योगिनः ॥ ३४ ॥ भवेदभ्यासतोऽवश्यं
 नात्र कार्या विचारणा ॥

टीका-इस विधानसे मन्दभाग्य योगीभी सिद्ध होजा-
 यगा और इस महामुद्राके प्रभावसे सर्व नाडीका च-
 लन सिद्ध होजायगा और विन्दु स्थिर होगा और जी-
 वनको आकर्षित रखेगा और सर्व पातकका नाश हो-
 जायगा और कुण्डलिनीको हठात्-उठाय वायुको ब्रह्मर-
 न्ध्रमें प्रवेश करेगा और जठराग्नि प्रज्वलित होके सर्वरो-

गेंका नाश करदेगा और शरीरमें सुन्दर कान्ति होगी और वृद्धावस्थासहित मृत्युका नाश होजायगा और सुखसहित वाञ्छित फल लाभ होगा और इन्द्रियोंका निय्रह रहेगा यह सब जो कहा है सो योगारूढ़ योगीको अभ्याससे वश होजाताहै इसमें संशय नहीं है निश्चय है ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

**मूलम्—गोपनीया प्रयत्नेन मुद्रेयं सुरपूजि-
ते ॥ यां तु प्राप्य भवाम्भोधेः पारं गच्छ-
न्ति योगिनः ॥ ३५ ॥**

टीका—हे सुरपूजिते देवी ! यह मुद्रा यत्न करके गोपनीय है योगीलोग इसको लाभ करके संसाररूपी समुद्रके पार होजाते हैं ॥ ३५ ॥

**मूलम्—मुद्रा कामदुघा ह्येषा साधकानां म-
योदिता ॥ गुप्ताचारेण कर्तव्या न देया
यस्य कस्यचित् ॥ ३६ ॥**

टीका—हे देवी ! यह मुद्रा जो हमने कही है साधकोंको कामधेनरूप है अर्थात् वाञ्छितफलकी दाता है इसको गुप्त करके अभ्यास करना उचित है और सबको अर्थात् अनधिकारीको देना उचित नहीं है ॥ ३६ ॥

अथ महाबन्धकथनम् ।

मूलम्—ततः प्रसारितः पादो विन्यस्य तं मुरु-

परि ॥ ३७ ॥ गुदयोनिं समाकुंच्य कृत्वा
चापानमूर्ध्वंगम् ॥ योजयित्वा समानेन
कृत्वा प्राणमधोमुखम् ॥ ३८ ॥ बन्धयेदू-
र्ध्वंगत्यर्थं प्राणापानेन यः सुधीः ॥ कथि-
तोऽयं महाबन्धः सिद्धिमार्गप्रदायकः ॥
॥ ३९ ॥ नाडीजालाद्रसव्यूहो मूर्धानं
याति योगिनः ॥ उभाभ्यां साधयेत्प-
द्ध्यामेकैकं सुप्रयत्नतः ॥ ४० ॥

टीका—तदनन्तर पादके प्रसारके अर्थात् फैलाके दक्षिणचरणको वाम ऊरुपर स्थित करके और गुदा और योनिको आकुञ्चन करके अपानको ऊर्ध्वंग करके समानवायुके साथ सम्बन्ध करके और प्राणवायुको अधोमुख करे यह बन्ध प्राण अपानके ऊर्ध्वंगतिके हेतु बुद्धिमान् साधकके प्रति कहाहै और यह महाबन्ध सिद्धिमार्गका दाता है और योगीलोगोंके नाडियोंका रससमूह इस बन्धसे ऊपरको गमन करताहै यह दोनों मुद्रा और बन्ध एक एकको दोनों अंगसे यत्न करके करना उचितहै ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥

मूलम्—भवेदभ्यासतो वायुः सुषुम्नामध्य-
सङ्गतः ॥ अनेन वपुषः पुष्टिर्दृढबन्धोऽस्थि-

(१०२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

पञ्चरे ॥ ४१ ॥ संपूर्णहृदयो योगी भव-
न्त्येतानि योगिनः ॥ बन्धेनानेन योगी-
न्द्रः साधयेत्सर्वमीप्सितम् ॥ ४२ ॥

टीका—अभ्याससे प्राणवायु सुषुम्णाके मध्यमें
स्थित होगा और इस महाबंधके प्रभावसे शरीर पुष्ट
रहेगा और अस्थिपंजर और शरीरका सब बन्ध दृढ़
अर्थात् बलिष्ठ होजायगा और योगीका हृदय सन्तोषसे
पूर्ण और आनन्दित रहेगा. यह सब योगीको इस महा-
बन्धके प्रभावसे स्वयं लाभ होजायगा और इसी
बन्धके साधनसे योगी अपनी इच्छाके अनुसार सब
सिद्ध करलेगा ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

अथ महावेधकथनम् ।

मूलम्—अपानप्राणयोरैक्यं कृत्वा त्रिभुवने-
श्वरी॥ महावेधस्थितो योगी कुक्षिमापूर्य
वायुना ॥ स्फित्त्वौ संताडयेद्वीमान्वेधो-
ऽयं कीर्तितो मया ॥ ४३ ॥

टीका—हे त्रिभुवनेश्वरी ! अपान और प्राणको एक-
करके महावेधस्थित योगी उदरको वायुसे पूर्ण करके
बुद्धिमान् दोनों स्फित्त्व अर्थात् पार्श्वको ताडन करे
इसको हमने वेध कहा है ॥ ४३ ॥

**मूलम्-वेधनानेन संविध्य वायुनायोगिपुंग-
वः ॥ ग्रंथि सुषुम्णामार्गेण ब्रह्मग्रंथि भि-
नत्यसौ ॥ ४४ ॥**

टीका—बुद्धिमान् योगी इस वेधद्वारा वायुसे सर्व
ग्रन्थीको वेधन करके सुषुम्णारन्त्रद्वारा ब्रह्मग्रंथीको
भेदन करता है ॥ ४४ ॥

**मूलम्-यःकरोति सदाभ्यासं महावेधं सुगो-
पितम् ॥ वायुसिद्धिर्भवेत्स्य जरामरण
नाशिनी ॥ ४५ ॥**

टीका—जो मनुष्य इस उत्तम महावेधको गोपित
करके सर्वदा अभ्यास करेगा उसकी जरामरण नाशि-
नी वायुसिद्धि होजायगी ॥ ४५ ॥

**मूलम्-चक्रमध्ये स्थिता देवाः कम्पन्ति
वायुताडनात् ॥ कुण्डल्यपि महामाया
कैलासे सा विलीयते ॥ ४६ ॥**

टीका—शरीरस्थ चक्रमें जो देवता हैं वह वायुके
ताडनसे कम्पायमान होते हैं और महामाया कुण्डलि-
नी देवी कैलास अर्थात् ब्रह्मस्थानमें लय होती है तात्प-
र्य यह है कि, चक्रस्थित देवता अर्थात् गणेशजी, ब्रह्मा,
विष्णु, महादेवजी, मायाधीश ज्योतिस्वरूप ईश्वर क्रमसे

(१०४) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

आधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञाच-
क्रमें जो स्थित हैं वायुके वेगसे चक्रबन्धको छोड़देते हैं
तब वायुका प्रवेश होता है इसहेतुसे यह महावेद अवश्य
करना उचित है ॥ ४६ ॥

मूलम्—महामुद्रामहाबन्धौ निष्फलौ वेधव-
जितौ ॥ तस्माद्योगी प्रयत्नेन करोति
त्रितयं क्रमात् ॥ ४७ ॥

टीका—महामुद्रा और महाबन्ध विना वेधके निष्फ-
ल हैं अर्थात् वेध न करनेसे मुद्रा और बन्धका कुछ फल
नहोगा इसहेतुसे योगीको उचित है कि, यत्नपूर्वक क्रम-
से मुद्रा, बन्ध, वेध तीनोंका अभ्यास करे ॥ ४७ ॥

मूलम्—एतत्त्रयं प्रयत्नेन चतुर्वारं करोति
यः ॥ षण्मासाभ्यन्तरं मृत्युं जयत्येव
न संशयः ॥ ४८ ॥

टीका—जो यह मुद्रा बन्ध वेध तीनोंका अभ्यास
यत्न करके रात्रि दिवसमें चार खार करेगा सो छःमास-
में निश्चय मृत्युको जीतलेगा इसमें संशय नहीं है ॥ ४८ ॥

मूलम्—एतत्रयस्य माहात्म्यं सिद्धो जाना-
ति नेतरः ॥ यज्ञात्वा साधकाः सर्वे
सिद्धिं सम्यग्लभन्ति वै ॥ ४९ ॥

टीका—यह तीनोंके माहात्म्यको सिद्धलोक जानते हैं इतरलोग अर्थात् सांसारिक मनुष्य नहीं जानते इसके जानलेनेसे साधकलोगोंको सर्वसिद्धिलाभ होती है ॥४९॥
मूलम्—गोपनीया प्रयत्नेन साधकैः सिद्धि-मीप्सुभिः ॥ अन्यथा च न सिद्धिः स्यान्मुद्राणामेष निश्चयः ॥ ५० ॥

टीका—सिद्धिकांशी साधकको उचित है कि, यह सब मुद्राको यत्नपूर्वक गोप्य रखते इनको प्रकाश करनेसे कदापि सिद्धि नहोगी यह निश्चय है ॥ ५० ॥

अथ खेचरीमुद्राकथनम् ।

मूलम्—भ्रुवोरन्तर्गतां दृष्टिं विधाय सुदृढां सुधीः ॥ ५१ ॥ उपविश्यासने वज्रे नानो-पद्रववर्जितः ॥ लम्बिकोर्ध्वं स्थिते गते रसनां विपरीतगाम् ॥ ५२ ॥ संयोजये-प्रयत्नेन सुधाकूपे विचक्षणः ॥ मुद्रैषा खेचरी प्रोक्ता भक्तानामनुरोधतः ॥ ५३ ॥

टीका—बुद्धिमान् साधक दोनों भ्रु अर्थात् भ्रुकुटी-के मध्यमें दृढ़ करके दृष्टिको स्थिर करके और नाना उपद्रवरहित होके वज्रासन अर्थात् सिद्धासनसे स्थित होयके जिह्वाको विपरीत अर्थात् ऊपर सुधाकूप स्वरूप

(१०६) शिवसंहिता जाषाटीकासमेता ।

तालूविवरमें यत्नसे बुद्धिमान् साधक संयोजित करे
अर्थात् संबन्धकरे हेपार्वती ! भक्तोंके प्रति हमने प्रकाश
करके यह खेचरीमुद्रा कही है ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥
मूलम्-सिद्धीनां जननी ह्येषा मम प्राणा-
धिकप्रिया ॥ निरन्तरकृताभ्यासात्पी-
यूषं प्रत्यहं पिबेत् ॥ तेन विग्रहसिद्धिः
स्यान्मृत्युमातङ्गके सरी ॥ ६४ ॥

टीका—यह खेचरीमुद्रा सर्वसिद्धिकी माता है और
हेदेवी ! हमको प्राणसेभी अधिक प्रिय है जो निरंतर इ-
सके अभ्याससे नित्य अमृतपान करता है उस कारणसे
शरीर सिद्ध होजाता है अर्थात् नाश नहीं होता और
मृत्युरूप हस्तीको यह खेचरीरूपी सिंह हन्ता है ॥ ६४ ॥
मूलम्-अपवित्रः पवित्रो वा सर्वविस्थां
गतोऽपि वा ॥ खेचरी यस्य शुद्धातु स
शुद्धो नात्र संशयः ॥ ६५ ॥

टीका—अपवित्र होय वा पवित्र होय अथवा किसी
अवस्थामें होय जिसकों यह खेचरीमुद्रा सिद्ध है वह
सर्वदा शुद्ध है इसमें संशय नहीं है ॥ ६५ ॥
मूलम्-क्षणार्धं कुरुते यस्तु तीर्त्वा पापम-
हार्णवम् ॥ दिव्यभोगात्प्रभुका च
सत्कुले स प्रजायते ॥ ६६ ॥

टीका—जो इस खेचरीमुद्राको क्षणार्धभी करेगा वह महापापसागरके पार होके सुखपूर्वक स्वर्गका भोग भोगेगा पश्चात् उत्तमकुलमें उसका जन्म होगा ॥५६॥
मूलम्—मुद्रैपा खेचरी यस्तु स्वस्थ्यचित्तो ह्यतन्द्रितः ॥ शतब्रह्मगतेनापि क्षणार्धं मन्यते हि सः ॥ ५७ ॥

टीका—जो मनुष्य इस खेचरीमुद्राको स्वस्थ्यचित्त ब्रह्मपरायणहोके करेगा उसको यदि शतब्रह्माभी गत भावको प्राप्तहीं क्षणार्धं प्रतीत होगा ॥ ५७ ॥
मूलम्—गुरुरुपदेशतो मुद्रां यो वेत्ति खेचरी-मिमाम् ॥ नानापापरतो धीमान्स याति परमां गतिम् ॥ ५८ ॥

टीका—गुरुरुपदेशसे जिसको यह खेचरीमुद्रा लाभ होगी वह यदि नानापापरत होगा तो भी बुद्धिमान् साधक परमगतिको प्राप्तहोगा अर्थात् मोक्ष होजायगा ॥ ५८ ॥

मूलम्—सा प्राणसदृशी मुद्रा यस्मिन्क-स्मिन्न दीयते ॥ प्रच्छाद्यते प्रयत्नेन मुद्रेयं सुरपूजिते ॥ ५९ ॥

टीका—हे सुरपूजिते पार्वती ! यह खेचरीमुद्रा प्राणके

(१०८) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

बराबर है सामान्य मनुष्यको देना उचित नहीं है इस
मुद्राको यत्न करके गोपित रखनेमें कल्पण है ॥ ६९ ॥

अथ जालन्धरबन्ध ।

मूलम्—बद्धागलशिराजालं हृदये चिबुकं
न्यसेत् ॥ बन्धो जालन्धरः प्रोक्तो देवाना-
मपि दुर्लभः ॥ ६० ॥ नाभिस्थवहिर्जन्तूनां
सहस्रकमलच्युतम् ॥ पिबेत्पीयूषविस्तारं
तदर्थं बन्धयेदिमम् ॥ ६१ ॥

टीका—गुरुपदेशद्वारा गलशिराजालको बांधके
चिबुक अर्थात् ठोड़ीको हृदयमें स्थित करे इसको जा-
लन्धरबन्ध कहते हैं यह देवतोंकोभी दुर्लभ है नाभी-
स्थित जीव जठरानल सहस्रदल कमलसे जो अमृत
स्रवता है उसको पान करजाता है इस हेतुसे यह जाल-
न्धरबन्ध करना उचित है तात्पर्य यह है कि, नाभिस्थित
सूर्य अमृतको पान करजाते हैं इसीकारणसे मृत्यु हो-
ती है इस जालन्धरबन्धके करनेसे चंद्रमण्डलच्युत अमृत
सूर्यमण्डलमें नहीं जाता योगी आपही पान करके चिरं-
जीव रहता है ॥ ६० ॥ ६१ ॥

मूलम्—बन्धेनानेन पीयूषं स्वयं पिबति बु-
द्धिमान् ॥ अमरत्वश्च सम्प्राप्य मोदते
भुवनत्रये ॥ ६२ ॥

टीका—इस जालन्धरबन्धके प्रभावसे बुद्धिमान् योगी स्वयं अमृत पान करताहै और अमरत्वको पाय-
के तीनोंलोकमें आनन्दपूर्वक विचरता है ॥ ६२ ॥

मूलम्—जालन्धरो बन्ध एष सिद्धानां सि-
द्धिदायकः ॥ अभ्यासः क्रियते नित्यं यो-
गिना सिद्धिमिच्छता ॥ ६३ ॥

टीका—यह जालन्धरबन्ध सिद्धोंको सिद्धिदेनेवाला
है इस कारणसे सिद्धिकांक्षी योगीको इसका नित्य अ-
भ्यास करना उचित है ॥ ॥ ६३ ॥

अथ मूलबन्धः ।

मूलम्—पादमूलेन संपीडय गुदमार्गेषु य-
न्त्रितम् ॥ ६४ ॥ बलादपानमाकृष्य क्रमा-
दूर्ध्वं सुचारयेत् ॥ कलिपतोऽयं मूलबन्धो
जरामरणनाशनः ॥ ६५ ॥

टीका—पादमूल अर्थात् एडीसे गुदामार्गको आकु-
ञ्चन करके पीडितकरे और बलसे अपानवायुको आक-
र्षण करके ऊर्ध्वको लेजाय अर्थात् प्राणके साथ
सम्बन्धकरे इसको मूलबन्ध कहते हैं यह बन्ध जरा मरणका
नाश करनेवालाह ॥ ६४ ॥ ६५ ॥

मूलम्—अपानप्राणयोरैक्यं प्रकरोत्यधि-

(११०) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

कलिपतम् ॥ बन्धेनानेन सुतरां योनिमुद्रा
प्रसिद्धयति ॥ ६६ ॥

टीका—इस कलिपतबन्धसे अपान और प्राणको
एक करे और इसी मूलबन्धके प्रभावसे योनिमुद्रा
आपही सिद्ध होजायगी ॥ ६६ ॥

मूलम्—सिद्धायां योनिमुद्रायां किं न सिध्य-
ति भूतले ॥ बन्धस्यास्य प्रसादेन गग्ने
विजितानिलः ॥ पद्मासने स्थितो योगी
भुवमुत्सृज्य वर्तते ॥ ६७ ॥

टीका—योनिमुद्राके सिद्ध होनेसे सिद्धलोगोंको
इस संसारमें सब सिद्ध होसकताहै इस मूलबन्धके प्रसा-
दसे वायुको योगी जीतके पद्मासनस्थित होके भूमिके
त्याग देगा और आकाशमें गमन करेगा ॥ ६७ ॥

मूलम्—सुग्रसे निर्जने देशे बन्धमेनं सम-
भ्यसेत् ॥ संसारसागरं तर्तु यदीच्छेयो-
गिपुंगवः ॥ ६८ ॥

टीका—पवित्र योगी यदि संसारसागरसे पार होने-
की इच्छा करे तो निर्जनदेश और गुप्तस्थानमें इस
मूलबन्धका अभ्यास करना उचित है ॥ ६८ ॥

अथ विपरीतकरणी मुद्रा ।

मूलम्—भूतले स्वशिरोदत्त्वा खेनयेच्चरणंद्र-

यम् ॥ विपरीतकृतिश्चैषा सर्वतन्त्रेषु गो-
पिता ॥ ६९ ॥

टीका—साधक अपने शिरको भूमिपर धेरे और
दोनों चरणोंको ऊपर आकाशमें निरालम्ब स्थिर करे यह
विपरीतकरणी मुद्रा सर्वतन्त्रोकरके गोपित है अर्थात्
प्रकाश करने योग्य नहीं है ॥ ६९ ॥

मूलम्—एतद्यः कुरुते नित्यमभ्यासं याम-
मात्रतः ॥ मृत्युं जयति योगीशः प्रलये
नापि सीदाति ॥ ७० ॥

टीका—इसप्रकारसे इस मुद्राका अभ्यास नित्य
एक प्रहर करे तो योगी निश्चय मृत्युको जीतलेगा
और प्रलयमेंभी उसको कुछ कष्ट न होगा ॥ ७० ॥
मूलम्—कुरुतेऽमृतपानं यः सिद्धानां सम-
तामियात् ॥ स सेव्यः सर्वलोकानां बन्ध-
मेनं करोति यः ॥ ७१ ॥

टीका—जो पुरुष शरीरस्थअमृतपान करता है उस-
को सिद्धोंकी समता प्राप्त होती है और इस मुद्राबन्ध-
को जो करताहै वह सर्वलोकमें पूजनीय है ॥ ७१ ॥
मूलम्—नाभेष्ठध्वंमधश्चापि तानं पश्चिम-
माचरेत् ॥ उद्धयानबन्धं एष स्यात्सर्वदुः-

(११२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

खौवनाशनः ॥ ७२ ॥ उदरे पश्चिमं तानं
नाभेष्ठूर्ध्वं तु कारयेत् ॥ उद्धुच्यानाख्यो-
त्र बन्धोयं मृत्युमातङ्गकेसरी ॥ ७३ ॥

टीका—नाभिसे ऊपर और नीचेको आकुञ्चन करे
इसको उद्धुच्यानबन्ध कहते हैं यह दुःखके समूहको
नाशकरनेवाला है उदरको पीछे आकर्षण करे और
नाभिसे ऊपर भागमें आकुञ्चन करे यह उद्धुच्यानबन्ध है
और मृत्युरूपी मातङ्गका नाशकरनेवाला यह बंध-
रूपी सिंह है ॥ ७२ ॥ ७३ ॥

मूलम्—नित्यं यः कुरुते योगी चतुर्वारं
दिने दिने ॥ तस्य नाभेस्तु शुद्धिः स्याद्येन
सिद्धो भवेन्मरुत् ॥ ७४ ॥

टीका—जो योगी नित्य इस बंधको चारवार अ-
भ्यास करेगा उसका नाभिचक शुद्ध होके वायु सिद्ध
होजायगा ॥ ७४ ॥

मूलम्—षणमासमभ्यसन्योगी मृत्युं जयति
निश्चितम् ॥ तस्योदराग्निर्ज्वलति रसवृ-
द्धिः प्रजायते ॥ ७५ ॥

टीका—योगी यदि छः मास इस बंधका अभ्यास
करे तो निश्चय मृत्युको जीतलेगा और उसका जठरा-

न ल विशेष प्रज्वलित होगा और रसकी बृद्धि उत्पन्न होगी ॥ ७५ ॥

मूलम्—अनेन सुतरां सिद्धिर्विग्रहस्य प्रजायते ॥ रोगाणां संक्षयश्चापि योगिनो भवति ध्रुवम् ॥ ७६ ॥

टीका—इस उड्हुयानबन्धके प्रभावसे योगीका शरीर आपही सिद्ध हो जायगा अर्थात् अमर होजायगा और सर्व रोगोंका निश्चय क्षय होजायगा ॥ ७६ ॥

मूलम्—गुरोर्लब्ध्वा प्रयत्नेन साधयेत्तु विचक्षणः ॥ निर्जने सुस्थिते देशे बन्धं परमदुर्लभम् ॥ ७७ ॥

टीका—गुरुसे यत्नपूर्वक इस परमदुर्लभ बन्धको लाभ करके बुद्धिमान् साधक एकांतस्थानमें स्वस्थचित्त होके साधन करे ॥ ७७ ॥

अथ वज्रोलीमुद्रा ।

मूलम्—वज्रोलीं कथयिष्यामि संसारध्वान्तनाशिनीम् ॥ स्वभक्तेभ्यः समासेन गुह्याद्वृह्यतमामपि ॥ ७८ ॥

टीका—हे देवी ! संसारतमनाशिनी परमगोपनीय वज्रोली मुद्रा भक्तलोगोंके प्रति हम कहते हैं ॥ ७८ ॥

(११४) शिवसंहिता जाषाटीकासमेता ।

मूलम्—स्वेच्छया वर्तमानोपि योगोक्तनिय-
मैर्विना॥ मुक्तो भवति गार्हस्थो वज्रोल्य-
भ्यासयोगतः ॥ ७९ ॥

टीका—गृहस्थ अपनी इच्छापूर्वक गृहमें भोग करे-
गा और योगमें जो नियम कहा है उसके बिना इस व-
ज्रोलीमुद्राके योग अभ्याससे मुक्त होजायगा ॥ ७९ ॥
मूलम्—वज्रोल्यभ्यासयोगोऽयं भोगयुक्ते-
पि मुक्तिदः ॥ तस्मादतिप्रयत्नेन कर्त-
व्यो योगिभिः सदा ॥ ८० ॥

टीका—यह वज्रोलीका योगअभ्यास भोगयुक्त म-
नुष्योंके प्रति मुक्तिका दाता है इसकारणसे अतियत
करके सर्वदा योगीको अभ्यास करना उचित है ॥ ८० ॥

मूलम्—आदौ रजः स्त्रियो योन्यायत्नेन वि-
धिवत्सुधीः ॥ आकुञ्च्य लिंगनालेन स्व-
शरीरे प्रवेशयेत् ॥ ८१ ॥ स्वकं बिंदुञ्च स-
ख्वन्ध्य लिंगचालनमाचरेत् ॥ दैवाच्चल-
ति चेदूर्ध्वं निवद्वो योनिमुद्रया ॥ ८२ ॥
वाममार्गेऽपि तद्विन्दुं नीत्वा लिङ्गं निवार-
येत् ॥ क्षणमात्रं योनितो यः पुमांश्चालन-

माचरेत् ॥ ८३ ॥ गुरुपदेशतो योगी हुंहु-
ड़ारेण योनितः ॥ अपानवायुमाकुञ्च्य
बलादाकृष्य तद्रजः ॥ ८४ ॥

टीका—प्रथम बुद्धिमान् साधक यत्र करके विधान
पूर्वक स्त्रीके योनिसे रजको लिङ्गनालमें आकर्षण क-
रके अपने शरीरमें प्रवेश करे और अपने विन्दुको नि-
रोध करके लिङ्ग चालनकरे यदि दैवात् विन्दु अपने
स्थानसे चले तो योनिमुद्रासे निरोध करके ऊपरको
आकर्षण करे और उस विन्दुको वामभागमें स्थित क-
रके क्षणमात्र लिङ्गचालन निवारण करे फिर गुरुपदे-
शद्वारा योगी हुंहुकार शब्द उच्चरणपूर्वक योनिमें
लिङ्ग चालन करे और बलसे अपानवायुको आकुञ्चन
करके स्त्रीके रजको आकर्षण करे इसको वत्रोली मुद्रा
कहते हैं ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥

मूलम्—अनेन विधिना योगी क्षिप्रं योगस्य
सिद्धये ॥ गव्यमुक्तुरुते योगी गुरुपा-
दाव्यजपूर्वकः ॥ ८५ ॥

टीका—इस विधानसे योगीको शीघ्र योग सिद्ध हो-
गा और गुरुपादपवूजक योगी शरीरस्थ अमृतपान
करेगा ॥ ८५ ॥

(११६) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

मूलम्—विन्दुर्विधुमयो ज्ञेयो रजः सूर्यमय-
स्तथा ॥ उभयोर्मेलनं कार्यं स्वशरीरे प्र-
वेशयेत् ॥ ८६ ॥

टीका—विन्दुरूपी चन्द्र और रजरूपी सूर्य यह
जानकर दोनोंका सम्बन्ध करके अपने शरीरमें प्रवेश
करना उचित है ॥ ८६ ॥

मूलम्—अहं विन्दू रजः शक्तिरुभयोर्मेलनं
यदा ॥ योगिनां साधनावस्था भवेद्विद्यं
वपुस्तदा ॥ ८७ ॥

टीका—यदि शिवरूपी विन्दु और रजरूपी शक्ति
यह दोनोंका सम्बन्ध होगा तब योगीका साधनसे
दिव्य शरीर अर्थात् देवतोंके समान शरीर होगा तात्पर्य
यह है कि शिवशक्ति अर्थात् माया ईश्वरके सम्बन्ध वा
मायाको ईश्वरमें लय करनेसे जिसको अध्यारोप अप-
वाद कहते हैं योगी मोक्ष होता है अभिप्राय यह है कि,
रजविन्दुका सम्बन्ध जिस साधकको सिद्ध होजाता है
वह मुक्त है ॥ ८७ ॥

मूलम्—मरणं विन्दुपातेन जीवनं विन्दुधा-
रणे ॥ तस्मादतिप्रयत्नेन कुरुते विन्दुधा-
रणम् ॥ ८८ ॥

टीका—बिन्दुपात होनेसे मृत्यु होती है और बिन्दु-
के धारणसे प्राणी जीवता है इस कारणसे यत्नसे बिन्दु-
को धारण रखना उचित है ॥ ८८ ॥

मूलम्—जायते म्रियते लोके बिन्दुना नात्र
संशयः ॥ एतज्ज्ञात्वा सदा योगी बिन्दु-
धारणमाचरेत् ॥ ८९ ॥

टीका—प्राणीका जन्म मरण बिन्दुसे होता है इसमें
संशय नहीं है. इस हेतुसे इसको विचारके योगीको उ-
चित है कि, बिन्दुको सर्वदा धारण रखें ॥ ८९ ॥

मूलम्—सिद्धे बिन्दौ महायत्ने किं न सिध्य-
ति भूतले ॥ यस्य प्रसादान्महिमा ममा-
प्येतादृशो भवेत् ॥ ९० ॥

टीका—हे पार्वती ! यत्नपूर्वक बिन्दुके सिद्ध होनेसे
संसारमें क्या नहीं सिद्ध होसक्ता अर्थात् सब सिद्ध हो
सक्ता है इसीके प्रसादसे हमारी ऐसी महिमा है ॥ ९० ॥

मूलम्—बिन्दुः करोति सर्वेषां सुखं दुःखञ्च
संस्थितः ॥ संसारिणां विमृढानां जरामर-
णशालिनाम् ॥ ९१ ॥ अयं च शांकरो
योगो योगिनामुत्तमोत्तमः ॥ ९२ ॥

टीका—बिन्दु संसारी मनुष्योंके सुख और दुःखका

(११८) शिवसंहिता जाषाटीकासमेता ।

कारण है और मूढ़लोगोंके मूढ़ताका और जरामरण शील लोगोंका अर्थात् सबका यही विन्दु हेतु है योगी लोगोंके प्रति यह हमारा उत्तम योग है ॥ ११ ॥ १२ ॥
मूलम्—अभ्यासात्सिद्धिमाप्नोति भोगयु-
क्तोऽपि मानवः ॥ सकलः साधिताथौपि
सिद्धो भवति भूतले ॥ १३ ॥

टीका—भोगयुक्त मनुष्योंकोभी अभ्याससे सिद्धि प्राप्त होतीहै और सकल वाञ्छितफल संसारमें सिद्ध होजाते हैं ॥ १३ ॥

मूलम्—भुक्ता भोगानशेषान् वै योगेनानेन
निश्चितम् ॥ अनेन सकला सिद्धियौगिनां
भवति ध्रुवम् ॥ सुखभोगेन महता तस्मा-
देनं समभ्यसेत् ॥ १४ ॥

टीका—इस योगअभ्यासद्वारा निश्चय अशेषभोग भोगनेसे सुखी होगा और योगीलोगोंको इस वज्रो-
लीमुद्रासे सकल सिद्धी अवश्य प्राप्तहोती हैं और महानसुख भोगते हुए यह साधना सिद्ध होगी इसलि-
ये इसका अभ्यास करना उचित है ॥ १४ ॥

मूलम्—सहजोल्यम् रोली च वज्रोल्या भेद-
तो भवेत् ॥ येन केन प्रकारेण विन्दुं योगी
प्रधारयेत् ॥ १५ ॥

टीका—ब्रोडीके भेदसे सहजोली और अमरोली मुद्राकी संज्ञा है योगिको उचित है कि सवप्रकारसे विन्दुको धारण करे ॥ ९५ ॥

मूलम्-दैवाच्चलति चेद्वेगे मेलनं चन्द्रसूर्य-
योः ॥ अमरोलिरियं प्रोक्ता लिंगनालेन
शोषयेत् ॥ ९६ ॥

टीका—यदि हठात् वेगवश विन्दु छले और रजविन्दु-का सम्बन्ध होजाय तो इसको अमरोली कहते हैं परंतु लिङ्गनालद्वारा रजविन्दु दोनोंको शोषण करे ॥ ९६ ॥
मूलम्-गतं विन्दुं स्वकं योगी बन्धयेद्योनिमु-
द्रया ॥ सहजोलिरियं प्रोक्ता सर्वतन्त्रेषु
गोपिता ॥ ९७ ॥

टीका—निजविन्दु चलायमान होय तो योगी योनि-मुद्राके वर्धसे अवरोध करे इसको सहजोली कहते हैं यह सर्वतन्त्रों करके गोपनीय है ॥ ९७ ॥

मूलम्-संज्ञाभेदाद्वेद्वेदः कार्यं तुल्यग-
तिर्यदि ॥ तस्मात्सर्वप्रयत्नेन साध्यते
योगिभिः सदा ॥ ९८ ॥

टीका—यदि कार्य एक समान है परन्तु संज्ञासे अमरोली और सहजोली दो भेद भया है इस हेतुसे

(१२०) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

योगिको उचित है कि, यह दोनों अमरोली और सहजो-
लीका यत्नपूर्वक सर्वदा साधन करे ॥ ९८ ॥

मूलम्-अयं योगो मया प्रोक्तो भक्तानां
स्नेहतः प्रिये ॥ गोपनीयः प्रयत्नेन न
देयो यस्य कस्यचित् ॥ ९९ ॥

टीका—हे प्रिये पार्वती ! हम भक्तोंपर प्रेम करके यह
योग जो कहा है यत्नपूर्वक गोपनीय है सामान्य मनुष्य-
को कदापि देना उचित नहीं है ॥ ९९ ॥

मूलम्-एतद्व्यतिमं गुह्यं न भूतं न भविष्य-
ति ॥ तस्मादेतत्प्रयत्नेन गोपनीयं सदा
बुधैः ॥ १०० ॥

टीका—इस वत्रोलीमुद्रासे अधिक गोपनीय न कुछ
भया है न होगा. इसकारणसे बुद्धिमान साधकको
यत्नपूर्वक इसको गोप्य रखना उचित है ॥ १०० ॥

मूलम्-स्वमूत्रोत्सर्गकाले यो बलादाकृ-
ष्य वायुना ॥ स्तोकं स्तोकं त्यजेन्मूत्रमू-
र्छमाकृष्य तत्पुनः ॥ १०१ ॥ गुरुपदिष्टमा-
र्गेण प्रत्यहं यः समाचरेत ॥ बिन्दुसिद्धि-
र्भवेत्तस्य महासिद्धिप्रदायिंका ॥ १०२ ॥

टीका—गुह्यके उपदेशपूर्वक सर्वदा मूत्रत्यागनेके समय बलकरके वायुसे आकर्षणपूर्वक थोड़ा थोड़ा मूत्र त्यागकरे फिर ऊपरको आकर्षण करे तो उसका विन्दु सिद्ध होजायगा यह विन्दुकी सिद्धी महासिद्धीकी दाता है अर्थात् परमपदको प्राप्त करती है ॥ १०१ ॥ १०२ ॥ मूलम्—षणमासमभ्यसेद्यो वै प्रत्यहं गुरु-शिक्षया ॥ शतांगनेपि भोगेपि तस्य वि-न्दुर्न नश्यति ॥ १०३ ॥

टीका—गुह्यके शिक्षापूर्वक योगी यदि छः मास नित्य इसका अभ्यासकरे तो शत स्त्रीसे भोगकरेगा तो भी उसका विन्दुपात नहोगा ॥ १०३ ॥

मूलम्—सिद्धे विन्दौ महायत्ने किं न सिद्धय-ति पार्वति ॥ ईशत्वं यत्प्रसादेन ममापि दुर्लभं भवेत् ॥ १०४ ॥

टीका—हेपार्वती ! जब महायत्नसे विन्दु सिद्ध होजायगा तब क्या नहीं सिद्धहोगा अर्थात् सब सिद्ध होजायगा इसके प्रसादसे यह दुर्लभं ईशत्वं हमको प्राप्त भयाहै ॥ १०४ ॥

अथ शक्तिचालनमुद्रा ।

मूलम्—आधारकमले सुसाँ चालयेत्कुण्ड-

(१२२) शिवसंहिता भाषार्टीकासमैता ।

लीं दृढाम् ॥ अपानवायुमारुद्ध्र बलादाकृ-
ष्य बुद्धिमान् ॥ १०५ ॥ शक्तिचालनमु-
द्रेयं सर्वशक्तिप्रदायिनी ॥ १०६ ॥

टीका—आधारकमलमें घोर निद्रित कुण्डलिनीको
बुद्धिमान् अपानवायुपर आहूद्धोके आकर्षणपूर्वक
हठात् चलावे अर्थात् भ्रमावे यह शक्तिचालनमुद्रा
सर्वशक्तिकी दाता है ॥ १०६ ॥ १०६ ॥

मूलम्—शक्तिचालनमेवं हि प्रत्यहं यः स-
माचरेत् ॥ आयुर्वृद्धिर्भवेत्स्य रोगाणां
च विनाशनम् ॥ १०७ ॥

टीका—यह शक्तिचालनमुद्रा जो प्रतिदिन करे तो
उसके आयुकी वृद्धि होगी और सर्वरोगोंका इस मुद्राके
प्रभावसे नाश होजायगा ॥ १०७ ॥

मूलम्—विहाय निद्रां भुजगी स्वयमूर्ध्वे
भवेत्खलु ॥ तस्मादभ्यासनं कार्यं योगि-
ना सिद्धिमिच्छता ॥ १०८ ॥

टीका—इस शक्तिचालनके साधनसे कुण्डलिनी नि-
द्राको त्यागके आपही ऊर्ध्वगामी होजायगी यह नि-
श्चय है. इस हेतुसे सिद्धिकी इच्छा करनेवाले योगीको
उचित् है कि, इसका अभ्यास करे ॥ १०८ ॥

मूलम्-यः करोति सदाभ्यासं शक्तिचाल-
नमुत्तमम् ॥ येन विग्रहसिद्धिः स्यादणि-
मादिगुणप्रदा ॥ गुरुपदेशविधिना तस्य
मृत्युभयं कुतः ॥ १०९ ॥

टीका—यदि इस उत्तमशक्तिचालनमुद्राका सदा अभ्यासकरे तो उसका शरीर सिद्ध अर्थात् अमर हो-जायगा और यह मुद्रा अणिमादिक सिद्धिकी दाता है. गुरुके उपदेशपूर्वक विधानसे जो इसका अभ्यास करे तो उसको मृत्युका भय नहीं है ॥ १०९ ॥

मूलम्-मुहूर्तद्वयपर्यन्तं विधिना शक्ति-
चालनम् ॥ ११० ॥ यः करोति प्रयत्नेन त-
स्य सिद्धिरदूरतः ॥ युक्तासनेन कर्तव्यं
योगिभिः शक्तिचालनम् ॥ १११ ॥

टीका—जो विधानपूर्वक यत्नसे यदि दोमुहूर्तपर्यंत शक्तिचालन करे तो उसको सर्वसिद्धिकी प्राप्ति होगी. योगीको उचित है कि, गुरुके उपदेशानुसार योगासनसे युक्त होके शक्तिचालनका अभ्यास करे ॥ ११० ॥ १११ ॥

मूलम्-एतत्सुमुद्रादशकं न भूतं न भविष्य-
ति ॥ एकैकाभ्यासने मिद्धिः सिद्धो भव-
ति नान्यथा ॥ ११२ ॥

(१२४) शिवसंहिता भाषाटीकासमैता ।

टीका—हे पार्वती! यह दशमुद्रा जो हमने कहा है इसके समान न कुछ भया है न होगा इसके एक एकके अभ्यास सिद्ध होनेसे साधक सिद्ध होजायगा ॥ ११२ ॥

इति श्रीशिवसंहितायां हरगोरीसंवादे मुद्राकथनं
नाम चतुर्थपटलः समाप्तः ॥ ४ ॥

अथ पञ्चमः पटलः ।

मूलम्—श्रीदेव्युवाच ॥ ब्रह्मि मे वाक्यमी-
शान परमार्थधियं प्रति ॥ ये विद्वाः सन्ति
लोकानां वद मे प्रिय शङ्कर ॥ १ ॥

टीका—श्रीपार्वतीजी कहती है कि, हे ईश्वर! हे प्रिय शङ्कर! योगभ्यासी लोगोंके प्रति जो विद्व संसारमें हैं सो भक्तोंपर कृपा करके हमको कहो ॥ १ ॥

मूलम्—ईश्वर उवाच ॥ शृणु देवि प्रवक्ष्या
मि यथा विद्वाः स्थिताः सदा ॥ मुक्तिं प्र-
ति नराणां भोगः परमबन्धनः ॥ २ ॥

टीका—श्रीईश्वर कहते हैं कि, हे देवी! योगसाधनमें जो विद्व हैं सो हम कहते हैं सुनो मनुष्योंके मुक्तिके प्रति भोग परमबन्धन है ॥ २ ॥

अथ भोगरूपयोगविद्विद्याकथनम् ॥
मूलम्—नारी शय्यासनं वस्त्रं धनमस्यं विड-

म्बनम् ॥ ताम्बूलभक्षयानानि राज्यैश्वर्य-
विभूतयः ॥ ३ ॥ हैमं रौप्यं तथा ताम्रं रत्न-
श्चागुरुधेनवः ॥ पाण्डित्यं वेदशास्त्राणि नृ-
त्यं गीतं विभूषणम् ॥ ४ ॥ वंशी वीणा मृद-
ङ्गाश्च गजेऽद्रश्चाश्ववाहनम् ॥ दारापत्यानि
विषया विन्ना एते प्रकीर्तिः ॥ भोगरूपा
इमे विन्ना धर्मरूपानिमाञ्छृणु ॥ ५ ॥

टीका—नारीसंसर्ग शय्या उत्तमआसन वस्त्र धन
यह सब मोक्षके प्रयि विडम्बना हैं ताम्बूलसेवन स्थ
शिविका आदि सवारी राजेश्वर्य भोग स्वर्ण रजत
ताम्र अनेकप्रकारके रत्न गोधन आदिका संग्रह पा-
ण्डित्य करना वेदशास्त्रमें तर्क करना नृत्य गीत भूषण
वंशी वीणा मृदङ्गादिक वाय वजाना गज अश्व आदि
वाहन स्त्री पुत्र केवल गुरुकी सेवा छोडके हे पार्वती
यह जो कहा है सो भोगरूप विन्न है अब धर्मरूप विन्न
कहते हैं श्रवण करो ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥

अथ धर्मरूपयोगविन्नकथनम् ।

मूलम्—स्नानं पूजाविधिर्दीर्घं तथा मोक्ष-
मयी स्थितिः ॥ व्रतोपवासनियममौ-

(१२६) शिवसंहिता भाषादीकासमेता ।

नमिन्द्रियनिग्रहः ॥६॥ ध्येयो ध्यानं तथा
मन्त्रो दानं ख्यातिर्दिशासुच ॥ वापीकूप-
तडागादिप्रासादारामकल्पना ॥७॥ यज्ञं
चान्द्रायणं कृच्छ्रं तीर्थानि विविधानिच ॥
दृश्यन्ते च इमे विद्मा धर्मरूपेण सं-
स्थिताः ॥ ८ ॥

टीका—स्नानविधि पूजा होम और सुखपूर्वक स्थिति
ब्रत उपवास नियम मौन इन्द्रियनिग्रह ध्येय किसीका
ध्यान करना मन्त्र जप दान सर्वत्र प्रसिद्धहोना वावडी
कूप तालाव मंदिर बगीचाआदिक बनवाना यज्ञ
करना पापक्षयके हेतु चांद्रायण कृच्छ्र ब्रत करना तीर्थों
में भ्रमण करना यह सब धर्मरूप विद्म हैं ॥६॥७॥८॥

अथ ज्ञानरूपविद्मकथनम् ।

मूलम्—यत्तु विद्मंभवेज्जानं कथयामि वरा-
नने ॥ ९ ॥ गोमुखं स्वासनं कृत्वा धौति-
प्रक्षालनं च तद् ॥ नाडीसञ्चारविज्ञानं
प्रत्याहारनिरोधनम् ॥ १० ॥ कुक्षिसंचालनं
क्षिप्रं प्रवेश इन्द्रियाध्वना ॥ नाडीकर्मा-
णि कल्याणि भोजनं श्रूयतांमम ॥ ११ ॥
टीका—हे देवी ! हे वरानने ! अब ज्ञानरूप विद्म कहते हैं

सुनो—अन्तःशुद्धिके अर्थ गोमुखके सदृश वस्त्र भक्षण करके तब धौति प्रक्षालन करना अर्थात् धौतियोग करना नाडीचालनका ज्ञान वायुका प्रत्याहार निरोध करना कुण्डलिनीके बोधार्थ उदरको भ्रमावना इन्द्रिय-द्वारा शीघ्र प्रवेश नाडीकर्म अर्थात् नाडीशुद्धिके हेतु आहारीय विचार यह सब ज्ञानरूप विप्र हैं हडेवी कल्याणी ! नाडीशुद्धिके अर्थ जो भोजनविधि है सो हम कहतेहैं सुनो ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥

**मूलम्—नवधातुरसं छिन्धि शुणिठकास्ता-
डयेत्पुनः ॥ एककालं समाधिः स्याल्लिं-
गभूतमिदं शृणु ॥ १२ ॥**

टीका—नवीन रससहित भोजन वस्तु और शुणी-चूर्ण भोजनकरे इससे शीघ्र समाधि होजायगी. हडेवी ! अब उसका चिह्न कहतेहैं सुनो ॥ १२ ॥

**मूलम्—सङ्घमं गच्छ साधूनां सङ्कोचं भज
दुर्जनात् ॥ प्रवेशनिर्गमे वायोर्गुरुलक्षं
विलोकयेत् ॥ १३ ॥**

टीका—साधुके सङ्घकी अभिलाषा और दुर्जनसे अलग रहनेका विचार रखना और वायुके प्रवेश निर्गममें और वायुके निरोध समय मात्रासे गुरुलघुके विचारार्थ संख्या करना ॥ १३ ॥

(१२८) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

मूलम्—पिण्डस्थं रूपसंस्थञ्च रूपस्थं रूप-
वर्जितम् ॥ ब्रह्मैतस्मिन्मतावस्था हृदयञ्च
प्रशाम्यति ॥ इत्येते कथिता विद्वा ज्ञान-
रूपे व्यवस्थिताः ॥ १४ ॥

टीका—शरीरस्थरूपका विचार रखना और रूप कु-
रूपका निर्णय करना और यह जगत् ब्रह्म है ऐसे वि-
चारसे हृदयमें स्थिरता रखना. हेपार्वती ! यह जो कहा
है सो सब ज्ञानरूप विद्वा हैं ॥ १४ ॥

अथ चतुर्विधयोगकथनम् ।

मूलम्—मन्त्रयोगोहठश्चैवलययोगस्तृतीय-
कः ॥ चतुर्थो राजयोगः स्यात्स द्विधा
भाववर्जितः ॥ १५ ॥

टीका—योग चार प्रकारका है—मन्त्रयोग, हठयोग,
और तीसरा लययोग और चौथा राजयोग है. यह राज-
योग द्वैतभावसे रहित है अर्थात् राजयोग सिद्धहो
जानेसे जीव ईश्वरमें लयहोजाता है और कुछ बोध नहीं
होता ॥ १५ ॥

मूलम्—चतुर्धा साधको ज्ञेयो मृदुमध्याधि-
मात्रकाः ॥ अधिमात्रतमः श्रेष्ठो भवा-
ध्यौ लंघनक्षमः ॥ १६ ॥

टीका—यह योगचतुष्टके साधकभी चार प्रकारके होते हैं अर्थात् मृदु मध्यम अधिमात्र और आधिमात्रतम् यह अधिमात्रतम् साधक सर्वमें श्रेष्ठ है एही साधक संसाररूपी समुद्रके पार होनेमें समर्थ होता है॥ १६॥

अथ मृदुसाधकलक्षणम् ।

मूलम्—मन्दोत्साही सुसंमृढो व्याधिस्थो गुरुदूषकः ॥ लोभी पापमतिश्वैव बह्वाशी वनिताश्रयः ॥ १७ ॥ चपलः कातरो रोगी पराधीनोऽतिनिष्टुरः ॥ मन्दाचारो मन्दवीर्यो ज्ञातव्यो मृदुमानवः ॥ १८ ॥ द्वादशाब्दे भवेत्सद्विरेतस्य यत्नतः परम् ॥ मन्त्रयोगाधिकारी स ज्ञातव्यो गुरुणा ध्रुवम् ॥ १९ ॥

टीका—अब मृदुसाधकलक्षण कहते हैं मन्द उत्साही मृढचित्त व्याधिश्रसित गुरुनिन्दक लोभी जिसकी सर्वदा पापबुद्धि रहै बहुत भोजन करनेवाला स्त्रीके वशमें हो चञ्चल हो कातर हो रोगी हो पराधीन हो कठोर बोलनेवाला हो जिसके मन्द कर्म हैं मंदवीर्यवाला हो ऐसे पुरुषको मृदु मानव कहते हैं यह मन्त्रयोगका अधिकारी है यत्करनेसे और गुरुकी कृपासे इसकोभी

(१३०) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

बारह वर्षमें सिद्धि प्राप्त होगी ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥
मूलम्—समबुद्धिः क्षमायुक्तः पुण्यकांक्षी
प्रियँव्वदः॥ मध्यस्थः सर्वकार्येषु सामा-
न्यः स्यान्न संशयः ॥ २० ॥ एतज्ज्ञात्वैव
गुरुभिर्दीयते मुक्तितो लयः ॥ २१ ॥

टीका—अब मध्यसाधकलक्षण कहते हैं—सामान्य
बुद्धि हो क्षमावानहो पुण्यकर्म करनेमें इच्छा रखताहो
प्रिय बोलताहो सर्वकार्यमें मध्यस्थ रहताहो अर्थात् न
हर्ष न विषाद् इसको मध्यसाधक कहते हैं यह निश्च-
य है गुरु इसको विचारके मुक्तिमार्ग जो लययोग है
उसका उपदेश करे ॥ २० ॥ २१ ॥

अथ अधिमात्रसाधकलक्षणम् ।

मूलम्—स्थिरबुद्धिर्लये युक्तः स्वाधीनो वी-
र्यवानपि ॥ महाशयो दयायुक्तः क्षमावा-
न् सत्यवानपि ॥ २२ ॥ शूरो वयःस्थः श्र-
द्धावान् गुरुपादाब्जपूजकः ॥ योगाभ्या-
सरतश्चैव ज्ञातव्यश्चाधिमात्रकः ॥ २३ ॥
एतस्य सिद्धिः पद्मवर्षेभवेदभ्यासयोग-
तः ॥ एतस्मै दीयते धीरो हठयोगश्च
साङ्कृतः ॥ २४ ॥

टीका—अब अधिमात्र साधक लक्षण कहते हैं स्थिर

बुद्धि हो लययोगमें समर्थ हो स्वतन्त्र हो अर्थात् किसीके आधीन न हो वीर्यवान् हो महाशय हो दयावान् हो क्षमा-वान् हो सत्यवादी हो शूर हो समाधियोगमें श्रद्धा हो गुरुपादपञ्चपूजक हो योगाभ्यासरत हो ऐसे गुणवाले पुरुषको अधिमात्र कहते हैं योगाभ्याससे ऐसे पुरुष-को छःवर्षमें सिद्धि प्राप्त होगी। गुरुको उचित है कि, ऐसे धीर पुरुषको अङ्गसहित हठयोगका उपदेश करे ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥

अथ अधिमात्रतमसाधकलक्षणम् ।
 मूलम्—महावीर्यान्वितोत्साही मनोज्ञः शौ-
 र्यवानपि॥ शास्त्रज्ञोऽभ्यासशीलश्च निर्मो-
 हश्च निराकुलः ॥ २५ ॥ नवयौवनसम्पन्नो
 मिताहारी जितेद्वियः ॥ निर्भयश्च शुचि-
 दक्षो दाता सर्वजनाश्रयः ॥ २६ ॥ अधि-
 कारी स्थिरो धीमान् यथेच्छावस्थितः
 क्षमी॥ सुशीलो धर्मचारी च गुपत्तेष्टः प्रि-
 युँवदः ॥ २७ ॥ शास्त्रविश्वाससम्पन्नो
 देवतागुरुपूजकः ॥ जनसंगविरक्तश्च म-
 हाव्याधिविवर्जितः ॥ २८ ॥ अधिमात्र-
 तमोज्ञेयः सर्वयोगस्य साधकः ॥ त्रिभिः

(१३२) शिवसंहिता भाषार्टकासमेता ।

सँवृत्सरैः सिद्धिरेतस्य नात्र संशयः ॥
सर्वयोगाधिकारी स नात्र कार्या विचा-
रणा ॥ २९ ॥

टीका—महावीर्यवान् उत्साहयुक्त स्वरूपवान् शूर-
तासम्पन्न शास्त्रज्ञ अभ्यासशील अर्थात् श्रुतिधर मो-
हसे हीन आकुलतारहित अर्थात् सावधान नवीन
यौवनसम्पन्न अर्थात् तरुण प्रमाणभोजी जितेन्द्रिय
निर्भय पवित्रआचार सर्वकर्ममें निषुण दानशील
शरणागतपालक स्थिरचित्त बुद्धिमान् सन्तोषयुक्त
क्षमावान् शीलवान् धार्मिक कर्मांकों गोप्य रखनेवाला
प्रियसत्यवादी शास्त्रमें विश्वास देवता और गुरुपूजक
जनसङ्गरहित महाव्याधिरहित ऐसे गुण जिसमें हो
वह अधिमात्रतम है और सर्व योगका साधक है इसको
तीनवर्षमें सिद्धि प्राप्त होगी इसमें संशय नहीं है. यह
सर्वयोगका अधिकारी है ऐसे पुरुषको गुरु समस्त
योगका उपदेश करदें इसमें विचारका कुछ प्रयोजन
नहीं है ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥

अथ प्रतीकोपासनम् ।

मूलम्—प्रतीकोपासना कार्या दृष्टादृष्टफल-
प्रदा ॥ पुनाति दर्शनादत्र नात्र कार्या
विचारणा ॥ ३० ॥

टीका—अब प्रतीकउपासना कहते हैं प्रतीकउपासना से हष्टाहष्टफल लाभ होता है और उसके दर्शन से मनुष्य पवित्र होता है इसमें संशय नहीं है ॥ ३० ॥

मूलम्—गाढ़आतपे स्वप्रतिबिम्बितेश्वरं निरीक्ष्य विस्फारितलोचनद्रव्यम् ॥ यदा नभः पश्यति स्वप्रतीकं नभोङ्गणे तत्क्षणमेव पश्यति ॥ ३१ ॥

टीका—गाढ़आतपमें अर्थात् गहरेधूपमें स्वईश्वरका प्रतिबिम्ब नेत्रस्थिरकरके देखे जब अपने छायाका प्रतिबिम्ब शून्यमें देखपड़े तब ऊपर आकाशमें अपना प्रतिबिम्ब अवश्य देखेगा ॥ ३१ ॥

मूलम्—प्रत्यहं पश्यते यो वै स्वप्रतीकं नभोङ्गणे ॥ आयुर्वृद्धिर्भवेत्स्यन मृत्युः स्यात्कदाचन ॥ ३२ ॥

टीका—जो नित्य आकाशमें स्वप्रतीक अर्थात् अपना प्रतिबिम्ब देखेगा उसके आयुकी वृद्धि होगी और उसकी मृत्यु कभी न होगी अर्थात् चिरंजीवी हो जायगा ॥ ३२ ॥

मूलम्—यदा पश्यति सम्पूर्णं स्वप्रतीकं नभो-

(१३४) शिवसंहिता जाषाटीकासमेता ।

झणे ॥ तदा जयं सभायाच्च युद्धे निर्जित्य
सञ्चरेत् ॥ ३३ ॥

टीका—जब सम्पूर्ण अपना प्रतिविम्ब आकाशमें
देखे तब सभामें उसकी जय होय और युद्धमें शत्रुको
जीतलेगा ॥ ३३ ॥

मूलम्—यः करोति सदाभ्यासं चात्मानं
वन्दते परम् ॥ पूर्णानन्दैकपुरुषं स्वप्रती-
कप्रसादतः ॥ ३४ ॥

टीका—जो सर्वदा स्वप्रतीक उपासनाका अभ्यास
करे तो उसको आत्माकी प्राप्ति होगी और उसी स्वप्र-
तीकके प्रसादसे पूर्णानन्द स्वरूप अर्थात् आत्माका
दर्शन होगा. तात्पर्य यह है कि, जब हृदयाकाशमें
अपने स्वरूपका अनुभव होगा तब आत्माकी परम
ज्योतिका प्रकाश होगा ॥ ३४ ॥

मूलम्—यात्राकाले विवाहे च शुभे कर्मणि
सङ्कटे ॥ पापक्षये पुण्यवृद्धौ प्रतीकोपा-
सनञ्चरेत् ॥ ३५ ॥

टीका—यात्राकालमें और विवाहके समयमें और
शुभकर्ममें और पापक्षयमें और पुण्यवृद्धिके अर्थ स्वप्र-
तीक अर्थात् अपने प्रतिविम्बका दर्शन करे तो सर्वदा
कल्याण होगा ॥ ३५ ॥

**मूलम्-निरन्तरकृताभ्यासादन्तरे पश्यति
ध्रुवम् ॥ तदा मुक्तिमवाप्नोति योगी नि-
यतमानसः ॥ ३६ ॥**

टीका—सर्वदा प्रतीकोपासनाके अभ्यास करनेसे निश्चय हृदयाकाशमें अपना प्रतिविव भान होगा तब निश्चयआत्मा योगीको मुक्ति प्राप्त होगी ॥ ३६ ॥

**मूलम्-अंगुष्ठाभ्यासुभे श्रोत्रे तर्जनीभ्यां
द्विलोचने ॥ नासारन्धे च मध्याभ्याम-
नामाभ्यां मुखं दृढम् ॥ ३७ ॥ निरुद्ध्य
मारुतं योगी यदैव कुरुते भृशम् ॥ तदा
तत्क्षणमात्मानं ज्योतीरूपं स पश्यति ॥ ३८**

टीका—दोनों अंगुष्ठसे दोनों कर्ण बंद करे और दो-
नों तर्जनीसे दोनों नेत्रोंको बंद करे और दोनों मध्य-
मा अंगुलीसे दोनों नासारन्धको बंद करे और दोनों
अनामिका अंगुली और कनिष्ठासे मुखको बंद करे
यदि इसप्रकार योगी वायुको निरोध करके इसका
वासंवार अभ्यास करे तो आत्मा ज्योतिस्वरूपका
हृदयाकाशमें भान होगा ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

**मूलम्-तत्तेजो दृश्यते येन क्षणमात्रं निरा-
कुलम् ॥ सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति
परमां गतिम् ॥ ३९ ॥**

(१३६) शिवसंहिता भाषाधीकासमेता ।

टीका—आत्माका यह परमतेज जो पुरुष स्थिर-
चित्त होके क्षणमात्रभी देखेगा वह सर्वपापसे मुक्त होके
परमगतिको प्राप्तहोगा ॥ ३९ ॥

मूलम्—निरन्तरकृताभ्यासाद्योगीविगतक-
ल्मपः ॥ सर्वदेहादि विस्मृत्य तदभिन्नः
स्वयं गतः ॥ ४० ॥

टीका—निरंतर जो योगी शुद्धचित्त होके यह प्र-
तीकोपासनाका अभ्यास करेगा वह सर्व देहादिक-
र्मसे रहित होके आत्मासे अभिन्न होजायगा अर्थात्
आत्मास्वरूप होजायगा ॥ ४० ॥

मूलम्—यः करोति सदाभ्यासं गुप्ताचारेण
मानवः ॥ स वै ब्रह्मविलीनः स्यात्पापकर्म-
रतो यदि ॥ ४१ ॥

टीका—जो मनुष्य गुप्ताचारसे इसका सर्वदा अभ्या-
स करताहै सो यदि पापकर्मरतभी हो तथापि उसका
मोक्ष होगा ॥ ४१ ॥

मूलम्—गोपनीयः प्रयत्नेन सद्यः प्रत्यय-
कारकः ॥ निर्वाणदायको लोके योगोयं
मम वल्लभः ॥ नादः संजायते तस्य क्रमे-
णाभ्यासतश्च यः ॥ ४२ ॥

टीका—जो इसका अभ्यास करेगा उसको क्रमसे नाद उत्पन्न होगा। हेदेवी ! यह प्रतीकोपासना निर्वाण योगका दाता है इसहेतुसे हमको अतिप्रिय है यह शीघ्र फलदाता है इसको यत्नसे गोप्य रखना उचित है ॥ ४२ ॥

मूलम्—मत्तभृङ्गेणुवीणासदृशः प्रथमोध्वनिः ॥ ४३ ॥ एवमभ्यासतः पश्चात् संसारध्वान्तनाशनम् ॥ घटानादसमः पश्चात् ध्वनिमेंघरवोपमः ॥ ४४ ॥ ध्वनौ तस्मिन्मनो दत्त्वा यदा तिष्ठति निर्भरः ॥ तदा संजायते तस्य लयस्य मम वल्लभे ॥ ४५ ॥

टीका—योगअभ्यासद्वारा प्रथम मत्त ब्रमरकी नाईं शब्द और वेणु और वीणाके समान शब्द उत्पन्न होगा इसी तरह संसारतम नाशक योगअभ्याससे फिर घटानाद समान शब्द होगा। फिर मेघ गर्जनके समान ध्वनि होगी। हे प्रिये पार्वती ! उस ध्वनिमें यदि मन निश्चल स्थित हो जाय तब मोक्षका दाता लय उत्पन्न होगा ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥

मूलम्—तत्र नादे यदा चित्तं रमते योगिनो भृशम् ॥ विस्मृत्य सकलं बाह्यं नादेन सह शाम्यति ॥ ४६ ॥

(१३८) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

टीका—जब योगीका चित्त उस नादमें निरंतर रमणकरेगा तब सकल विषयसे स्मरणरहित होके चित्त समाधिमें लय होजायगा ॥ ४६ ॥

मूलम्—एतदभ्यासयोगेन जित्वा सम्यग्गुणान्वहून् ॥ सर्वारम्भपरित्यागी चिदाकाशे विलीयते ॥ ४७ ॥

टीका—इसीप्रकार योगअभ्यासद्वारा सर्व गुणोंको जीतके और सब कार्योंके आरंभको त्यागके योगी आनन्दपूर्वक चैतन्यस्वरूप हृदयाकाशमें लय होजायगा ॥ ४७ ॥

मूलम्—नासनं सिद्धसदृशं न कुम्भसदृशं बलम् ॥ न खेचरीसमा मुद्रा न नादसदृशो लयः ॥ ४८ ॥

टीका—हेदेवी ! सिद्धासनके समान कोई और आसन नहीं है और न कुम्भकके समान कोई बल है और न खेचरीके समान कोई मुद्रा है और न नादके समान कोई दूसरा लय है ॥ ४८ ॥

अथ मूलाधारपद्मविवरणम् ।

मूलम्—इदानीं कथयिष्यामि मुक्तस्यानुभवं

प्रिये ॥ यज्ञात्वा लभते मुक्तिं पापयुक्तो-
पि साधकः ॥ ४९ ॥

टीका—हेप्रिये पार्वती ! अब मुक्तिका अनुभव तुमसे
कहतेहैं जिसके ज्ञानसे पापयुक्त साधकभी मुक्तिलाभ
करता है ॥ ४९ ॥

मूलम्—समभ्यच्येश्वरं सम्यककृत्वा च
योगमुत्तमम् ॥ गृह्णीयात्सुस्थितो भूत्वा
गुरुं सन्तोष्य बुद्धिमान् ॥ ५० ॥

टीका—योगाकांक्षी साधक सम्यकप्रकारसे ईश्वरकी
पूजा करके स्वस्थचित्तसे योगासनपर वैठके बुद्धिमान्
गुरुको सर्वप्रकारसे प्रसन्न करके यह उत्तम योग ग्रह-
णकरे ॥ ५० ॥

मूलम्—जीवादि सकलं वस्तु दत्त्वा योग-
विदं गुरुम् ॥ सन्तोष्यादिप्रयत्नेन योगोयं
गृह्यते बुधैः ॥ ५१ ॥

टीका—बुद्धिमान् साधक जीवादि सकल पदार्थ
योगविद् गुरुके अर्पण करके उनके प्रसन्नतापूर्वक
यत्न करके यह योग ग्रहण करते हैं ॥ ५१ ॥

मूलम्—विप्रान्सन्तोष्य मेधावी नानामं-
गलसंयुतः ॥ ममालये शुचिभूत्वा गृह्णी-
याच्छुभमात्मनः ॥ ५२ ॥

(१४०) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

टीका—योग्यत्रहणके समय बुद्धिमान् साधक ब्राह्मणको सन्तोष करके अर्थात् द्रव्यादिक प्रदानपूर्वक प्रसन्न करके अनेक आशीर्वाद श्रवण करके पवित्रता से शिवमंदिरमें बैठके आत्माके अर्थ जो यह शुभयोग है इसको ग्रहणकरे ॥ ५२ ॥

मूलम्—संन्यस्यानेन विधिना प्रात्कनं
विग्रहादिकम् ॥ भूत्वा दिव्यवपुर्योगा
गृह्णीयाद्वक्ष्यमाणकम् ॥ ५३ ॥

टीका—साधक इस विधानसे पूर्व शरीर गुरुको कृ. पासे त्यागके दिव्य शरीर होके जा आगे कहैंगे वह योग ग्रहण करे. तात्पर्य यह है कि, योग्यत्रहणके समयसे साधकका शरीर दिव्य होजाता है व्याधि और अज्ञानका शरीर नहीं रहजाता इस हेतुसे योग्यत्रहणके समय साधक यह चिंतनकरे कि, पूर्व शरीरको हमने त्यागके दिव्यशरीर धारण किया ॥ ५३ ॥

मूलम्—पद्मासनस्थितो योगी जनसंगविव-
र्जितः ॥ विज्ञाननाडीद्वितयमङ्गुलीभ्यां
निरोधयेत् ॥ ५४ ॥

टीका—योगी संगरहित पद्मासनमें स्थित होके दोनों विज्ञाननाडी अर्थात् इडा और पिंगलाको दो अंगुलीसे निरोध करे ॥ ५४ ॥

मूलम्—सिद्धेस्तदाविर्भवति सुखरूपीनिर-
अनः ॥ तस्मिन्परिश्रमः कार्यो येन सि-
द्धो भवेत्खलु ॥ ५५ ॥

टीका—यह योग सिद्ध होनेसे साधकके हृदयमें
सुखरूपी निरंजन परब्रह्म चैतन्यस्वरूपका प्रकाशहोगा
इस हेतुसे यह योगमें साधकको परिश्रम कर्तव्य है,
इससे निश्चय यह योग सिद्ध होजायगा ॥ ५५ ॥

मूलम्—यः करोति सदाभ्यासं तस्य सिद्धि-
नं दूरतः ॥ वायुसिद्धिर्भवेत्स्य क्रमादेव
न संशयः ॥ ५६ ॥

टीका—जो मनुष्य इस योगका सर्वदा अभ्यास करे-
गा उसको सर्वसिद्धि प्राप्त होगी और निश्चय आपही
क्रमसे वायु सिद्ध होजायगा ॥ ५६ ॥

मूलम्—सकृद्यः कुरुते योगी पापौधं नाशये-
द्धुवम् ॥ तस्य स्यान्मध्यमे वायोः प्रवेशो
नात्र संशयः ॥ ५७ ॥

टीका—जो योगी प्रतिदिन एकवार यह अभ्यास
करे तो उसके सर्व पापोंका नाश होजायगा और उसका
प्राणवायु निश्चय सुषुम्णामें प्रवेश करेगा ॥ ५७ ॥

मूलम्—एतदभ्यासशीलो यः स योगी देव-

(१४२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

पूजितः ॥ अणिमादिगुणाँल्लब्धवा विचरे-
द्गुवनत्रये ॥ ५८ ॥

टीका—यह अभ्यासशील योगी देवतोंसे पूजित है
और अणिमादिक सिद्धि लाभ करके तीनों लोकमें
इच्छापूर्वक विचरेगा ॥ ५८ ॥

मूलम्—यो यथास्यानिलाभ्यासात्तद्वेत्त-
स्य विग्रहः ॥ तिष्ठेदात्मनि मेधावी संयुतः
क्रीडते भृशम् ॥ ५९ ॥

टीका—जिस प्रकार वायुका अभ्यास करेगा उसी
तरह साधकका शरीर सिद्ध हो जायगा और बुद्धिमान
पुरुष आत्मामें स्थितहोके सर्वदा क्रीडा करेगा ॥ ५९ ॥

मूलम्—एतद्योगं परं गोप्यं न देयं यस्य
कस्यचित् ॥ यःप्रमाणैः समायुक्तस्तमेव
कथ्यते ध्रुवम् ॥ ६० ॥

टीका—यह योग परमगोपनीयहै अनधिकारीको
कदापि देनेके योग्य नहीं है परन्तु प्रमाणयुक्त अर्थात्
पूर्वोक्त लक्षणयुक्त साधकको अवश्य देना उचितहै ॥ ६० ॥

मूलम्—योगी पद्मासने तिष्ठेत्कण्ठकूपे य-
दा स्मरन् ॥ जिह्वां कृत्वा तालुमूले क्षुत्पि-
पासा निवर्तते ॥ ६१ ॥

टीका—पद्मासनस्थित योगी जब कण्ठकूपका स्मरण अर्थात् उस स्थानमें मनको लय करके जिह्वा-को तालुमूलमें स्थित करेगा तब क्षुधा और पिपासा-से रहित हो जायगा ॥ ६१ ॥

मूलम्—कण्ठकूपादधः स्थाने कूर्मनाडय-स्थित शोभना ॥ तस्मिन् योगी मनो दत्त्वा चित्तस्थैर्यं लभेद्दृशम् ॥ ६२ ॥

टीका—कण्ठकूपके नीचे कूर्मनाडी शोभित है उस नाडीमें योगी मनको स्थिर करके अत्यंत चित्तकी स्थिरता पावेगा ॥ ६२ ॥

मूलम्—शिरःकपाले रुद्राक्षं विवरं चिन्तये-द्यदा ॥ तदा ज्योतिःप्रकाशः स्याद्विद्युत्पु-ञ्जसमप्रभः ॥ ६३ ॥ एतच्चिन्तनमात्रेण पा-पानां संक्षयो भवेत् ॥ दुराचारोऽपि पुरुषो लभते परमं पदम् ॥ ६४ ॥

टीका—शिर कपालमें जो रुद्राक्ष विवर है उसमें यदि चिंतना करे तो विद्युत्पुञ्जके समान आत्मज्यो-तिका प्रकाश होगा और इसके चिन्तनमात्रसे योगीका सर्व पाप नष्ट होजायगा. यदि दुराचारमेंभी जो पुरुष आसक्त है वहभी परमगतिको प्राप्त होगा ॥ ६३ ॥ ६४ ॥

(१४४) शिवसंहिता जाषाटीकासमेता ।

मूलम्-अहर्निशं यदा चिन्तां तत्करोति वि-
चक्षणः ॥ सिद्धानां दर्शनं तस्य भाषणश्च
भवेद्गुवम् ॥ ६५ ॥

टीका--जो बुद्धिमान् साधक रात्रि दिवस यह चि-
न्तवन करते हैं उनको सिद्धलोगोंका अवश्य दर्शन
और उनसे भाषण होता है ॥ ६५ ॥

मूलम्-तिष्ठन् गच्छन् स्वपन् भुञ्जन् ध्या-
येच्छून्यमहर्निशम् ॥ तदाकाशमयो यो-
गी चिदाकाशे विलीयते ॥ ६६ ॥

टीका--जो पुरुष चलते बैठते सोते भोजन करते रा-
त्रिदिवस यह ध्यान करते हैं सो आकाशस्वरूप योगी
चिदाकाश अर्थात् परमात्मामें लय होजाते हैं ॥ ६६ ॥

मूलम्-एतज्ञानं सदा कार्यं योगिना सि-
द्धिमिच्छता ॥ निरन्तरकृताभ्यासान्मम
तुल्यो भवेद्गुवम् ॥ एतज्ञानबलाद्योगी
सर्वेषां वल्लभो भवेत् ॥ ६७ ॥

टीका-सिद्धिकांक्षी योगीको इस ध्यानका सर्वदा
अभ्यास करना उचित है सर्वदा अभ्यास करनेसे हेपा-
र्वती ! हमारे तुल्य होजायगा निश्चय इस ज्ञानबलसे योगी
सबको अर्थात् त्रैलोक्यको प्रिय होजाता है ॥ ६७ ॥

मूलम्—सर्वान् भूतान् जयं कृत्वा निराशी-
रपरिग्रहः ॥ ६८ ॥ नासाग्रे दृश्यते येन
पद्मासनगतेन वै ॥ मनसो मरणं तस्य
खेचरत्वं प्रसिद्ध्यति ॥ ६९ ॥

टीका—योगी सर्वे भूतोंको जय करके और क्षुधा
और इच्छाको जीतके पद्मासनसे स्थितहोके जो ना-
साग्रमें देखता है उसका मन स्थिर होजाता है तब खे-
चरत्व सिद्धहोता है ॥ ६८ ॥ ६९ ॥

मूलम्—ज्योतिः पश्यति योगीन्द्रः शुद्धं
शुद्धाचलोपमम् ॥ तत्राभ्यासवलेनैव
स्वयं तद्रक्षको भवेत् ॥ ७० ॥

टीका—शुद्ध अचलके समान परमज्योति योगी दे-
खता है तब अभ्यासवलसे आपही उसका रक्षक होता है
अर्थात् ज्योतिर्मय होता है ॥ ७० ॥

मूलम्—उत्तानशयने भूमौ सुस्त्वा ध्यायन्नि-
रन्तरम् ॥ सद्यः श्रमविनाशाय स्वयं योगी
विचक्षणः ॥ ७१ ॥ शिरः पश्चात्तु भागस्य
ध्याने मृत्युञ्जयो भवेत् ॥ भ्रूमध्ये दृष्टि-
मात्रेण ह्यपरः परिकीर्तिः ॥ ७२ ॥

(१४६) शिवसंहिता भाषादीकासमेता ।

टीका—बुद्धिमान् योगी भूमिमें उत्तानशयन करके निरन्तर ध्यान करे तो तत्काल आपही श्रमका नाश होजायगा और शिरके पृष्ठभागका ध्यान करनेसे योगी मृत्युका जीतनेवाला होजायगा और भ्रूके मध्यमें जो दृष्टिमात्रसे फल होताहै सो हेदेवि ! हम पहले कह-
चुके हैं ॥ ७१ ॥ ७२ ॥

मूलम्—चतुर्विंधस्य चान्नस्य रसस्त्रेधा वि-
भज्यते ॥ तत्र सारतमो लिंगदेहस्य परि-
पोषकः ॥ ७३ ॥ सप्तधातुमयं पिण्डमे-
ति पुष्णाति मध्यगः ॥ याति विण्मूत्र-
रूपेण तृतीयः सप्ततो वहिः ॥ ७४ ॥ आ-
द्यभागद्वयं नाञ्चः प्रोक्तास्ताः सकला
अपि ॥ पोषयन्ति वपुर्वायुमापादतल-
मस्तकम् ॥ ७५ ॥

टीका—चार विधि अन्नभोजन करनेसे तीनप्रकार-
का रस उत्पन्नहोताहै उसमें जो प्रथम सारभूत रस है वह लिङ्गशरीरको पोषण करता है और जो दूसरा रस है वह सप्तधातुमय पिण्डको पोषण करताहै और तीसरा रस सप्तधातुके बाहर मल मूत्ररूप है पहिले जो दोभाग रस कहाहै वही सकल नाडीरूप है और

पादसे लेकर मस्तकपर्यंत शरीरके वायुका पोषणकरते हैं ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥

मूलम्—नाडीभिराभिः सर्वाभिर्वायुः सञ्चरते यदा ॥ तदैवान्नरसो देहे साम्येनैह प्रवर्तते ॥ ७६ ॥

टीका—जब सब नाडीके साथ वायु चलता है तब अन्नका इस शरीरमें सम्भावसे प्रवृत्त होता है ॥ ७६ ॥
मूलम्—चतुर्दशानां तत्रेह व्यापारे मुख्यभागतः ॥ ता अनुग्रत्वहीनाश्च प्राणस-आरनाडिकाः ॥ ७७ ॥

टीका—सर्व नाडियोंमें पूर्वोक्त चौदह नाडी शरीरके मुख्य व्यापारको करती हैं यह प्राण सञ्चार करनेवाली चौदह नाडीमें परस्पर कोई किसीसे न्यून अधिक नहीं है ॥ ७७ ॥

मूलम्—गुदाद्वयंगुलतश्चोर्ध्वं मेदैकांगुलतस्त्वधः ॥ एवञ्चास्ति समं कन्दं समता चतुरंगुलम् ॥ ७८ ॥

टीका—गुदासे दो अङ्गुल छपर और मेह अर्थात् लिङ्गमूलसे एक अंगुल नीचे चार अंगुल विस्तारकन्दका प्रमाण है ॥ ७८ ॥

(१४८) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

मूलम्—पश्चिमाभिमुखी योनिर्गुदमेद्रान्त-
रालगा ॥ तत्र कन्दं समाख्यातं तत्रास्ति
कुण्डली सदा ॥ ७९ ॥ संवेष्टय सकला
नाडीः सार्वत्रिकुटिलाकृतिः ॥ मुखे निवे-
श्य सा पुच्छं सुषुम्णाविवरे स्थिता ॥ ८० ॥

टीका—गुदा और मेढ़के मध्यमें जो योनि है वह
पश्चिमाभिमुखी अर्थात् पीछेको मुख है उसी स्थानमें
कन्दहै और उसी स्थानमें सर्वदा कुण्डलनीकी स्थिति है
यह कुण्डलनी सकल नाडीको धेरके साठे तीन फेरा
कुटिल आकृतिसे अपने मुखमें पुच्छको लेके सुषुम्णा
विवरमें स्थित है ॥ ७९ ॥ ८० ॥

मूलम्—सुप्ता नागोपमा ह्येषा स्फुरन्ती
प्रभया स्वया ॥ अहिवत्सन्धिसंस्थाना
वाग्देवी बीजसंज्ञिका ॥ ८१ ॥

टीका—यह कुण्डलिनी सर्पके समान निद्रिता
अपनी प्रभासे प्रकाशमान है और सर्पके सदृश संधि-
में स्थित है और वाग्देवी है अर्थात् कुण्डलिनीहीसे
वाक्य उच्चारण होता है और बीज संज्ञक है अर्थात् सं-
सारकी बीज है ॥ ८१ ॥

मूलम्—ज्ञेया शक्तिरियं विष्णोर्निर्मला स्वर्ण

भास्वरा॥सत्त्वं रजस्तमश्चेति गुणत्रयप्रसूतिका ॥ ८२ ॥

टीका—यह कुण्डलिनी देवी ईश्वरकी शक्तिमें तत स्वर्णके समान निर्मल तेजप्रभा है और सत्त्व, रज, तम, यह तीनों गुणकी माता है ॥ ८२ ॥

मूलम्—तत्र बन्धूकपुष्पाभं कामवीजं प्रकीर्तितम् ॥ कलहेमसमं योगे प्रयुक्ताक्षरहृषिणम् ॥ ८३ ॥

टीका—जिस स्थानमें कुण्डलिनी है उसी स्थानमें बन्धूकपुष्पके समान रक्तवर्ण कामवीजकी स्थिति कहीगई है वह कामवीज ततस्वर्णके समान स्वरूप-योगयुक्तद्वारा चितनीय है ॥ ८३ ॥

मूलम्—सुषुम्णापि च संशिष्टा वीजं तत्र वरं स्थितम्॥शरञ्चंद्रनिभंतेजस्स्वयमेतत्स्फुरात्स्थितम्॥ ८४ ॥ सूर्यकोटिप्रतीकाशं च न्द्रकोटिसुशीतलम् ॥ एतत्रयं मिलित्वैव देवी त्रिपुरभैरवी ॥ वीजसंज्ञं परं तेजस्तदेव परिकीर्तितम् ॥ ८५ ॥

टीका—जिस स्थानमें कुण्डलिनी स्थित है सुषुम्णा उसी स्थानमें कामवीजके साथ स्थित है और वह वीज

(१५०) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

शरच्चन्द्रके समान प्रकाशमान तेज है और वह आप-
ही कोटि सूर्यके समान प्रकाश और कोटिचंद्रके समान
शीतल है यह तीनों मिलके अर्थात् कुण्डलिनी सुषुम्णा,
बीजकुण्डलिनीका नाम त्रिपुरभैरवी देवी है यह कुण्ड-
लिनी परमतेजमान है और उसकी बीजसंज्ञा है॥८४॥८५॥
मूलम्-क्रियाविज्ञानशक्तिभ्यां युतं यत्प-
रितो भ्रमत्॥८६॥ उत्तिष्ठद्विशतस्त्वम्भः
सूक्ष्मं शोणशिखायुतम्॥योनिस्थं तत्परं
तेजः स्वयंभूलिंगसंज्ञितम्॥ ८७ ॥

टीका—वह बीज क्रियाशक्ति और ज्ञानशक्ति से युक्त
होके शरीरमें भ्रमण करता है और कभी ऊर्ध्वगामी हो-
ता है और कभी जलमें प्रवेश करता है और सूक्ष्म प्रज्व-
लित अग्निके समान शिखायुत परमतेजबीर्यकी स्थिति
योनिस्थानमें है और स्वयम्भू लिङ्गसंज्ञा है॥८६॥८७॥
मूलम्-आधारपद्ममेतद्वि योनिर्यस्यास्ति
कन्दतः ॥ परिस्फुरद्वादिसान्तचतुर्वर्णं
चतुर्दलम् ॥ ८८ ॥

टीका—यह जो कहा है इसको आधारपद्म कहते हैं
और इस पद्मके मूलमें योनिकी स्थिति है यह पद्म परम
प्रकाशमान-व-से स-तक अर्थात् व-श-ष-स चारवर्ण
और चारदल करके शोभित है ॥ ८८ ॥

मूलम्—कुलाभिधं सुवर्णाभं स्वयम्भूलि-
ङ्गसंगतम् ॥ द्विरण्डो यत्र सिद्धोस्ति
डाकिनी यत्र देवता ॥ ८९ ॥ तत्पद्ममध्य-
गा योनिस्तत्र कुण्डलिनी स्थिता ॥ त-
स्याऽधर्वे स्फुरतेजः कामबीजं भ्रमन्मत-
म् ॥ ९० ॥ यः करोति सदा ध्यानं मूला-
धारे विचक्षणः ॥ तस्य स्यादार्दुरी सिद्धि-
भूमित्यागक्रमेण वै ॥ ९१ ॥

टीका—वह कमल कुलाभिध है अर्थात् कुलनाम है
और स्वर्णके समान कांतिहै और स्वयम्भूलिङ्गसे युक्त
है और उस पद्ममें द्विरण्डनामक सिद्ध और डाकिनी
देवता अधिष्ठात्री है और गणेश देवता है और उस
पद्मके मध्यमें योनि है उस योनिमें कुण्डलिनीकी स्थि-
तिहै और उस कुण्डलिनीके ऊपर दीपिमान् तेजस्व-
रूप कामबीज भ्रमण करताहै ज्ञो बुद्धिमान् पुरुष इस
मूलाधार पद्मका सर्वदा ध्यान करते हैं उनको दार्दुरी
वृत्ति सिद्ध होती है और क्रमसे भूमिको त्यागके आ-
काशगमन करते हैं ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१ ॥

मूलम्—वपुषः कान्तिरुत्कृष्टा जठराग्निविव-

(१५२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

र्धनम् ॥ आरोग्यञ्च पटुत्वञ्च सर्वज्ञत्वञ्च
जायते ॥ ९२ ॥

टीका—यह ध्यान करनेसे शरीरमें उत्तम कांति
होती है और जठराग्नि वर्धित होताहै और शरीर
आरोग्य रहताहै और पटुता और सर्वज्ञता अर्थात्
सर्व वस्तुका ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ ९२ ॥

मूलम्-भूतं भव्यं भविष्यच्च वेत्ति सर्वं सका-
रणम् ॥ अश्रुतान्यपि शास्त्राणि सरहस्यं
वदेहुवम् ॥ ९३ ॥

टीका—फिर भूत, भविष्य, वर्तमान तीनोंकाल और
सर्व वस्तुके कारणका ज्ञान होताहै और जो शास्त्र
कभी श्रवण नहीं कियाहै उसको रहस्यसहित व्या-
ख्या करनेकी शक्ति निश्चय उत्पन्न होती है ॥ ९३ ॥
मूलम्—वक्रे सरस्कती देवी सदा नृत्यति नि-
र्भरम् ॥ मन्त्रसिद्धिर्भवेत्स्य जपादेव न
संशयः ॥ ९४ ॥

टीका—योगिके मुखमें सर्वदा निरंतर सरस्वती दे-
वी नृत्य करती है और योगीकी जपमात्रसे मन्त्रादिकी
सिद्धि होती है इममें संशय नहीं है ॥ ९४ ॥

मूलम्—जरामरणदुःखौघान्नाशयति गुरोर्व-

चः ॥ इदं ध्यानं सदा कार्यं पवनाभ्यासि-
ना परम् ॥ ध्यानमात्रेण योगीन्द्रो मु-
च्यते सर्वकिल्बिषात् ॥ ९५ ॥

टीका—गुरुका वचन जग मृत्यु आदि जो दुःखका
समूह है उसको नाश करदेता है पवनाभ्यासी साधकको
यह परमध्यान सर्वदा करनेके योग्य है ध्यानमात्रसे
योगीन्द्र सर्वपापसे मुक्त होजाता है ॥ ९५ ॥

मूलम्—मूलपद्मं यदा ध्यायेयोगी स्वार्य-
भूलिङ्गकम् ॥ तदा तत्क्षणमात्रेण पापौ-
धं नाशयेद्द्वृवम् ॥ ९६ ॥

टीका—योगी जब मूलाधार पद्म स्वयभूलिङ्गसंयु-
क्तका ध्यानकरे तो उसीक्षण निश्चय पापके समूहका
नाश करदेगा ॥ ९६ ॥

मूलम्—यं यं कामयते चित्ते तं तं फलमवा-
प्नुयात् ॥ निरन्तरकृताभ्यासात्तं पश्यति
विमुक्तिदम् ॥ ९७ ॥ बहिरभ्यन्तरे श्रेष्ठं पू-
जनीयं प्रयत्नतः ॥ ततः श्रेष्ठतमं ह्येतन्ना-
न्यदस्ति मतं मम ॥ ९८ ॥

टीका—जो साधक मूलाधार पद्मका ध्यान करते हैं
वह अपने चित्तमें जोजो वस्तुकी इच्छा करते हैं सो सो

(१५४) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

सर्वं वस्तु उनको प्राप्त होती हैं और सर्वदा यत्नपूर्वक यह अभ्यास करनेसे बाहर भीतर श्रेष्ठ पूजनीय मुक्तिदायी परमात्माको देखते हैं हे पार्वति ! इससे श्रेष्ठतम् दूसरा योग नहीं है यह हमारा मतहै ॥ ९७ ॥ ९८ ॥
मूलम्—आत्मसंस्थं शिवं त्यक्ता बहिःस्थं
यः समर्चयेत् ॥ हस्तस्थं पिण्डमुत्सृज्य
भ्रमते जीविताशया ॥ ९९ ॥

टीका—मनुष्य शरीरस्थ शिवको त्यागके बाहरके देवताको पूजते हैं जैसे हाथके पिण्डको त्यागके जीवके रक्षार्थ अन्य पिण्डके हेतु लोग भ्रमण करते हैं ॥ ९९ ॥
मूलम्—आत्मलिंगार्चनं कुर्यादनालस्यं दि-
ने दिने ॥ तस्य स्यात्सकलासिद्धिनांत्र
कार्या विचारणा ॥ १०० ॥ निरन्तरकृता-
भ्यासात्पृष्ठमासैः सिद्धिमाप्नुयात् ॥ तस्य
वायुप्रवेशोपि सुपुम्णायाम्भवेद्द्रवम् ॥
॥ १०१ ॥ मनोजयश्च लभते वायुबिन्दु-
विधारणात् ॥ ऐहिकामुष्मिकीसिद्धिर्भ-
वेन्नैवात्र संशयः ॥ १०२ ॥

टीका—जो आलस्यको त्यागके शरीरस्थ परमात्माका नित्य पूजन करेगा उसको सकलसिद्धि प्राप्त-

होगी इसमें संशय नहीं है यदि इसका अभ्यास निरन्तर करे तो छःमात्रमें सिद्धि प्राप्त होगी और उसके सुषुम्णानाडीमें निश्चय वायु प्रवेश करेगा और मनको जीत लेगा और वायु बिन्दुका धारण सिद्ध होगा और इसलोक और परलोकी सिद्धि प्राप्त होगी इसमें संशय नहीं है ॥ १०० ॥ १०१ ॥ १०२ ॥

अथ स्वाधिष्ठानचक्रविवरणम् ।

मूलम्—द्वितीयन्तु सरोजञ्च लिङ्मूले व्यवस्थितम् ॥ वा दिलान्तं च पद्मवर्णं परिभास्वरपद्मलम् ॥ १०३ ॥ स्वाधिष्ठानाभिधंतत्तु पंकजं शोणस्तपकम् ॥ वाणाख्यो यत्रास्त्रोऽस्ति देवी यत्रास्ति राकिणी १०४

टीका—दूसरा पद्म जो लिङ्गमूलमें स्थित है वह- व से लतक- अर्थात्-व-भ-म-य-र-ल-यह-छः वर्णों करके युक्त है और छः दल से जो भित है यह रक्तवर्णपद्मका नाम स्वाधिष्ठान है और इस स्थानमें वाणनामक सिद्ध और राकिणी देवी अधिष्ठात्री है और ब्रह्मा देवता हैं ॥ १०३ ॥ १०४ ॥
मूलम्—यो ध्यायति सदा दिव्यं स्वाधिष्ठानारविन्दकम् ॥ तस्य कामाङ्गनाः सर्वा भजन्ते काममोहिताः ॥ १०५ ॥

(१५६) शिवसंहिता नाषाटीकासमेता ।

टीका—जो पुरुष यह दिव्य स्वाधिष्ठानपद्मका सर्वदा ध्यान करते हैं उनको कामहापणी स्त्री कामसे मोहित होके भजती हैं अर्थात् सेवा करती हैं ॥ १०६ ॥
मूलम्—विविधश्चाश्रुतं शास्त्रं निःशङ्को वै व-
देष्टुवम् ॥ सर्वरोगविनिर्मुक्तो लोके चरति
निर्भयः ॥ १०६ ॥

टीका—विविधश्चाश्रुते जो कभी श्रवण नहीं किय हो उसको भी इस पद्मके ध्यानके प्रभावसे निःशंक कहेगा और सर्वरोगसे मुक्तहोके आनन्दपूर्वक संसारमें विचरेगा ॥ १०६ ॥

मूलम्—मरणं खाद्यते तेन स केनापि न खा-
द्यते ॥ तस्य स्यात्परमा सिद्धिरणिमादि-
गुणप्रदा ॥ १०७ ॥ वायुः सञ्चरते देहे रस-
वृद्धिर्भवेष्टुवम् ॥ आकाशपङ्कजगलत्पीयू-
षमपि वर्द्धते ॥ १०८ ॥

टीका—यह साधक मृत्युको नाश करदेताहै और वह किसीसे नष्ट नहीं होता और उस साधकको गुण देनेवाली अणिमादि सिद्धि प्राप्त होती हैं और उसके शरीरमें वायु संचार करताहै अर्थात् सुषुम्णामें प्रवेश करताहै और निश्चय रसकी वृद्धि होतीहै और सह-

सदलकमलसे जो अमृत स्वतोहै उसकी वृद्धि
होती है ॥ १०७ ॥ १०८ ॥

अथ मणिपूरचक्रविवरणम् ।

मूलम्—तृतीयं पद्मजं नाभौ मणिपूरकसंज्ञ-
कम् ॥ दशारंडादिफान्तार्णं शोभितं हेमवर्णं
कम् ॥ १०९ ॥ रुद्राख्यो यत्र सिद्धोऽस्ति
सर्वमङ्गलदायकः ॥ तत्रस्था लाकिनी-
नाम्नी देवी परमधार्मिका ॥ ११० ॥

टीका—मणिपूरनामक तीसरा पद्म जो नाभिस्थलमें
है वह हेमवर्ण दशदलकरके शोभितहै और ड-से
फ-तक अर्थात् ड-ठ-ण-त-थ-द-ध-न-प-फ-यह दश-
वर्णसे युक्त है और उस स्थानमें सर्वमंगलदाता रु-
द्रनामक सिद्ध और लाकिनी देवी अधिष्ठात्री और
विष्णुदेवता है ॥ १०९ ॥ ११० ॥

मूलम्—तस्मिन् ध्यानं सदा योगी करोति
मणिपूरके ॥ तस्य पातालसिद्धिः स्यान्ति-
रन्तरसुखावहा ॥ १११ ॥ इप्सितञ्च भवे-
ल्लोके दुःखरोगविनाशनम् ॥ कालस्य व-
ञ्चनञ्चापि परदेहप्रवेशनम् ॥ ११२ ॥

. टीका—जो साधक इस मणिपूरचक्रको सर्वदा ध्या-

(१५८) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

न करते हैं सो सर्वसिद्धिदात्री जो पातालसिद्धि है
उसको लाभ करते हैं और उनका दुःख रोगविनाश
होके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं और कालको नि-
रादर कर देते हैं और परदेहमें प्रवेश करनेकी शक्ति
उत्पन्न होती है ॥ १११ ॥ ११२ ॥

मूलम्—जाम्बूनदादिकरणं सिद्धानां दर्शनं
भवेत् ॥ औषधीदर्शनञ्चापि निधीनां द-
र्शनं भवेत् ॥ ११३ ॥

टीका—यह साधकको स्वर्णआदि रचना करनेकी
शक्ति होतीहै और देवतोंका दर्शन और निधि और
ओषधीका दर्शन होताहै ॥ ११३ ॥

मूलम्—हृदयेऽनाहतंनाम चतुर्थं पङ्कजं भ-
वेत् ॥ ११४ ॥ कादिठान्तार्णसंस्थानं द्वाद-
शारसमन्वितम् ॥ अतिशोणं वायुबीजं
प्रसादस्थानमीरितम् ॥ ११५ ॥

टीका—हृदयस्थानमें जो अनाहतनामक चतुर्थ
पद्म है वह-क-से-ठ-तक अर्थात् क-ख-ग-घ-ड-च-छ-
ज-झ-भ-ट-ठ-यह वारह-वर्ण और वारहदलसे युक्त है
और अति उज्ज्वल रक्तवर्णसे शोभायमान है और

वह प्रसन्नस्थान वायुका वीज अर्थात् प्राणवायुका
आधार है ॥ ११४ ॥ ११५ ॥

मूलम्-पद्मस्थं तत्परं तेजो वाणलिङ्गं
प्रकीर्तिस् ॥ यस्य स्मरणमात्रेण दृष्ट-
दृष्टफलं लभेत् ॥ ११६ ॥

टीका—उस हृदयकमलमें जो परमतेज है उसीको
वाणलिङ्ग कहते हैं जिसके ध्यानमात्रसे साधक इस
लोक और परलोकका उत्तमफल आनन्दपूर्वक लाभ
करते हैं ॥ ११६ ॥

मूलम्-सिद्धः पिनाकी यत्रास्ते काकिनी
यत्र देवता ॥ एतस्मिन्सततं ध्यानं ह-
त्पाथोजे करोति यः ॥ क्षुभ्यन्ते तस्य
कान्ता वै कामार्ता दिव्ययोषितः ॥ ११७ ॥

टीका—जिस पद्ममें पिनाकी, सिद्ध और काकिनी
देवी अधिष्ठात्री हैं उस हृदयस्थपद्ममें जो साधक
सर्वदा ध्यान करता है उसके समीप कामार्ता सुन्दर
स्त्री अप्सरा आदि मोहित होजाती हैं ॥ ११७ ॥

मूलम्-ज्ञानञ्चाप्रतिमं तस्य त्रिकालवि-
पयम्भवेत् ॥ द्वूरश्रुतिर्द्वूरद्वष्टिः स्वेच्छया
खगंता ब्रजेत् ॥ ११८ ॥

(१६०) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

टीका—उस साधकको अपूर्वज्ञान उत्पन्न होता है और त्रिकालदर्शी होता है और दूरशब्द श्रवण करने और दूरकी सुक्ष्मवस्तु देखनेकी शक्ति उत्पन्न होती है और स्वेच्छासे आकाशमें गमन करता है ॥ ११८ ॥

मूलम्—सिद्धानां दर्शनञ्चापि योगिनीदर्शनं तथा ॥ भवेत्खेचरसिद्धिश्च खेचराणां जयन्तथा ॥ ११९ ॥ यो ध्यायति परं नित्यं बाणलिंगं द्वितीयकम् ॥ खेचरी भूचरी सिद्धिर्भवेत्स्य न संशयः ॥ १२० ॥

टीका—जो साधक यह दूसरे परमवाणलिङ्गका नित्य ध्यान करता है उसको देवता और योगिनीका दर्शन होता है और आकाशमें गमन करनेकी शक्ति होजाती है और आकाशगमीसे जय प्राप्त होती है और खेचरी भूचरी सिद्ध होती है इसमें संशय नहीं है ॥ ११९ ॥ १२० ॥

मूलम्—एतद्ध्यानस्य माहात्म्यं कथितुं नैव शक्यते ॥ ब्रह्माद्याः सकला देवा गोपायन्ति परन्तिवदम् ॥ १२१ ॥

टीका—हे देवी ! इस अनाहत पञ्चके ध्यानके माहात्म्य-को कोई नहीं कह सकता और इस ध्यानको ब्रह्मा आदि सकलदेवता गोप्य रखते हैं ॥ १२१ ॥

अथ विशुद्धचक्रविवरणम् ।

मूलम्—कण्ठस्थानस्थितं पद्मं विशुद्धं नाम-
पञ्चमम् ॥ १२२ ॥ सुहेमाभं स्वरोपेतं
षोडशस्वरसंयुतम् ॥ छगलाण्डोऽस्ति
सिद्धोत्र शाकिनी चाधिदेवता ॥ १२३ ॥

टीका—कंठस्थानमें जो पांचवाँ विशुद्धनामक क-
मल है वह स्वर्णके समान काँतिसे शोभित है और सो-
लह स्वर अर्थात् अ-आ-इ-ई-उ-ऊ-ऋ-ऋ-ल-ल्ल-ए-
ओ-औ-अं-अः-से युक्त है और छगलांड सिद्ध और शा-
किनीदेवी आधिष्ठात्री और जीवात्मा देवता इस स्थान-
में सदा विराजमान है ॥ १२२ ॥ १२३ ॥

मूलम्—ध्यानं करोति यो नित्यं स योगीश्व-
रपण्डितः ॥ किन्त्वस्य योगिनोऽन्यत्र वि-
शुद्धाख्ये सरोरुहे ॥ चतुर्वेदा विभासन्ते
सरहस्या निधीरिव ॥ १२४ ॥

टीका—जो पुरुष इस विशुद्धपद्मका नित्य ध्यान
करते हैं सो योगीश्वर पंडित हैं और इस विशुद्धपद्ममें
उस पुरुषको चारोंवेद रहस्यसहित समुद्रके रत्नवत्
प्रकाश होते हैं ॥ १२४ ॥

मूलम्—इह स्थाने स्थितो योगी यदा क्रोध-

(१६२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

वशो भवेत् ॥ तदा समस्तं त्रैलोक्यं कम्प-
ते नात्र संशयः ॥ १२५ ॥

टीका—यह विशुद्धपद्ममें जब योगी मन और प्रा-
णको स्थित करके यदि क्रोध करे तो अवश्य चराचर
त्रैलोक्य कम्पायमान होजाय इसमें सन्देह नहीं ॥ १२५ ॥

मूलम्—इह स्थाने मनो यस्य दैवाद्याति
लयं यदा ॥ तदा बाह्यं परित्यज्य स्वा-
न्तरे रमते ध्रुवम् ॥ १२६ ॥

टीका—यह कमलमें साधकका मन दैवात् जब
लय होताहै तब सकल बाह्यविषयको त्यागके योगी-
का मन और प्राण शरीरके अंतरहीमें निश्चय रमण
करताहै ॥ १२६ ॥

मूलम्—तस्य न क्षतिमायाति स्वशरीरस्य
शक्तिः ॥ संवत्सरसहस्रेऽपि वज्रातिक-
ठिनस्य वै ॥ १२७ ॥ यदा त्यजाति त-
द्वयानं योगींद्रोऽवनिमण्डले ॥ तदा वर्ष-
सहस्राणि मन्यते तत्क्षणं कृती ॥ १२८ ॥

टीका—उस योगीका शरीर वज्रसेभी कठोर होजा-
ताहै और उसको स्वशरीरकी शक्तिसे किसी प्रकारकी
हानि नहीं होतीहै और सहस्रवर्ष समाधिके पाँछे जब

उस ध्यानको छोड़के योगीकी चित्तवृत्ति संसारमें आ-
वेगी तब उस सहस्रवर्षके योगी एकक्षण व्यतीत
भया मानेगा ॥ १२७ ॥ १२८ ॥

अथ आज्ञाचक्रविवरणम् ।

मूलम्-आज्ञापद्मं भ्रुवोर्मध्ये हक्षोपेतं द्विप-
त्रकम् ॥ शुक्लाभं तन्महाकालः सिद्धो दे-
व्यत्र हाकिनी ॥ १२९ ॥

टीका—भूके मध्यमें जो आज्ञापद्म है उसमें हं-क्ष-
दो बीज हैं और सुंदर शेतवर्ण दो पत्र हैं और उस स्था-
नमें महाकाल सिद्ध है और हाकिनीदेवी अधिष्ठात्री
और परमात्मा देवता है ॥ १२९ ॥

मूलम्—शरञ्चंद्रनिभं तत्राक्षरवीजं विजृंभितं ॥
पुमान् परमहंसोऽयं यज्ञात्वा नावसी-
दाति ॥ १३० ॥ तत्र देवः परन्तेजः सर्वत-
त्रेषु मन्त्रिणः ॥ चिन्तयित्वा परां सिद्धिं
लभते नात्र संशयः ॥ १३१ ॥

टीका—उस आज्ञापद्मके मध्यमें शरञ्चंद्रके सपा-
न परमतेज चंद्रवीज अर्थात् ठं बीज विराजमान है
इसके ज्ञान होनेसे परमहंस पुरुषको कभी कष्ट नहीं
होता यह परमतेजका प्रकाश सर्वतंत्रोंकरके गो-

(१६४) शिवसंहिता भाषादीकासमेता ।

पित है इसके चितनमात्रसे अवश्य परम सिद्धिलाभ होता है ॥ १३० ॥ १३१ ॥

मूलम्—तुरीयं त्रितयं लिंगं तदाहं मुक्तिदायकः ॥ ध्यानमात्रेण योगीन्द्रो मत्समो भवति ध्रुवम् ॥ १३२ ॥

टीका—हे पार्वती ! उस स्थानमें तुरीया तृतीयलिंग हमीं मुक्तिके दाता हैं इसके ध्यानमात्रसे योगीन्द्र निश्चय हमारे तुल्य होजायगा ॥ १३२ ॥

मूलम्—इडा हि पिंगला ख्याता वरणासीति होच्यते ॥ वाराणसी तयोर्मध्ये विश्वनाथोत्र भाषितः ॥ १३३ ॥

टीका—इस शरीरमें जो दो इडा और पिंगला नाड़ी हैं उनको वरणा और असी कहते हैं यह वरणा और असीके मध्यमें स्वयं विश्वनाथजी विराजमान हैं. तात्पर्य यह है कि , यह इडा और पिंगलाके मध्यमें जो स्थान है उसीको शिवजीने वाराणसी कहा है ॥ १३३ ॥

मूलम्—एतत्क्षेत्रस्य माहात्म्यमृषिभिस्तत्वदर्शिभिः ॥ शास्त्रेषु वहुधा प्रोक्तं परं तत्त्वं सुभाषितम् ॥ १३४ ॥

टीका—यह वाराणसी क्षेत्रके माहात्म्यको तत्त्वद-

श्री ऋषिलोगोंने अनेक शास्त्रोंमें वहुत प्रकारसे परम-
तत्त्व कहा है ॥ १३४ ॥

मूलम्-सुषुम्णा मेरुणा याता ब्रह्मरन्ध्रं य-
तोऽस्ति वै ॥ ततश्चैषा परावृत्त्य तदाज्ञा-
पद्मदक्षिणे ॥ १३५ ॥ वामनासापुटं या-
ति गंगेति परिगीयते ॥ १३६ ॥

टीका—सुषुम्णानाडी मेरुदंडद्वारा जहाँ ब्रह्मरन्ध्र है
उस स्थानमें गई है और इडानाडी मेरुतक जायके
लौटी है और आज्ञाचक्रके दक्षिणभाग होके वामनासापु-
टको गई है इसको गङ्गा कहते हैं ॥ १३५ ॥ १३६ ॥
मूलम्-ब्रह्मरन्ध्रे हि यत्पद्मं सहस्रारं व्यव-
स्थितम् ॥ तत्र कन्देहि या योनिस्तस्यां च-
न्द्रो व्यवस्थितः ॥ १३७ ॥ त्रिकोणाकार-
तस्तस्याः सुधाक्षरति सन्ततम् ॥ इडाया-
ममृतं तत्र समं स्रवति चन्द्रमाः ॥ १३८ ॥
अमृतं वहति द्वारा धाराहृपं निरन्तरम् ॥
वामनासापुटं याति गंगेत्युक्ता हि यो-
गिभिः ॥ १३९ ॥

टीका—ब्रह्मरन्ध्रमें जो सहस्रदल पद्म है उस पद्मके
कन्दमें योनि है उस योनिमें चन्द्रमा विराजमान है

(१६६) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

और वही त्रिकोणाकार योनीसे चंद्रविगलित अमृत सर्वदा स्वता है सो अमृत चंद्रमासे इडानाडीद्वारा समझावसे निरन्तर धारारूप गमन करता है और उस इडानाडीकी गति वामनासापुटमें है उस हेतुसे योगी लोग इस नाडीको गंगा कहते हैं ॥१३७॥१३८॥१३९॥
मूलम्—आज्ञापङ्कजदक्षांसाद्वामनासापुटंग-
ता ॥ उदग्वहेति तत्रेडा गंगेति समुदा-
हता ॥ १४० ॥

टीका—वह इडानाडी आज्ञापङ्कके दक्षिणभागसे वामनासापुटको गमन करती है इसीको उदग्वाहिनी गंगा कहते हैं ॥ १४० ॥

मूलम्—ततो द्वयोर्हिं मध्ये तु वाराणसी वि-
चिन्तयेत् ॥ तदाकाशा पिंगलापि तदाज्ञा-
कमलोत्तरे ॥ दक्षनासापुटे याति प्रोक्ता-
स्माभिरसीति वै ॥ १४१ ॥

टीका—यह इडा और पिङ्गलाके मध्यस्थानको वाराणसी चिन्तनाकरे और इडानाडीके समान पि-
ङ्गलाभी उस आज्ञाकमलके वामभागसे दक्ष नासा-
पुटको गई है इस हेतुसे हेदेवी ! इस पिङ्गलाको हमने असी कहा है ॥ १४१ ॥

मूलम्-मूलाधारे हि यत्पञ्चं चतुष्पत्रं व्यव-
स्थितम् ॥ तत्र कन्देस्ति या योनिस्तस्यां
सूर्यो व्यवस्थितः ॥ १४२ ॥

टीका—जो मूलाधारपञ्च चारदलसे युक्तहै उस कमल-
के कन्दमें जो योनिहै इस योनिमें सूर्यस्थितहै ॥ १४२ ॥
मूलम्—तत्सूर्यमण्डलद्वाराद्विषं क्षरति
सन्ततम् ॥ १४३ ॥ पिंगलायां विषं तत्र सम-
र्पयति तापनः ॥ विषं तत्र वहन्ती या धा-
रारूपं निरन्तरम् ॥ दक्षनासापुटे याति
कल्पितेयन्तु पूर्ववत् ॥ १४४ ॥

टीका—वही सूर्यमण्डलसे निरन्तर विष स्रवता है
और पिङ्गलाद्वारा गमन करता है और वह विष सर्वदा
धारारूप पिङ्गलानाडीसे प्रवाहित रहता है और यह
पिङ्गलानाडी दक्षिणनासापुटमें गई है ॥ १४३ ॥ १४४ ॥
मूलम्—आज्ञापङ्कजवामास्यादक्षनासापुटं
गता ॥ उदगवहांपिंगलांपि पुरासीति
प्रकीर्तिंता ॥ १४५ ॥

टीका—यह नाडी आज्ञाकमलके वामभागसे दक्षिण
नासिकापुटको गई है इस हेतुसे यह पिङ्गलानाडीको
असी कहते हैं ॥ १४५ ॥

(१६८) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

मूलम्-आज्ञापद्ममिदं प्रोक्तं यत्र देवो महे-
श्वरः ॥ १४६ ॥ पीठत्रयं ततश्चोर्ध्वं निरु-
क्तं योगचिन्तकैः ॥ तद्विन्दुनादशत्त्या-
र्थ्यं भालपद्मे व्यवस्थितम् ॥ १४७ ॥

टीका-इस स्थानमें महेश्वर देवताहै इसको
आज्ञापद्म कहते हैं और योगचिन्तक लोग कहते
हैं कि, इस पद्मके ऊपर पीठत्रयकी स्थिति है अर्थात्
नाद, विंदु, शक्ति, यह तीनों इस भालपद्ममें विराज-
मान हैं ॥ १४६ ॥ १४७ ॥

मूलम्-यः करोति सदाध्यानमाज्ञापद्मस्य
गोपितम् ॥ पूर्वजन्मकृतं कर्म विनश्येद-
विरोधतः ॥ १४८ ॥ ॥

टीका-जो पुरुष सर्वदा गोपित करके इस आज्ञा-
कमलका ध्यान करते हैं उनका पूर्वजन्मकृत कर्मफल
सकल निर्विघ्न नाश होजाता है ॥ १४८ ॥

मूलम्-इह स्थितः सदा योगी ध्यानं कुर्या-
न्निरन्तरम् ॥ तदा करोति प्रतिमां प्रति-
जापमनर्थवत् ॥ १४९ ॥

टीका-जब योगी यह ध्यान सर्वदा निरन्तर करे

तौ उसका प्रतिमापूजन करना वा जप करना सर्वथा
अनर्थवत् है ॥ १४९ ॥

मूलम्—यक्षराक्षसगन्धर्वा अप्सरोगणकिन्न-
राः ॥ सेवन्ते चरणौ तस्य सर्वे तस्य व-
शानुगाः ॥ १५० ॥

टीका—यक्ष और राक्षस और गन्धर्व और अप्सरा
और किन्नर आदि सब इस ध्यानयुक्त योगिके वशमें
हो जाते हैं और उसके चरणकी सेवा करते हैं ॥ १५० ॥

मूलम्—करोति रसनां योगी प्रविष्टां विपरी-
तगाम् ॥ लभ्मिकोधर्वेषु गर्तेषु धृत्वा ध्या-
नं भयापहम् ॥ १५१ ॥ अस्मिन् स्था-
ने मनो यस्य क्षणार्धं वर्तते चलम् ॥ तस्य
सर्वाणि पापानि संक्षयं यान्ति तत्क्ष-
णात् ॥ १५२ ॥

टीका—जो योगी विपरीतगामी जिह्वाको ऊपर
तालुमूलमें प्रवेश करके यह भयनाशक आज्ञाकमल-
का ध्यान अर्धक्षणभी मन अचल स्थिरतापूर्वक
करते हैं उनका सकल पातक उसीक्षण नाश
हो जाता है ॥ १५१ ॥ १५२ ॥

मूलम्—यानि यानि हि प्रोक्तानि पंचपद्मे फ-

(१७०) शिवसंहिता भाषाटीकासमैता ।

लानि वै ॥ तानि सर्वाणि सुतरामेतज्ज्ञा-
नाद्वन्ति हि ॥ १५३ ॥

टीका—पंच पद्मका जो जो फल पहिले कहाहै सो
सबका समस्त फल आपही इस आज्ञाकमलके ध्यान-
सेही प्राप्त होजायगा ॥ १५३ ॥

मूलम्-यः करोति सदाभ्यासमाज्ञापद्मे वि-
चक्षणः ॥ वासनाया महाबन्धं तिरस्कृ-
त्य प्रमोदते ॥ १५४ ॥

टीका—जो बुद्धिमान् सर्वदा मन स्थिर करके यह
आज्ञापद्मका अभ्यास करते हैं वह वासनारूपी महा-
बन्धको निरादर करके आनन्द लाभ करते हैं ॥ १५४ ॥
मूलम्-प्रणप्रयाणसमये तत्पद्मं यः स्मर-
न्सुधीः ॥ त्यजेत्प्राणं स धर्मात्मा परमा-
त्मनि लायते ॥ १५५ ॥

टीका—जो बुद्धिमान् मृत्युके समय उस आज्ञापद्म-
का ध्यान करेगा सो धर्मात्मा प्राणको त्यागके परमा-
त्मामें लय होजायगा ॥ १५५ ॥

मूलम्-तिष्ठन् गच्छन् स्वपन् जाग्रत् यो-
ध्यानं कुरुते नरः ॥ पापकर्म विकुर्वाणो
नहि मज्जति किलिबषे ॥ १५६ ॥

टीका—जो मनुष्य वैठे चलते जाग्रतमें स्वप्नमें
सर्वदा इस कमलका ध्यान करते हैं सो यदि पापकर्म
रतभी हों तोभी मोक्षको प्राप्त होते हैं ॥ १५६ ॥

मूलम्—राजयोगाधिकारी स्यादेतच्चिन्तन-
तो ध्रुवम् ॥ योगी बन्धाद्विनिर्मुक्तः स्वीयया
प्रभया स्वयम् ॥ १५७ ॥ द्विदलध्यानमा-
हात्म्यं कथितुं नैव शक्यते ॥ ब्रह्मादि-
वताश्चैव किञ्चिन्मत्तो विदन्ति ते ॥ १५८ ॥

टीका—जो इस कमलका ध्यान करता है वह निश्चय
राजयोगका अधिकारी है योगी स्वयं अपने प्रभासे
सकलबन्धसे मुक्त होजाता है हे देवि ! इस द्विदलपद्मके
माहात्म्यको कोई कहनेमें समर्थ नहीं है ब्रह्मा आदि
देवता इस पद्मके माहात्म्यको किञ्चित् हमारे द्वारा
जानते हैं ॥ १५७ ॥ १५८ ॥

मूलम्—अत ऊर्ध्वं तालुमूले सहस्रारं सरोरु-
हम् ॥ अस्ति यत्र सुषुम्णाया मूलं सविव-
रं स्थितम् ॥ १५९ ॥

टीका—इस आज्ञापद्मके ऊपर तालुमूलमें सहस्र-
दल कमल शोभायमान है उसी स्थानमें ब्रह्मरन्ध्रके
विवरमूलमें सुषुम्णा स्थित है ॥ १५९ ॥

(१७२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

**मूलम्—तालुमूले सुषुम्णास्य अधोवक्रा प्रव- .
र्तते ॥ मूलाधारेण योन्यस्ताः सर्वनाडयः
समाश्रिताः ॥ ता बीजभूतास्तत्त्वस्य ब्र-
ह्ममार्गप्रदायिकाः ॥ १६० ॥**

टीका—वह सुषुम्णाका मुख तालुमूल अर्थात् ब्र-
ह्मरन्ध्रमें नीचेको वर्तमान है और मूलाधारसे योनि
पर्यंत जो सकल नाडी हैं वह इस तत्त्वज्ञानबीजस्वरूप
ब्रह्ममार्गकी दाता सुषुम्णाके अधोवदनके अवलम्बसे
स्थित हैं ॥ १६० ॥

**मूलम्—तालुस्थाने च यत्पद्मं सहस्रारं पुरो-
दितम् ॥ तत्कन्दे योनिरेकास्ति पश्चिमा-
भिमुखी मता ॥ १६१ ॥ तस्य मध्ये सुषु-
म्णाया मूलं सविवरं स्थितम् ॥ ब्रह्मरन्ध्रं
तदेवोक्तमामूलाधारपद्मजम् ॥ १६२ ॥**

टीका—तालुस्थानमें जो सहस्रदल कमल कहाग-
या है उसके कन्दमें एक योनि पश्चिमाभिमुखी है अर्थात्
पीछेको मुख है उस योनिके मध्यमें जो मूलविश्वर है उसमें
सुषुम्णा ज्ञाननाडी स्थित है हे देवी ! इसको ब्रह्मरन्ध्र और
इसीको मूलाधारपद्मभी कहते हैं ॥ १६१ ॥ १६२ ॥
मूलम्—तत्रांतरन्ध्रे चिच्छाक्तिः सुषुम्णा कु-

एडली सदा ॥१६३॥ सुषुम्णायां स्थिता
नाडी चित्रास्यान्मम वल्लभे ॥ तस्यां म-
म मते कार्या ब्रह्मरन्धादिकल्पना ॥१६४॥

टीका—यह सुषुम्णानाडीके रन्ध्रमें कुण्डलिनी शक्ति
सर्वदा विराजमान है वह सुषुम्णा अन्तर्गता शक्तिको
चित्रानाडी कहते हैं हे प्रिये पार्वति ! हमारे मतमें हसी
चित्रासे ब्रह्मरन्ध आदि कल्पना भई है ॥१६३॥१६४॥
मूलम्—यस्याः स्मरणमात्रेण ब्रह्मज्ञत्वं प्र-
जायते ॥ पापक्षयश्च भवति न भूयः पुरु-
षो भवेत् ॥ १६५ ॥

टीका—यह चित्रानाडीके ध्यानमात्रसे ब्रह्मज्ञान
उत्पन्न होता है और पाप क्षय होजाता है और फिर
संसाररूपी बन्धमें योगी नहीं पड़ता अर्थात् मोक्ष
होजाता है ॥ १६५ ॥

मूलम्—प्रवेशितं चलाङ्गष्टुं मुखे स्वस्य निवे-
शयेत् ॥ तेनात्र न वहत्येव देहचारी स-
मीरणः ॥ १६६ ॥

टीका—दक्षिणहाथके अङ्गुष्ठको मुखमें प्रवेश कर-
के मुखको बन्द करलेनेसे देहचारी जो प्राणवायु है वह
निश्चय स्थिर होजाता है ॥ १६६ ॥

(१७४) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

मूलम्—तेन संसारचक्रेस्मिन्न भ्रमन्ते च स-
र्वदा॥ तदर्थं ये प्रवर्तन्ते योगिनः प्राणधार-
णे॥ १६७॥ तत एवाखिला नाडी निरुद्धं
चाष्टवेष्टनम्॥ इयं कुण्डलिनी शक्ती रन्ध्र
त्यजति नान्यथा ॥ १६८॥

टीका—यह प्राणवायुके स्थिर होजानेसे इस संसार
चक्रमें सर्वदा भ्रमण करना छूटजाता है अर्थात् मोक्ष
होजाता है इसहेतुसे योगी प्राणवायुके धारण करनेमें
प्रवृत्त होते हैं और इसधारणसे सकलनाडी जो मल
और काम क्रोधादि आठप्रकारसे बन्धनमें हैं वह खुल
जाती हैं तब यह कुण्डलिनीशक्ति ब्रह्मरन्ध्रको निश्चय
त्याग देती है इसके त्यागदेनेसे जीव ब्रह्मका सम्बन्ध
होजाता है ॥ १६७ ॥ १६८ ॥

मूलम्—यदा पूर्णसु नाडीषु सन्त्रिरुद्धानिला-
स्तदा ॥ बन्धत्यागेन कुण्डल्या मुखं र-
न्ध्राद्वहिर्भवेत् ॥ सुपुण्यायां सदैवायं व-
हेत्प्राणसमीरणः ॥ १६९ ॥

टीका—जब वायु निरोध होके सकलनाडीमें पूर्ण
होजायगा तब कुण्डलिनी अपने बन्धको त्याग-
के ब्रह्मरन्ध्रके मुखको त्यागदेगी तब प्राणवायुका

प्रवाह सदैव सुषुम्णामें होजायगा ॥ १६९ ॥

मूलम्-मूलपद्मस्थिता योनिर्वामदक्षिण-
कोणतः॥ इडापिंगलयोर्मध्ये सुषुम्णा यो-
निमध्यगा ॥ १७० ॥ ब्रह्मरञ्चन्तु तत्रैव
सुषुम्णाधारमण्डले ॥ यो जानाति स
मुक्तः स्यात्कर्मबन्धाद्विचक्षणः ॥ १७१ ॥

टीका—मूलधारपद्मस्थित जो योनि है उस योनिके
वाम दक्षिण भागमें इडा और पिंगला नाडी स्थित हैं
और दोनों नाडीके बीचमें अर्थात् योनिके मध्यमें
सुषुम्णाकी स्थिति है उसी सुषुम्णाके आधारमण्डलमें
अर्थात् उसके मध्यमें ब्रह्मरन्ध्र है जो इसको जानता है
सो बुद्धिमान् कर्मबन्धसे मुक्त है ॥ १७० ॥ १७१ ॥
मूलम्-ब्रह्मरन्ध्रमुखे तासां संगमः स्याद-
संशयः॥ तस्मिन्स्नाने स्नातकानां मुक्तिः
स्यादविरोधतः ॥ १७२ ॥

टीका—ब्रह्मरन्ध्रके मुखमें इन तीनों नाडीका नि-
श्चय सम्बन्ध है इसमें स्नान करनेसे ज्ञानीलोगोंको
मुक्तिलाभ होगी ॥ १७२ ॥

मूलम्—गंगायमुनयोर्मध्ये वहत्येषा सरस्व-
ती ॥ तासां तु संगमे स्नात्वा धन्यो याति
परांगतिम् ॥ १७३ ॥

(१७६) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

टीका—गंगा यमुनाके मध्यमें सरस्वतीका प्रवाह है यह त्रिवेणीसंगममें स्नान करनेसे मनुष्य परमगतिको प्राप्त होता है ॥ १७३ ॥

मूलम्-इडा गंगा पुरा प्रोक्ता पिंगला चार्कपु-
त्रिका ॥ मध्या सरस्वती प्रोक्ता तासां
संगोऽतिदुर्लभः ॥ १७४ ॥

टीका—इडा गंगा है और पिंगला यमुना है और
मध्यमें सुषुम्णा सरस्वती है यह त्रिवेणी संगम कहा
गया है इसका स्नान अतिदुर्लभ है ॥ १७४ ॥

मूलम्-सितासिते संगमे यो मनसा स्ना-
नमाचरेत् ॥ सर्वपापविनिर्मुक्तो याति
ब्रह्मसनातनम् ॥ १७५ ॥

टीका—यह इडा और पिंगलाके संगममें मानसिक
स्नान करनेसे साधक सर्व पापसे मुक्त होके सनातन
ब्रह्ममें लय होजाता है ॥ १७५ ॥

मूलम्-त्रिवेण्यां संगमे यो वै पितृकर्म स-
माचरेत् ॥ तारायित्वा पितृन्सर्वान्स याति
परमां गतिम् ॥ १७६ ॥

टीका—जो पुरुष इस त्रिवेणीसंगममें पितृकर्मका

अनुष्ठान करते हैं वह सर्वे पितृकुलको तारके परम गतिको लाभ करते हैं ॥ १७६ ॥

**मूलम्-नित्यं नैमित्तिकं काम्यं प्रत्यहं यः
समाचरेत्॥मनसा चिन्तयित्वा तु सोऽक्ष-
यं फलमाप्नुयात् ॥ १७७ ॥**

टीका-उसी संगमस्थानमें जो साधक नित्य और नै-
मित्तिक और काम्य कर्मका अनुष्ठान सर्वदा मनसे चिन्त-
नपूर्वक करते हैं सो अक्षय फललाभ करते हैं ॥ १७७ ॥

**मूलम्-सकृद्यः कुरुते स्नानं स्वर्गे सौख्यं भु-
नक्ति सः ॥ दण्डवा पापानशेषान्वै योगी
शुद्धमतिः स्वयम्॥१७८॥अपवित्रः पवि-
त्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा ॥स्नानाचर-
णमात्रेण पूतो भवति नान्यथा ॥ १७९ ॥**

टीका-जो पवित्रमति योगी एकवार इस संगममें
स्नान करते हैं वह सर्वे पापको दण्डकरके स्वर्गका दिव्य
भोग भोगते हैं और यह साधक पवित्र हो वा अपवित्र
हो वा किसी अवस्थामें हो यह संगमके ध्यानरूपी
स्नानमात्रसे निश्चय पवित्र होजायगा ॥ १७८॥१७९॥

मूलम्-मृत्युकाले प्लुतं देहं त्रिवेण्याः सलि-

(१७८) शिवसंहिता जाषाटीकासमेता ।

ले यदा ॥ विचिन्त्य यस्त्यजेत्प्राणान्स
तदा मोक्षमाप्नुयात् ॥ १८० ॥

टीका—मृत्युके समयमें साधक जो यह चिंतन करे कि हमारा शरीर त्रिवेणीके सालिलमें मग्न है तो उसी क्षण प्राणको त्यागके मोक्षगतिको प्राप्त होगा ॥ १८० ॥
मूलम्—नातः परतरं गुह्यं त्रिषु लोकेषु विद्य-
ते ॥ गोप्तव्यं तत्प्रयत्नेन न व्याख्येयं
कदाचन ॥ १८१ ॥

टीका—इस तीर्थसे परे त्रिभुवनमें दूसरा गुप्त तीर्थ नहीं है इसको यत्से गोपित रखना उचित है यह कदापि प्रकाश करनेके योग्य नहीं है ॥ १८१ ॥

मूलम्—ब्रह्मरन्ध्रे मनो दत्त्वा क्षणार्धं यदि
तिष्ठति ॥ सर्वपापविनिर्मुक्तः स याति
परमां गतिम् ॥ १८२ ॥

टीका—ब्रह्मरन्ध्रमें मन देकरके यदि क्षणार्धभी स्थिर रखेतो सर्वपापसे मुक्त होके साधक परमगतिको अर्थात् मोक्षको प्राप्त होजाय ॥ १८२ ॥

मूलम्—अस्मिन् लीनं मनो यस्य स योगी
मयि लीयते ॥ अणिमादिगुणान्भुक्ता स्वे-
च्छया पुरुषोत्तमः ॥ १८३ ॥

टीका—हे पार्वती ! इस ब्रह्मरन्ध्रमें जिसका मन लीन होंय सो पुरुषोत्तम योगी अणिमादिगुणोंको भोगके इच्छापूर्वक हमारेमें लय होजायगा ॥ १८३ ॥

मूलम्—एतद्रन्ध्रध्यानमात्रेण मर्त्यः संसारे स्मिन्वल्लभो मे भवेत्सः ॥ पापान् जित्वा मुक्तिमार्गाधिकारी ज्ञानं दत्त्वा तारयत्यद्भुतं वै ॥ १८४ ॥

टीका—हे देवी ! इस ब्रह्मरन्ध्रके ध्यानमात्रसे यह संसारमें प्राणी हमको प्रिय होजाता है और पापराशिको जीतके यह साधक मुक्तिमार्गका अधिकारी होजाता है और अनेक मनुष्योंको ज्ञान उपदेश करके संसारसे परिव्राण करदेता है ॥ १८४ ॥

मूलम्—चतुर्मुखादित्रिदशैरगम्यं योगिवल्लभम् ॥ प्रयत्नेन सुगोप्यं तद्ब्रह्मरन्ध्रं मयोदितम् ॥ १८५ ॥

टीका—हे देवी ! यह ब्रह्मरन्ध्रका ध्यान जो हमने कहा है इसको यत्न करके गोपित रखना उचित है यह ज्ञान योगीलोगोंको अतिप्रिय है इसका मार्ग ब्रह्मा आदि देवताओंकोभी अगम्य है ॥ १८५ ॥

मूलम्—पुरा मयोक्ता या योनिः सहस्रारे स-

(१८०) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

रोहुहे ॥ तस्याऽधो वर्तते चन्द्रस्तद्यानं
क्रियते बुधैः ॥ १८६ ॥

टीका—हे देवि ! पहिले जो सहस्रदलकमलके मध्यमें
योनिमण्डल हमने कहा है उस योनिके अधोभागमें
चन्द्रमा स्थित हैं यह चन्द्रमण्डलका बुद्धिमान् लोग
सर्वदा ध्यान करते हैं ॥ १८६ ॥

मूलम्—यस्य स्मरणमात्रेण योगीन्द्रोऽव-
निमण्डले । पूज्यो भवति देवानां सिद्धानां
सम्पतो भवेत् ॥ १८७ ॥

टीका—इस चन्द्रमण्डलके ध्यानमात्रसे योगीन्द्र
संसारमें पूजनीय होजाता है और देवता और सिद्ध-
लोगोंके तुल्य होजाता है ॥ १८७ ॥

मूलम्—शिरःकपालविवरे ध्यायेद्वुग्धमहो-
दधिम् ॥ तत्र स्थित्वा सहस्रारे पद्मे चन्द्रं
विचिन्तयेत् ॥ १८८ ॥

टीका—शिरस्थित जो कपालविवर है उसमें क्षीर
समुद्रका ध्यान करे उसी स्थानमें स्थितिपूर्वक सहस्र-
दलकमलमें चन्द्रमाका चिन्तन करे ॥ १८८ ॥

मूलम्—शिरःकपालविवरे द्विरष्टकलयायु-
तः ॥ पीयूषभानुहंसरख्यं भावयेत्तं निरं-

जनम् ॥ १८९ ॥ निरन्तरकृताभ्यासात्रि-
दिने पश्यति ध्रुवम् ॥ दृष्टिमात्रेण पापौषं
दहत्येव स साधकः ॥ १९० ॥

टीका—वह शिरःस्थित कपालविवरमें सोलह कलासं-
युक्त अमृतकिरणसे युक्त हंससंज्ञक निरंजनका चिन्तन
करे निरन्तर तीन दिन यह अभ्यास करनेसे निरञ्जनका
साक्षात् साधकको अवश्य प्रकाश होगा सो साधकदृष्टिमा-
त्रसे सर्वे पातकोंको दहन करडालेगा ॥ १८९ ॥ १९० ॥
मूलम्—अनागतश्च स्फुरति चित्तशुद्धिर्भवे-
त्खलु ॥ सद्यः कृत्वापि दहति महापात-
कपञ्चकम् ॥ १९१ ॥

टीका—यह ध्यान करनेसे अनागतविषयकी स्फू-
र्ति होगी अर्थात् जो विषय कभी उत्पन्न नहीं भया है
उसकी स्फूर्ति होगी और चित्तकी शुद्धि होगी और सा-
धक ध्यानमात्रसे उसी क्षण पञ्चमहापातक दहन कर-
डालेगा ॥ १९१ ॥

मूलम्—आनुकूल्यं ग्रहा यान्ति सर्वे नश्य-
न्त्युपद्रवाः ॥ उपसर्गाः शमं यान्ति युद्धे
जयमवाप्नुयात् ॥ १९२ ॥ खेचरीभूचरी-
सिद्धिर्भवेत्क्षीरेन्दुदशनात् ॥ ध्यानादेव

(१८२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

भवेत्सर्वं नात्र कार्या विचारणा ॥ १९३ ॥
सन्तताभ्यासयोगेन सिद्धो भवति मा-
नवः ॥ सत्यं सत्यं पुनः सत्यं मम तुल्यो
भवेद्गुवम् ॥ योगशास्त्रं च परमं योगिनां
सिद्धिदायकम् ॥ १९४ ॥

टीका—शिरःस्थचन्द्रमाका ध्यान करनेसे सर्वं ग्रह
अनुकूल होजाते हैं और समस्त उपद्रवका नाश होजा-
ता है और उपसर्ग प्रशामित होते हैं और युद्धमें जय
लाभ होता है और खेचरी भूचरीकी सिद्धि प्राप्त होती है
इसमें सन्देह नहीं है और निरन्तर यह योगभ्यास
करनेसे अवश्य साधक सिद्ध होजाता है हे पार्वती ! हम
सत्य सत्य वारंवार कहते हैं कि हमारे तुल्य होजाय-
गा इसमें सन्देह नहीं है यह परमयोग योगीलोगोंके
सिद्धिका दाता है ॥ १९२ ॥ १९३ ॥ १९४ ॥

अथ राजयोगकथनम् ।

मूलम्—अत ऊर्ध्वं दिव्यस्त्रूपं सहस्रारं सरोरु-
हम् ॥ ब्रह्माण्डाख्यस्य देहस्य वाह्ये
तिष्ठति मुक्तिदम् ॥ १९५ ॥ कैलासो नाम
तस्यैव महेशो यत्र तिष्ठति ॥ अकुलाख्योऽ-
विनाशी च क्षयवृद्धिविवर्जितः ॥ १९६ ॥

टीका—तालुके ऊपरभागमें दिव्य सहस्रदल कमल हैं यह कमल मुक्तिदाता ब्रह्माण्डरूपी शरीरके बाहर स्थित है अर्थात् शरीरके ऊपर अंतमें है इसी कमल-को कैलास कहते हैं इसी स्थानमें महेश्वरकी स्थिति है यह ईश्वर निराकुल अविनाशी और क्षयवृद्धिरहित है ॥ १९५ ॥ १९६ ॥

**मूलम्—स्थानस्यास्य ज्ञानमात्रेण नृणां सं-
सारेऽस्मिन्सम्भवो नैव भूयः ॥ भूतग्रा-
मं सन्तताभ्यासयोगात्कर्तुं हर्तुं स्याच्च
शक्तिः समग्रा ॥ १९७ ॥**

टीका—इस स्थानके ज्ञानमात्रसे जीवका यह सं-सारमें फिर जन्म नहीं होता और सर्वदा यह ज्ञानयोग अभ्यास करनेसे जीवमात्रके स्थिति संहार करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है ॥ १९७ ॥

**मूलम्—स्थाने परे हंसनिवासभूते कैलासना-
म्नीह निविष्टचेताः ॥ योगी हृतव्याधिरधः
कृताधिर्वायुश्चिरं जीवति मृत्युमुक्तः ॥ १९८ ॥**

टीका—यह कैलासनामक स्थानमें परमहंसका निवास है सो सहस्रदलकमलमें जो साधक मनको स्थिर करता है उसकी सकल व्याधि नाश होजाती है और मृत्युसे छूटके अमर होजाता है ॥ १९८ ॥

(१८४) शिवसंहिता भाषाटीकासमेतां ।

मूलम्—चित्तवृत्तिर्थदा लीना कुलाख्ये पर-
मेश्वरे॥ तदा समाधिसाम्येन योगी निश्च-
लतां ब्रजेत् ॥ १९९ ॥

टीका—जब साधक यह कुलनामक ईश्वरमें चित्त-
को लीन करदेगा तब योगीकी समाधि निश्चल सम
होजायगी ॥ १९९ ॥

मूलम्—निरन्तरकृते ध्याने जगद्विस्मरणं
भवेत् ॥ तदा विचित्रसामर्थ्यं योगिनो
भवति ध्रुवम् ॥ २०० ॥

टीका—यह निरन्तर ध्यान करनेसे जगत् विस्मरण
होजायगा तब योगीको अवश्य विचित्र सामर्थ्य हो-
जायगी ॥ २०० ॥

मूलम्—तस्माद्विलितपीयूषं पिबेयोगी निर-
न्तरम्॥ मृत्योर्मृत्युं विधायाशु कुलं जि-
त्वा सरोरुहे ॥ २०१ ॥ अत्र कुण्डलिनी
शक्तिर्लयं याति कुलाभिधा ॥ तदा चतु-
र्विधा सृष्टिर्लयते परमात्मनि ॥ २०२ ॥

टीका—सहस्रदलकम्लसे जो अमृत स्वता है उ-
सको योगी निरन्तर पान करता है सो योगी अपने मृ-
त्युका मृत्युविधानपूर्वक कुलसंहित जय करके चिर-

जीवी होजाता है और यही सहस्रदलकमलमें कुलरूपा
कुण्डलिनी शक्तिका लय होजाता है तब यह चतुर्विध
सृष्टिभी परमात्मामें लय होजाती है ॥ २०१ ॥ २०२ ॥
मूलम्—यज्ञात्वा प्राप्य विषयं चित्तवृत्ति-
विलीयते ॥ तस्मिन्परिश्रमं योगी करो-
ति निरपेक्षकः ॥ २०३ ॥

टीका—यह सहस्रदलकमलके ज्ञान होनेसे अर्थात्
इस विषयको प्राप्त करनेसे चित्तवृत्तिका लय होजाता है
इस हेतुसे इसके ज्ञानार्थ निरपेक्षरूपसे योगी परिश्र-
म करे ॥ २०३ ॥

मूलम्—चित्तवृत्तिर्यदा लीना तस्मिन्योगी
भवेद्गुवम् ॥ तदा विज्ञायतेऽखण्डज्ञानरूपो
निरञ्जनः ॥ २०४ ॥

टीका—जब योगीकी चित्तवृत्ति इसमें निश्चय लय
होजायगी तब अखण्ड ज्ञानरूपी निरञ्जनका प्रकाश
होगा अर्थात् ज्ञान होगा ॥ २०४ ॥

मूलम्—त्रह्नांडवाह्ये संचित्य स्वप्रतीकं य-
थोदितम् ॥ तमावेश्य महच्छून्यं चिन्त-
येदविरोधतः ॥ २०५ ॥

टीका—त्रह्नांडके बाहर अर्थात् त्रह्नांडरूप शरीरके

(१८६) शिवसंहिता भाषादीकासमेता ।

बाहर पूर्वोक्त स्वप्रतीकका चिन्तन करे उससे चित्तको स्थिर करके महत शून्यका शुद्धवृत्तिसे चिन्तन करे २०६
मूलम्-आद्यन्तमध्यशून्यं तत्कोटिसूर्यस-
मप्रभम् ॥ चन्द्रकोटिप्रतीकाशमभ्यस्य
सिद्धिमाप्नयात् ॥ २०६ ॥

टीका-आदि अंत मध्य शून्य यह सर्वत्र शून्यमें
कोटि सूर्यके समान प्रभा और कोटिचन्द्रके समान
शीतलप्रकाशके देखनेका अभ्यास करनेसे साधकको
परमसिद्धि लाभ होगी ॥ २०६ ॥

मूलम्-एतद्वचानं सदा कुर्यादनालस्यं
दिने दिने ॥ तस्य स्यात्सकला सिद्धिर्व-
त्सरान्नात्र संशयः ॥ २०७ ॥

टीका-जो पुरुष आलस्यको त्यागके सर्वदा प्रति-
दिन इस शून्यका ध्यान करेगा उसको निश्चय एकवर्ष में
सकल सिद्धि लाभ होगा ॥ २०७ ॥

मूलम्-क्षणार्धं निश्चलं तत्र मनो यस्य भ-
वेद्ववम् ॥ स एव योगी सद्भक्तः सर्वलोकेषु
पूर्जितः ॥ तस्य कल्मषसङ्घातस्तत्क्षणा-
देव नश्यति ॥ २०८ ॥

टीका-जो साधक इस शून्यमें अर्धक्षणभी र्घनको

निश्चल स्थिर रखेगा वही निश्चय यथार्थ भक्त योगी है और वह सर्वलोकमें पूजित होता है और उसके पाप-का समूह उसी क्षण नष्ट होजाता है ॥ २०८ ॥

**मूलम्-यं दृष्ट्वा न प्रवर्तते मृत्युसंसारव-
त्त्वनि॥** अभ्यसेत्तं प्रयत्नेन स्वाधिष्ठानेन
वर्त्मना ॥ २०९ ॥

टीका—इसके अवलोकन करनेसे मृत्युरूप जो सं-
सारपथ है इसमें ब्रह्मण करना छूट जायगा अर्थात्
जन्ममरणसे रहित होजायगा इसका अभ्यास स्वाधि-
ष्ठानमार्गसे यत्न करके करना उचित है ॥ २०९ ॥

**मूलम्-एतद्व्यानस्य माहात्म्यं मया वकुं
न शक्यते ॥** यः साधयति जानाति
सोस्माकमपि सम्मतः ॥ २१० ॥

टीका—हे देवी ! इस शून्यके ध्यानके माहात्म्यको हम नहीं कहसकते अर्थात् बहुत विशेष है जो योगी इसका अभ्यास करते हैं सो जानते हैं और वह हमारे बराबर हैं ॥ २१० ॥

**मूलम्-ध्यानादेव विजानाति विचित्रफल-
सम्भवम् ॥** अणिमादिगुणोपेतो भवत्ये-
वनं संशयः ॥ २११ ॥

(१८८) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

टीका—यह शून्यके ध्यानका विचित्र फल ध्यानसे ही जाना जाता है इसके प्रभावसे साधकको अणिमादि अष्टसिद्धि अवश्य प्राप्त होती है ॥ २११ ॥

मूलम्—राजयोगो मयाख्यातः सर्वतन्त्रेषु
गोपितः ॥ राजाधिराजयोगोऽयं कथया-
मि समाप्तः ॥ २१२ ॥

टीका—हे पार्वती ! यह राजयोग सर्वतन्त्रोंकरके गोपित है सो तुमसे हमने कहा है अब राजाधिराज योग विस्तारसंहित कहते हैं श्रवण करो ॥ २१२ ॥

मूलम्—स्वस्तिकञ्चासनं कृत्वा सुमठे जन्तु-
वर्जिते ॥ गुरुं संपूज्य यत्वेन ध्यानमेत-
त्समाचरेत् ॥ २१३ ॥

टीका—साधक एकांतस्थान जनरहित सुन्दर मठमें यत्नपूर्वक गुहकी पूजा करके स्वस्तिकासनसे स्थित होके यह ध्यान करे ॥ २१३ ॥

मूलम्—निरालम्बं भवेजजीवं ज्ञात्वा वेदान्त-
युक्तिः ॥ निरालम्बं मनः कृत्वा न किञ्चि-
चिन्तयेत्सुधीः ॥ २१४ ॥

टीका—बुद्धिमान् श्रोगी वेदांतयुक्ति अनुसार जीव-
को और मनको निरालम्ब करके चिन्तन करे इसके सिवाय और कुछ चिन्तना न करे ॥ २१४ ॥

मूलम्—एतद्वयानान्महासिद्धिर्भवत्येव न संशयः ॥ वृत्तिहीनं मनः कृत्वा पूर्णरूपं स्वयं भवेत् ॥ २१५ ॥

टीका—इसप्रकार ध्यान करनेसे महासिद्धि उत्पन्न होगी इसमें संशय नहीं है ऐसेही मनको वृत्तिहीन करके साधक आपही पूर्ण आत्मस्वरूप होजायगा ॥ २१५ ॥
मूलम्—साधयेत्सततं यो वै सयोगी विगत-स्पृहः ॥ अहंनाम न कोप्यस्ति सर्वदा-त्मैव विद्यते ॥ २१६ ॥

टीका—जो योगी निरन्तर इसप्रकार साधन करे सो इच्छारहित है अर्थात् उसको किसी वस्तुकी इच्छा न होगी और उसके वदनसे अहंशब्द कभी उच्चारण न होगी वह सर्वदा सर्ववस्तुको आत्मस्वरूपही देखेगा ॥ २१६ ॥

मूलम्—को बन्धः कस्य वा मोक्ष एकं पश्ये-त्सदा हि सः ॥ २१७ ॥ एतत्करोति यो नित्यं समुक्तो नात्र संशयः ॥ स एव योगी सद्भक्तः सर्वलोकेषु पूजितः ॥ २१८ ॥

टीका—कौन बन्ध है और क्या मोक्ष है सर्वदा एक परिपूर्ण आत्माको देखे जो योगी यह नित्य चिन्तन क-

(१९०) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

रता है सो मुक्त है इसमें संशय नहीं है और निश्चय वही
योगी सद्गत है और सर्वलोकमें पूजनीय है २१७॥२१८॥
मूलम्-अहमस्मीति यन्मत्वा जीवात्मपर-
मात्मनोः॥ अहं त्वमेतदुभयं त्यक्ताखण्डं
विचिन्तयेत् ॥ २१९॥ अध्यारोपापवादा-
भ्यां यत्र सर्वं विलीयते ॥ तद्वीजमाश्रये-
योगी सर्वसंगविवर्जितः ॥ २२० ॥

टीका—योगी अपनेको और जीवात्मा और परमा-
त्माको तुल्य माने अर्थात् भेदरहित होजाय और हम
और तुम यह दोनों भावको त्यागके एक अखण्ड
ब्रह्मका चिन्तन करे अध्यारोपअपवादद्वारा जिसमें सर्व
वस्तुका लय होजाता है योगी सर्वसङ्गसे रहित
होके उसी बीजके आश्रय होजाय अर्थात् चित्तवृत्ति-
को आत्मामें लय करदे ॥ २१९ ॥ २२० ॥

मूलम्-अपरोक्षं चिदानन्दं पूर्णं त्यक्ता भ्र-
माकुलाः ॥ परोक्षं चापरोक्षं च कृत्वा
मृढा भ्रमन्ति वै ॥ २२१ ॥

टीका—मूढबुद्धिके मनुष्य अपरोक्ष अर्थात् प्रत्यक्ष परि-
पूर्णब्रह्मको छोड करके भ्रममें पड़के परोक्ष और अप-
रोक्षका रात्रि दिवस निर्णय करते फिरते हैं ॥ २२१ ॥

मूलम्—चराचरमिदं विश्वं परोक्षं यः करोति च ॥ अपरोक्षं परं ब्रह्मत्यक्तं तस्मिन् प्रलीयते ॥ २२२ ॥

टीका—जो मनुष्य यह चराचरसंसारको शास्त्रसे विवाद करके परोक्ष करते हैं और अपरोक्ष परब्रह्मको त्यागदेते हैं अर्थात् ब्रह्मभी प्राप्त नहीं होता वह अज्ञानी संसारमें लय होते हैं अर्थात् उनका मोक्ष नहीं होता है ॥ २२२ ॥

मूलम्—ज्ञानकारणमज्ञानं यथा नोत्पद्यते भृशम् ॥ अभ्यासं कुरुते योगी सदा सङ्गविवर्जितम् ॥ २२३ ॥

टीका—जिससे ज्ञान उत्पन्न होता है और अज्ञान-का नाश होता है इसी योगअभ्यासको योगी सर्वदा सङ्गरहित होके अभ्यास करे ॥ २२३ ॥

मूलम्—सर्वेन्द्रियाणि संयम्य विषयेभ्यो विचक्षणः ॥ विषयेभ्यः सुषुप्त्यैव तिष्ठेत्संग-विवर्जितः ॥ २२४ ॥

टीका—बुद्धिमान् योगी विषयोंसे इंद्रियोंको रोकके सङ्गरहित होके विषयके त्यागमें सुषुप्तिके समान स्थिर रहते हैं ॥ २२४ ॥

(१९२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

मूलम्—एवमभ्यासतो नित्यं स्वप्रकाशं प्र-
काशते ॥ श्रोतुं बुद्धिसमर्थार्थं निवर्तन्ते
गुरोर्गिरः ॥ तदभ्यासवशादेकं स्वतो ज्ञा-
नं प्रवर्तते ॥ २२५ ॥

टीका—इसी प्रकार नित्य अभ्यास करनेसे साधक-
को आत्मी ज्ञानका प्रकाश होगा तब गुरुके वचनकी
निवृत्ति होगी अर्थात् गुरुके उपदेशका अंत हो जा-
यगा जब इतरवाक्य श्रवण करनेकी इच्छा निवृत्त
होजायगी तब यह योगअभ्यासद्वारा आपही एक
अद्वैतज्ञानमें प्रवृत्ति होगी ॥ २२५ ॥

मूलम्—यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मन-
सा सह ॥ साधनादमलं ज्ञानं स्वयं स्फुरति
तद्वृवम् ॥ २२६ ॥

टीका—यह ब्रह्म किसी प्रकार प्राप्त नहीं होता मन
वाक्यकाभी गमन नहीं है परन्तु यह योगसाधनसे आ-
पही निर्भल ज्ञान प्रकाश होता है ॥ २२६ ॥

मूलम्—हठं विना राजयोगो राजयोगं विना
हठः ॥ तस्मात्प्रवर्तते योगी हठे सद्गुरु-
मार्गतः ॥ २२७ ॥

टीका—हठयोगके विना राजयोग और राजयोगके विना हठयोग सिद्ध नहीं होता इस हेतुसे योगीको उचित है कि, योगवेत्ता सद्गुरुद्वारा हठयोगमें प्रवृत्त हो ॥ २२७ ॥

मूलम्—स्थिते देहे जीवात् च योगं न श्रियते भृशम् ॥ इन्द्रियार्थौपभोगेषु स जीवति न संशयः ॥ २२८ ॥

टीका—जो मनुष्य इस शरीरसे योगका आसरा नहीं ग्रहण करते हैं वह केवल इंद्रियोंके भोग भोगनेके अर्थ संसारमें जीते हैं इसमें संशय नहीं है ॥ २२८ ॥
मूलम्—अभ्यासपाकपर्यन्तं मिताहान्तं स्मरणं भवेत् ॥ अन्यथा साधनं धीमान्कर्तुं पारयतीह न ॥ २२९ ॥

टीका—बुद्धिमान् साधक योगे अभ्यासके आरंभसे अभ्याससिद्धिपर्यंत मिताहारी रहे अर्थात् प्रमाणका भोजन करे अन्यथा अर्थात् अप्रमाण भोजन करनेसे योग अभ्यासके पार न होगा अर्थात् सिद्ध न होगा ॥ २२९ ॥

मूलम्—अतीवसाधुसंलापं साधुसम्मतिबुद्धिमान् ॥ करोति पिण्डरक्षार्थं बहालाप-

(१९४) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

विवर्जितः ॥२३०॥ त्यज्यते त्यज्यते स-
ङ्गं सर्वथा त्यज्यते भृशम् ॥ अन्यथा न ल-
भेन्मुक्ति सत्यं सत्यं मयोदितम् ॥२३१॥

टीका—बुद्धिमान् साधक सभामें साधुके समान
थोड़ा और प्रमाण वाक्य बोले और शरीरके रक्षार्थ
थोड़ा भोजन करे और संगको सर्वे प्रकारसे तजदे
कदापि किसीके संगमें लिप्त न होय हे पार्वति ! और
दूसरे प्रकार कदापि मुक्ति नहीं पावेगा यह हम सर्वथा
सत्य कहते हैं इसमें संशय नहीं है ॥२३० ॥ २३१ ॥

मूलम्—गुर्स्यैव क्रियते भ्यासः संगं त्यक्ता
तदन्तरे ॥ व्यवहाराय कर्तव्यो बाह्यसं-
गो न रागतः ॥ २३२ ॥ स्वे स्वे कर्मणि
वर्तन्ते सर्वे ते कर्मसम्भवाः ॥ निमित्तमात्रं
करणे न दोषोस्ति कदाचन ॥ २३३ ॥

टीका—साधक संगरहित होके एकान्त स्थानमें
योगसाधन करे यदि संसारी मनुष्योंसे व्यवहार वर्त-
नेकी इच्छा करे तो अन्तर प्रीतिरहित होके बाह्यसंग
करे और अपना आश्रम धर्म कर्मभी इसी प्रकार कर-
ता रहे इस हेतुसे कि, ज्ञानदि यावत् कर्म हैं सब कर्मा-
नुसार होते हैं फलइच्छारहित होके केवल निमित्त

मात्र कर्म करनेसे कदापि दोष नहीं है ॥ २३२ ॥ २३३ ॥
 मूलम्-एवं निश्चित्य सुधिया गृहस्थोपि
 यदाचरेत् ॥ तदा सिद्धिमवाप्नोति नात्र
 कार्या विचारणा ॥ २३४ ॥

टीका—इसी प्रकार निश्चयबुद्धिसे यदि गृहस्थभी
 योगअभ्यास करे तो वह अवश्य सिद्धि लाभ करेगा
 इसमें संशय नहीं है ॥ २३४ ॥

मूलम्-पापपुण्यविनिर्मुक्तः परित्यक्ताङ्गसा-
 धकः ॥ यो भवेत्स विमुक्तः स्याद्गृहे ति-
 ष्टन्सदा गृही ॥ २३५ ॥ न पापपुण्यैर्लिं-
 प्येत् योगयुक्तो यदा गृही ॥ कुर्वन्नपि
 तदा पापान्स्वकार्ये लोकसंग्रहे ॥ २३६ ॥

टीका—जो साधक पाप पुण्यसे निर्लिप्त इन्द्रियसं-
 गत्यागी है सोई गृही साधक गृहमें रहके मुक्त है योग-
 युक्त गृही पाप पुण्यमें बछ नहीं होता यदि संसारके
 संग्रहमें पापभी करेगा तो वह भाप उसको स्पर्श न
 करेगा ॥ २३६ ॥ २३७ ॥

मूलम्-अधुना संप्रवक्ष्यामि मन्त्रसाधन-
 मुक्तमम् ॥ एहिकामुष्मिंकसुखं येन स्या-
 दविरोधतः ॥ २३७ ॥

(१९६) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

टीका—हे देवि ! अब उत्तम मन्त्रसाधन हम कहते हैं जिससे इस लोक और परलोक दोनों स्थानमें साधक आनन्दपूर्वक सुख भोगेगा ॥ २३७ ॥

मूलम्—यस्मिन्मन्त्रे वरे ज्ञाते योगसिद्धिर्भवेत्स्वलु ॥ योगेन साधकेन्द्रस्य सर्वैश्वर्यसुखप्रदा ॥ २३८ ॥

टीका—यह उत्तम मन्त्रके ज्ञान होनेसे निश्चय योग सिद्ध होता है साधकेन्द्रको यह योग सर्वैश्वर्य सुखका दाता है ॥ २३८ ॥

मूलम्—मूलाधारेस्ति यत्पद्मं चतुर्दलसमन्वितम् ॥ तन्मध्ये वाग्भवं बीजं विस्फुर्न्तं तडित्प्रभम् ॥ २३९ ॥ हृदये कामबीजंतु बन्धूककुसुमप्रभम् ॥ आज्ञारविन्दे शक्तयाख्यं चन्द्रकोटिसमप्रभम् ॥ २४० ॥ बीजत्रयमिदं गोप्यं भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् ॥ एतन्मन्त्रत्रयं योगी साधयेत्सिद्धिसाधकः ॥ २४१ ॥

टीका—जो मूलाधार चतुर्दलसंयुक्त पद्म है उसमें विद्युतके समान प्रभायुक्त वाग्भीजकी स्थिति है और हृदयकमलमें बन्धूकपुष्पके समान प्रभायुक्त कामबी-

जकी स्थिति है और आज्ञाकमलमें कोटिचन्द्रके समान प्रभायुक्त शक्तिवीजकी स्थिति है यह बीजत्रय परम गोपनीय भोग और मुक्तिके दाता हैं यह तीनों मन्त्रका साधक योगी अवश्यसाधन करे॥२४९॥२५०॥२४१॥
मूलम्—एतन्मन्त्रं गुरोर्लब्ध्वा न हुतं न वि-
लम्बितम्॥ अक्षराक्षरसन्धानं निःसन्दि-
र्धमना जपेत् ॥ २४२ ॥

टीका—साधक गुरुसे यह मन्त्रका उपदेश लेके धी-
रे धीरे अक्षर अक्षर स्पष्ट उच्चारणपूर्वक स्थिर मन हो-
के जप करे ॥ २४२ ॥

मूलम्—तद्दत्तश्चैकचित्तश्च शास्त्रोक्तविधिना
सुधीः॥ देव्यास्तु पुरतो लक्षं हुत्वा लक्ष-
त्रयं जपेत् ॥ २४३ ॥

टीका—बुद्धिमान् साधक एकाग्रचित्तसे शास्त्रवि-
धिअनुसार देवीके समीपमें एक लक्ष होम करके ती-
नलक्ष जप करे ॥ २४३ ॥

मूलम्—करवीरप्रसूनन्तु गुडक्षीराज्यसंयु-
तम् ॥ कुण्डे योन्याकृते धीमात्रपान्ते
जुहुयात्सुधीः ॥ २४४ ॥

टीका—बुद्धिमान् साधकं जपके पीछे योन्याकार-

(१९८) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

कुण्ड बनायके कनेरपुष्पके साथ गुड और दूध और घृत मिलायके होम करे ॥ २४४ ॥

मूलम्—अनुष्ठाने कृते धीमान्पूर्वसेवा कृता भवेत् ॥ ततो ददाति कामान्वै देवी त्रिपुरभैरवी ॥ २४५ ॥

टीका—बुद्धिमान् साधक इसीप्रकार अनुष्ठानपूर्वक आराधना करके त्रिपुरभैरवी देवीको सन्तुष्ट करे तो उसको इच्छापूर्वक देवी फल देती है ॥ २४५ ॥

मूलम्—गुरुं सन्तोष्य विधिवल्लब्ध्वा मन्त्रवरोत्तमम् ॥ अनेन विधिना युक्तो मन्दभाग्योऽपि सिद्धयति ॥ २४६ ॥

टीका—साधक विधिपूर्वक गुरुको संतोष करके यह उत्तम मन्त्र ग्रहण करे इस विधानसंयुक्त ग्रहण करनेसे मन्दभाग्य साधकभी सिद्धि लाभ करते हैं ॥ २४६ ॥

मूलम्—लक्षमेकं जपेद्यस्तु साधको विजितेन्द्रियः ॥ २४७ ॥ दर्शनात्तस्य क्षुभ्यन्ते योषितो मदनातुराः ॥ पतन्ति साधकस्याग्रे निर्लज्जा भयवर्जिताः ॥ २४८ ॥

टीका—योगी इन्द्रियनिग्रहपूर्वक एक लक्ष जप करे तो उसके दर्शनमात्रसे कामातुर ख्विये माहित

होयके साधकके आगे निर्लेज और भयसहित होके
गिरती हैं ॥ २४७ ॥ २४८ ॥

**मूलम्-जप्तेन च द्विलक्षणे ये यस्मिन्विपये
स्थिताः ॥ आगच्छन्ति यथातीर्थं विमुक्त-
कुलविग्रहाः ॥ ददति तस्य सर्वस्वं तस्यै-
व च वशे स्थिताः ॥ २४९ ॥**

टीका—यह मन्त्र दो लक्ष जप करनेसे कामिनी
द्वियें साधकके समीप इसप्रकार आतीहैं कि, जैसे
कुलीना तीर्थोंमें भय लजा रहित होके जाती हैं और
साधकके वशमें होके अपना सर्वस्व उसको
देती हैं ॥ २४९ ॥

**मूलम्-त्रिभिर्लक्षैस्तथाजप्तैर्मण्डलीका स-
मण्डलाः ॥ २५० ॥ वशमायान्ति ते सर्वे
नात्र कार्या विचारणा ॥ पद्मिर्लक्षैर्महीपालं
सभृत्यबलवाहनम् ॥ २५१ ॥**

टीका—तीन लक्ष जप करनेसे मंडलसहित मंडल-
पती राजा साधकके वशमें होजाँयगे इसमें संशय नहीं है
और छः लक्ष जप करनेसे बूल वाहन संयुक्त राजा
साधकके वश होजायगा ॥ २५० ॥ २५१ ॥

मूलम्-लक्षैद्र्ददशभिर्जप्तैर्यक्षरक्षोरगेश-

(२००) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

रा: ॥ वशमायान्ति ते सब आज्ञां कुर्वन्ति
नित्यशः ॥ २५२ ॥

टीका—यह मन्त्र बारह लक्ष जप करनेसे यक्ष और
राक्षस और पत्रग यह सब वशमें होके साधककी नि-
त्य आज्ञा पालन करते हैं ॥ २५२ ॥

मूलम्—त्रिपञ्चलक्षजस्तैस्तु साधकेन्द्रस्य
धीमतः ॥ सिद्धविद्याधराश्चैव गन्धर्वाप्सर-
सांगणाः ॥ २५३ ॥ वशमायान्ति ते सर्वे
नात्र कार्या विचारणा ॥ हठाच्छ्रवणवि-
ज्ञानं सर्वज्ञत्वं प्रजायते ॥ २५४ ॥

टीका—पन्द्रहलक्ष जप करनेसे सिद्ध आर विद्याधर
और गंधर्व और अप्सरा यह सब बुद्धिमान् साधकके
वशमें होजाते हैं इसमें संदेह नहीं है और साधकको हठसे
विशेष श्रवणशक्ति होगी और सर्ववस्तुका ज्ञान उत्पन्न
होगा ॥ २५३ ॥ २५४ ॥

मूलम्—तथाष्टादशभिर्लक्षैर्देहेनानेन साध-
कः ॥ उत्तिष्ठेन्मेदिनीं त्यक्ता दिव्यदेह-
स्तु जायते ॥ भ्रमते स्वेच्छया लोके छि-
द्रां पश्यति मेदिनीम् ॥ २५५ ॥

टीका—जो साधक अठारह लक्ष जप करेगा वह भू-

मिको त्यागके दिव्य देह होके आकाशमार्गसे संसारमें
इच्छापूर्वक भ्रमण करेगा और पृथ्वीके छिद्रोंको देखेगा
अर्थात् पृथ्वीमें प्रवेश करनेके मार्ग देखेगा ॥२५५॥
मूलम्—अष्टाविंशतिभिर्लक्षैर्विद्याधरपतिर्भ-
वेत् ॥ साधकस्तु भवेद्वीमान्कामरूपो म-
हावलः ॥ २५६ ॥ त्रिशल्लक्षैस्तथाजसैब्र-
ह्नविष्णुसमो भवेत् ॥ रुद्रत्वं पश्चिभिर्लक्षै-
रमरत्वमशीतिभिः ॥ २५७॥ कोटचैकया
महायोगी लीयते परमे पदे ॥ साधकस्तु
भवद्यागी त्रैलोकये सोऽतिदुर्लभः ॥२५८॥

टीका—जो बुद्धिमान् साधक अद्वाईस लक्ष जप करेगा वह महावल कामरूपी और विद्याधरपति होजायगा और तीस लक्ष जप करनेसे साधक ब्रह्मा विष्णुके समान होजायगा और साठ लक्ष जप करनेसे रुद्रके समान होजायगा और अस्सी लक्ष जप करनेसे साधक सर्व भूतोंको प्रिय देव होजायगा और एककोटि जप करनेसे साधक महायोगी होयके परमपदमें लीन होजाताहै हे पार्वति ! इसप्रकार योगी त्रिभुवनमें दुर्लभहै ॥२५६॥२५७॥२५८॥
मूलम्—त्रिपुरे त्रिपुरन्त्वेकं शिवं परमकार-
णम् ॥ २५९ ॥ अक्षयं तत्पदं शान्तमप्र-

(२०२) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

मेयमनामयम् ॥ लभतेऽसौ न सन्देहोधी-
मान्सर्वमभीप्सितम् ॥ २६० ॥

टीका—हे पार्वति ! त्रिपुरस्थानमें एक शिवही परमका-
णर स्वरूप हैं उनका चरणकमल अक्षय शान्त अप्रमेय
अर्थात् प्रमाणरहित अनामय अर्थात् रोगरहित है उनका
पद बुद्धिमान् योगीलोगही इच्छापूर्वक लाभ करहते हैं
इसमें संदेह नहीं है ॥ २६१ ॥ २६० ॥

मूलम्—शिवविद्या महाविद्या गुप्ता चाग्रे महे-
श्री ॥ मद्भाषितमिदं शास्त्रं गोपनीयमतो
बुधैः ॥ २६१ ॥

टीका—हे महादेवि ! यह हमारी कहीहुई महाविद्या-
कोही शिवविद्या कहते हैं यह विद्या सर्वप्रकार गोपनीय
है इस योगशास्त्रको बुद्धिमान् लोग कदापि प्रकाश
नहीं करते हैं ॥ २६१ ॥

मूलम्—हठविद्या परं गोप्या योगिना सिद्धि-
मिच्छता ॥ भवेद्वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या
च प्रकाशिता ॥ २६२ ॥

टीका—सिद्धिकांक्षी योगीलोग इस हठविद्याको
अतिगोपित स्वरूपे यह गोप्य रखनेसे वीर्यवती रहती है
और प्रकाश करनेसे निर्वीर्या होजाती है ॥ २६२ ॥

मूलम्—य इदं पठते नित्यमाद्योपान्तं विचक्षणः ॥ योगसिद्धिर्भवेत्स्य क्रमेणैव न संशयः ॥ स मोक्षं लभते धीमान्य इदं नित्यमर्चयेत् ॥ २६३ ॥

टीका—जो विद्वान् यह शिवसंहिताका नित्य आद्योपान्तं पाठ करेगा उसको क्रमसे अवश्य योगसिद्धि होगी और जो बुद्धिमान् इस प्रन्थका नित्य पूजन करेगा उसको मुक्ति लाभ होगी ॥ २६३ ॥

मूलम्—मोक्षार्थिभ्यश्च सर्वेभ्यः साधुभ्यः श्रावयेदपि ॥ २६४ ॥ क्रियायुक्तस्य सिद्धिः स्यादक्रियस्य कथम्भवेत् ॥ तस्मात्क्रिया विधानेन कर्तव्या योगिपुंगवैः ॥ २६५ ॥ यद्यच्छालाभसन्तुष्टः सन्त्यक्तान्तरसंगकः ॥ गृहस्थश्वाप्यनासक्तः स मुक्तो योगसाधनात् ॥ २६६ ॥.

टीका—मोक्षार्थी और सर्व साधु मनुष्य उनको यह शिवसंहिताग्रंथ सुनाना. जो क्रियासे युक्त होगा उसको सिद्धि प्राप्त होगी क्रियाहीन मनुष्यको क्या होसकता है अर्थात् सिद्धि लाभ नहीं होसकती विधानपूर्वक क्रियाका अनुष्टान करेतो इच्छापूर्वक लाभसे सन्तुष्ट होगा और

(२०४) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

जो गृहस्थ होगा और इन्द्रियोंमें आसक्त न होगा सो मनु-
ष्य योगसाधनसे मुक्तहोगा ॥ २६४ ॥ २६५ ॥ २६६ ॥
मूलम्—गृहस्थानां भवेत्सद्विरीश्वराणां
जपेन वै ॥ योगक्रियाभियुक्तानां तस्मा-
त्संयतते गृही ॥ २६७ ॥

टीका—योगक्रियावान् गृहस्थ लोगोंको जप करनेसे
सिद्धि प्राप्तहोगी इस हेतुसे योगसाधनमें गृहस्थ मनु-
ष्यको यत्न करना उचित है ॥ २६७ ॥

मूलम्—गेहे स्थित्वा पुत्रदारादिपूर्णः सङ्गं
त्यक्ता चान्तरे योगमार्गे ॥ सिद्धेश्चिह्नं वी-
क्ष्य पश्चाद् गृहस्थः क्रीडेत्सो वै सम्मतं
साधयित्वा ॥ २६८ ॥

टीका—जो गृहस्थ गृहमें रहके स्त्रीपुत्रादिसे पूर्ण
होके अंतरीय सबसे त्यागपूर्वक योगसाधनसे प्रवृत्त
होय सो सिद्धिचिह्न अवलोकनपूर्वक साधना करके
सर्वदा आनन्दमें क्रीडा करेगा ॥ २६८ ॥

इति श्रीशिवसंहितायां हरगौरीसंवादे योगशास्त्रे
पंचमः पटलः समाप्तः ॥ ६ ॥ शुभम् ॥

समाप्तोऽयं ग्रन्थः ।

पुस्तकं मिलनेका ठिकाना—

खेमराज, श्रीकृष्णदास,

“श्रीवेङ्कटेश्वर” छापाखाना, खेतवाडी—बंबई.

श्रीः ।

उमामहेश्वरमाहात्म्यम् ।

उमा भगवतियेयं ब्रह्मविद्याति कीर्तिंता ।
रूपयौवनसम्पन्ना वधूर्भूत्वात्र सा स्थि-
ता ॥१॥ नानाजातिवधूनां हि विवभूताम-
हेश्वरी ॥२॥ यस्याः प्रसादतः सर्वः स्वर्गं
मोक्षं च गच्छति ॥इह लोके मुखं तद्वज्जं-
तुर्देवादिकोपि वा ॥३॥ ब्रह्मा विष्णुस्त-
था रुद्रः शक्राद्याः सर्वदेवताः ॥ कटाक्षपा-
ततो यस्या भवन्ति न भवन्ति च ॥४॥ पीनो-
ब्रतस्तनी प्रौढजघना च कृशोदरी ॥चंद्रा-
नना मीननेत्रा केशभ्रमरमंडिता ॥५॥
सर्वागसुंदरी देवी धैर्यपुंजविनाशिनी ॥
कांचीगुणेन चित्रेण वलयं गदनूपुरैः ॥६॥
हारमुक्तादिसंजातैः कंठाद्याभरणैरपि ॥
मुकुटेनापि चित्रण कुंडलाद्यैः सहस्र-
शः ॥७॥ विराजिता ह्यनौपम्यरूपा भूष-
णभूषणा ॥ जननी सर्वजगतो द्वष्टव-
र्षा चिरंतनी ॥८॥ त्रया समेतं पुरुषं तत्प-

(२०६) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

तिं तदुणाधिकम् ॥ ब्रह्मादीनां प्रभुं नाना-
सर्वभूषणभूषितम् ॥ ९ ॥ द्वीपिचर्मावृतं
शश्वदथवापि दिगंबरम् ॥ भस्मोद्भूलितस-
र्वांगं ब्रह्ममूर्ध्यैघमालिनम् ॥ १० ॥ तथैव चं-
द्रखंडेन विराजितजटातटम् ॥ गंगाधरं
स्मरमुखं गोक्षीरधवलोज्जवलम् ॥ ११ ॥
कंदर्पकोटिसदृशं सूर्यकोटिसमप्रभम् ॥
सृष्टिस्थित्यंतकरणं सृष्टिस्थित्यंतवर्जि-
तम् ॥ १२ ॥ पूर्णेन्दुवदनांभोजं मूर्यसो-
माग्निवर्चसम् ॥ सर्वांगसुंदरं कंचुग्रीवं चा-
तिमनोहरम् ॥ १३ ॥ आजानुवाहुं पुरुषं
नागयज्ञोपवीतिनम् ॥ पद्मासनसमासी-
नं नासाग्रन्यस्तलोचनम् ॥ १४ ॥ वाम-
देवं महादेवं गुरुणां प्रथमं गुरुम् ॥ स्वयं-
ज्योतिःस्वरूपं तमानंदात्मानमद्वयम्
॥ १५ ॥ यतो हिरण्यगर्भोयं विराजो
जनकः पुमान् ॥ जातः समस्तदेवानाम-
न्येषां च नियामकः ॥ १६ ॥ नीलकंठम-
मुं देवं विश्वेशं पापनाशनम् ॥ हादि पंचे-

थवा सूर्ये वह्नौ वा चंद्रमंडले ॥ १७ ॥ कैला
सादिगिरौ वापि चिंतयेद्योगमाश्रितः ॥
एवं चिंतयतस्तस्य योगिनो मानसंस्थि-
रम् ॥ १८ ॥ यदा जातं तदा सर्वप्रपञ्चरहितं
शिवम् ॥ प्रपञ्चकरणं देवमवाङ्मनसगो-
चरम् ॥ १९ ॥ प्रयाति स्वात्मना योगी पु-
रुषं दिव्यमद्वृतम् ॥ तमसः स्वात्ममोहस्य
परं तेन विवर्जितम् ॥ २० ॥ साक्षिणं सर्वबु-
द्धीनां बुद्ध्यादिपरिवर्जितम् ॥ उमासहा-
यो भगवान्सगुणः परिकीर्तितः ॥ २१ ॥ नि-
र्गुणश्च स एवायं न यतोन्योस्ति कश्चन ॥
ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रः शक्रो देवसमन्वि-
तः ॥ २२ ॥ अग्निः सूर्यस्तथा चंद्रः कालः
मृष्ट्यादिकारणम् ॥ एकादशोद्दियाण्यंतः
करणं च चतुर्विंधम् ॥ २३ ॥ प्राणाः पंचम-
हाभूतपञ्चकेन समन्विताः ॥ दिशश्च प्र-
दिशस्तद्वदुपरिष्ठादधोपि च ॥ २४ ॥ स्वे-
दजादीनि भूतानि ब्रह्मांडं च विराङ्गुपः ॥


(२०८) शिवसंहिता भाषाटीकासमेता ।

विराङ्गहिरण्यगर्भश्च जीव ईश्वर एव
च ॥२५॥ मायातत्कार्यमखिलं वर्तते स-
दसञ्च यत् ॥ यञ्च भूतं यञ्च भव्यं तत्सर्वं
स महेश्वरः ॥ २६ ॥

इति श्रीमदुमामहेश्वरमाहात्म्यं संपूर्णम् ।

पुस्तक मिलनेका ठिकाना.

खेमराज श्रीकृष्णदास,
श्रीवेङ्कटेश्वर छापखाना (मुंबई)



ऋग्यपुस्तकैः—(योगशास्त्रग्रन्थाः ।)

नाम.	की. रु. आ.
पातंजलयोगदर्शन-अत्युत्तम भाषानुवाद सहित १-०	...
सांख्यदर्शन अत्युत्तम भाषानुवाद सहित ... १-८	
वैशेषिकदर्शन सुबोध भाषानुवाद समेत ... ०-१२	
हठयोगप्रदीपिका उत्तम भाषाटीका सहित ... १-४	
शिवस्वरोदय भाषाटीका ०-८	
शिवसंहिता भाषाटीका सह (योगशास्त्र) ... १-०	
गोरखपद्मति भाषाटीका (योगसाधनविधि) ०-१२	
स्वरोदयसार चरणदासकृत ०-२	
योगतत्त्वप्रकाशभाषा (योगाभ्यासकी प्रणाली परमोपयोगी है) ०-२	
स्वरदर्पण सटीक १ स्वर प्रश्नवर्णित है ... ०-४	

वेदान्तग्रन्थाः ।

ब्रह्मसूत्र (शारीरक) वेदान्ततत्त्वप्रकाश भाषा- भाष्य समेत श्रीप्रभुदयालुविरचित बहुत सरल सुबोध है ४-०	
ब्रह्मसूत्र (शारीरक) भाषाटीका १-८	
वेदान्तपरिभाषा शिखामणि टीका और मणि- प्रभा टीकासमेत २-८	
वेदान्तपरिभाषा अर्थदीपिका टीकासमेत ... १-०	
वेदान्तपारिभाषा अत्युत्तम भाषाटीका समेत ... १-४	
वेदान्तसार संस्कृत मूल और संस्कृतटीका तथा भाषाटीकासहित ०-१२	
पञ्चदशीसटीक (संस्कृत टीका) २-०	

पंचदशी	पं०	मिहिरचंद्रकृत अत्युत्तम	
भाषाटीका सहित ४-०
पंचदशी भाषा-आत्मस्वरूपजीकृत	३-०
शारीरक ब्रह्मसूत्रम्-मध्वभाष्यसमेतं तत्त्वप्रका-			
शिका टीकोपेतं च ५-०
गीता चिदधनानंदस्वामिकृत गूढार्थदीपिका मूल			
अन्वय पदच्छेदके सहित भाषाटीका	७-०
गीता आनंदगिरिकृतभाषाटीका	२-८
श्रीमद्भगवद्गीता सान्वय ब्रजभाषा दोहा सहित	१-४		
गीतामृततरंगिणी भाषाटीका (रघुनाथप्रसा-			
दकृत) अक्षरबड़ा १-०
गीतामृततरंगिणी भाषाटीका पाकिटबुक	०-१२
श्रीरामगीता मूल ०-२
श्रीरामगीता भाषाटीका पदप्रकाशिका अनुवा-			
दसमुच्चय और विषमपदीके सहित	०-८
श्रीमद्भगवद्गीतापंचरत्न अक्षर मोटा गुटका			
रेशमी १-०
" पंचरत्न अक्षरबड़ा खुलापत्रा छोटीसंची	१-८
" पंचरत्न अक्षरबड़ा लंबीसंची खुला	१-०
" पंचरत्न भाषाटीका २-०
गीता श्रीधरीटीका सहित १-०
गीता बड़े अक्षरकी १६ पेजी गुटका	०-१२
गीता बड़े अक्षरकी खुली १२ पेजी	०-१०
गीता गुटका विष्णुसहवृत्ताम सहित	०-८
गीता पंचरत्न और एकादशरत्न	१-२
" पंचरत्न द्वादशरत्न	० १०

गीतापञ्चरत्न नवरत्न पाकिटबुक्	०-७
गीता गुटका पाकिट बुक्	०-५
अष्टावक्रगीता अत्युत्तम सान्वय भाषाटीका	१-०
शिवगाता भाषाटीकासहित	०-१२
गणेशगीता भाषाटीकासहित	०-६
गीतापञ्चदश भाषाटीका [काइयपगीता, शान- कगीता, अष्टावक्रगीता, नहुषगीता, सरस्व- तीगीता, युधिष्ठिरगीता, बकगीता, धर्मव्या- धगीता, श्रीकृष्णगीतादि]	०-१२
पाण्डवगीता भाषाटीका सह	०-३
तथा मूल ४ रत्न बड़ा अक्षर	०-२
देवीगीता भाषाटीका	०-८
अपरोक्षानुभूति संस्कृतटीका भाषाटीका सहित			०-१०
आत्मबोध भाषाटीका	०-३
तत्त्वबोध भाषाटीका	०-२
वेदांतग्रंथपञ्चकम् (वाक्यप्रदीपः, वाक्यसुधारसः, हस्तामलकः, निर्वाणपञ्चकं, मनीषापञ्चकं) स०	०-८		
वेदस्तुति भाषाटीका सह	०-८
गीता रामानुजभाष्य	२-०
भगवद्गीता भावप्रकाशटीकाया)	३-०
वैराग्यभास्कर भाषाटीका	०-८
सिद्धांतचंद्रिका सटीक (वेदांत)	०-८
द्वादशमहावाक्यविवरण	०-४
वेदांतरामायण भाषाटीका सह ;	१-८
वेदान्तसंज्ञा भाषाटीका	०-८
प्रश्नोत्तरमुक्तावली भाषाटीका (वेदान्त)	०-३

जीवन्मुक्तगीता भाषाटीका ०-१
भक्तिमीमांसा—शांडिल्यऋषिप्रणीता	आचार्य	
स्वप्रेश्वरविरचितेन भाष्येण संयुता	...	०-८
योगवासिष्ठ सटीक संस्कृत	...	२०-०
कंपिलगीता भाषाटीका ०-६
अवधूतगीता गुटका रेशमी ०-६
नारदगीता मूल ०-१
प्रश्नोत्तरी भाषाटीका ०-२

वेदान्त भाषा ।

आत्मपुराण भाषा [चिद्रनानन्द स्वामिकृत]	१२-०
योगवासिष्ठभाषा बड़ा संपूर्ण	... १२-०
योगवासिष्ठगुटका वैराग्य मुमुक्षु प्रकरण वेदान्त	
उत्तम कागज अक्षर बड़ा ०-१२
वासिष्ठसार भाषा वेदान्त ६ प्रकरण	... २-०
मोक्षगीता (सवालक्ष) रामनाम	... १-०
वृत्तिप्रभाकर स्वामी निश्चलदासकृत (वेदान्तका	
ग्रंथ शुद्धकर नया छपा है)	... ३-०
विचारसागर सटीक निश्चलदासजीकृत	... २-०
एकादशस्कंध भाषा चतुरदासकृत	... ०-१२
अमृतधारा वेदान्त ०-१२
संतोषसुरतह वेदांत	... ०-८
संतप्रभाव वेदांत ०-६
विचारमालासटीकश्रीगोविन्ददासजीकीटीकास.	०-१२
अभिलाषसागर भाषा (वेदांत) १-८
संपूर्ण पुस्तकोंका “बड़सूचेपत्र” अलगहै मँगालीजिये ।	
खेमराज श्रीकृष्णदास “श्रीवेङ्कटेश्वर” स्टीमू प्रेस—बंबई.	

